

**THE BOOK WAS
DRENCHED
TEXT FLY WITHIN
THE BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176346

UNIVERSAL
LIBRARY

दर्शन का प्रयोजन

डाक्टर भगवान् दास

OUP -557 -13-7-71--3,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. **H181.4
B57D**

Accession No. **P. G.
H1186**

Author **भगवानदास -**

Title **दशनि का प्रयोजन. 1948.**

This book should be returned on or before the date last marked below.

दर्शन का प्रयोजन

डाक्टर भगवान् दास

नया संस्करण



१९४८

**ज्ञानमण्डल (पु. भा.) लिमिटेड,
काशी.**

इस संस्करण का सब अधिकार ज्ञानमण्डल को
रहैगा । अन्य भाषाओं में अनुवाद करने की
अभी से सब को छूटे है ।

मूल्य ३॥)

ओम् प्रकाश कपूर
ज्ञानमण्डल (यन्त्रालय) लिमिटेड, काशी

प्रस्तावना—दूसरा संस्करण

इस नये संस्करण मे पुराने संस्करण के सब बाक्य रक्खे गये हैं; कोई कमी नहीं की गई है; किन्तु कुछ शोधन और बहुत परिवर्धन किया है।

प्रथम संस्करण के 'पाठकों से निवेदन' रूप प्रस्तावना मे लिखा है कि 'दर्शन के इतिहास' का विहगावलोकन भी ग्रंथ के अन्त मे रख देने की इच्छा थी, पर पूरी न कर सका; वह इच्छा इस संस्करण मे पूरी कर दी है।

श्री देवनारायण द्विवेदी और ज्ञानमंडल प्रेस ने कागज के दुर्भिक्ष के समय मे, जब सब वस्तुओं का मूल्य और काम करने वालों का वेतन चौगूना छःगूना हो रहा है, और प्रेस की धातुबाने की सभी सामग्री, ट्रेप, ताम्बा के ट्रेप ढालने के मैट्रिक्स, लोहे की मशीनें, आदि, का दाम तो बीस और पच्चीस गूना हो गया है—ऐसे नीवाक (रैशनिङ्) और प्रयाम (कन्ट्रोल) के दुष्काल मे इस पुस्तक को छापने की हिम्मत की, इस लिये मैं उन का बहुत आभारी हूँ।

बनारस (कॉन्ट),
सौ० ३० श्रावण, २००५ वि० }

भगवान् दास
(१५ अगस्त, १९४८ ई०)

पाठकों से निवेदन

संयुक्तप्रांत की हिंदुस्तानी एकेडेमी की ओर से, जेनरल सेक्रेटरी डाक्टर ताराचंद जी ने, सन् १९२९ ई० के अंत में, पत्र द्वारा मुझे निर्मंत्रण भेजा, कि दर्शन के विषय पर दो व्याख्यान प्रयाग में दो। तदनुसार, ता० १० और ११ जनवरी, सन् १९३० ई० को मैं ने दो व्याख्यान दिये। विषय 'दर्शन का प्रयोजन' था। डाक्टर ताराचंद जी ने कहा कि इन को विस्तार से लिख दो तो छपा दिये जायें। मैं ने स्वीकार किया।

तीन महीने के बाद देश में 'नमक-सत्याग्रह' का हलवल आरंभ हो गया; सन् १९३१ ई० में बनारस और कानपुर में घोर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए; सन् १९३२ ई० में फिर 'सविनय अवज्ञा' आरंभ हुई, जिस की परम्परा सन् १९३४ ई० की गर्मियों तक रही; इन सब के संबंध में मुझे बहुत व्यग्रता रही, जिस को विस्तार से लिखने का यहाँ प्रयोजन और अवसर नहीं। सन् १९३४ के अंत में मित्रों ने, जिन की मैं 'नहीं' न कर सका, मुझे कांग्रेस की ओर से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली (केन्द्रीय धर्मपरिषत्) में जाने के लिए विवश किया।

सन् १९३४ ई० की गर्मियों में, बनारस के पास चुनार के छोटे नगर, क्या ग्राम, में, गंगा के किनारे रह कर, उन दो व्याख्यानों के अधिकांश का विस्तार लिख कर, जेनरल सेक्रेटरी जी के पास भेजा। सितम्बर, सन् १९३६ ई० में, जब मैं असेंबली के काम से शिमले में था, पहिले प्रूफ मिले। कभी कदाचित् प्रेस की ओर से देर होती थी, पर अधिकतर मेरी ओर से; कुछ तो मेरी प्रकृति के दोष से, कि एक चलते हुए काम को समाप्त किये बिना, मित्रों के निर्वन्ध से दूसरे काम उठा लेता हूँ; और कुछ अनिवार्य अंशों और विघ्नो के कारण। इन हेतुओं से छापने के काम में विलम्ब होता रहा। लेख का विस्तार भी, प्रूफों में, होता गया।

सन् १९४० ई० की गर्मियों तक चार अध्याय पूरे छप गये। इन में यह दिखाने का यत्न किया है कि सांसारिक और पारमार्थिक दोनों ही सुखों का उत्तम रूप बतलाना, और दोनों के साधने का उत्तम उपाय दिखाना—यही दर्शन का प्रयोजन है। इन दोनों सुखों के साधने के लिए समाज की सुव्यवस्था कितनी आवश्यक है; और दर्शनशास्त्र, आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, के सिद्धांतों के अनुसार, उस व्यवस्था का क्या उत्तम रूप है; यह चौथे अध्याय में दिखाया है।

इतने से पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया; अगला बयस् और उस के साथ-

साथ तन और मन का थकाव, भी दिन दिन बढ़ता जाता है; यह देख कर जी चाहा कि इस काम को यहीं समाप्त कर दें। पर पहिले से यह विचार था, और प्रयाग के दूसरे व्याख्यान के अंत में इस का कुछ संकेत भी किया था, कि दर्शन के इतिहास का एक 'बिहंगमावलोकन' (बर्ड्ज आइ-व्यू) भी, प्रयोजन के वर्णन के साथ, समाविष्ट कर दिया जाय, क्योंकि प्रायः उस से भी इस विश्वास का समर्थन होगा कि प्रत्येक देश और काल में, विचारशील सज्जनों ने, दर्शन का अन्वेषण इसी आशा से किया, चाहे उस आशा का रूप अस्पष्ट अव्यक्त ही रहा हो, कि उस से चित्त को शांति भी और सांसारिक व्यवहार में सहायता भी मिलेगी। इस हेतु से इस लालच ने बल पकड़ा कि यह अंग भी पूरा कर दिया जाय। यह जान कर भी कि डाक्टर ताराचंद जी जेनरल सेक्रेटरी को, उन के कार्यालय को, और छापाखाने को, हंश दे रहा हूँ, मैंने डाक्टर ताराचंद जी को लिखा कि जहाँ आप ने इतना धैर्य किया, कुछ सप्ताहों के लिये और धीरज धरें; उन्होंने ने दया कर के स्वीकार कर लिया।

पर उन को यह नया बलेश देना मेरी भूल ही थी। आकांक्षा बढ़ी, शक्ति थोड़ी, काम बहुत बढ़ा ! आशा यह की थी कि चीन-जापान, हिंदुस्तान, अरब ईरान, यहूदिस्तान, ग्रीस रोम, मध्यकालीन (मेडीवल) और अर्वाचीन (माडर्न) यूरोप अमेरिका — इन सब देशों के दर्शन के इतिहास का दिग्दर्शन, जिस को बीस पच्चीस बड़ी संचिकाओं में भी, बहुत संक्षेप से भी, समाप्त करना कठिन है, मैं कुछ सप्ताहों में, और एक ही अध्याय में, और वह भी ५२ वर्ष के वयस् में लिख लूँगा !

यद्यपि मैंने मन में इस विहंगमावलोकन की रूप-रेखा सोच ली थी; और, जो थोड़ी सी पुस्तकें चिबिध देश काल के दार्शनिकों के विचारों के संबंध में देख पाई थीं उन से मुझे यह निश्चय भी हो गया था, (और है), कि इन ग्रंथों में शब्दों ही की भरमार और भिन्नता बहुत, अर्थ थोड़े और सब में समान ही; जैसे एक मनुष्य, बदल-बदल कर, सैकड़ों प्रकार के वस्त्र पहिने, तो वस्त्रों का ही भेद हो, पर मनुष्य का एक ही सच्चा रूप रहै; और इस रूपरेखा और इस विचार के अनुसार लिखना भी आरंभ कर दिया; पर थोड़े ही दिनों में विवृत हो गया कि, एक एक देश के दार्शनिकों में से, प्रत्येक शताब्दी के लिये, सामान्यतः एक-एक वा दो-दो मुख्य मुख्य दार्शनिकों को चुन कर, और उन के एक-एक भी मुख्यतम विचार का निश्चय कर के, निरी सूची मात्र भी प्रस्तुत कर देना, महीनो, स्यात् बरस दो बरस, का समय चाहेगा; उस पर भी निश्चय नहीं, अपितु बहुत सन्देह, कि निरन्तर काम कर सकूँगा। यदि निरंतर काम कर सकने का निश्चय होता, तो स्यात् समाप्त कर सकने का भी कुछ निश्चय होता। बुढ़ापे की बुद्धि-शक्ति का वर्णन, एक हिन्दी कवि ने बहुत मनोहर किया है।

छिन मा चटक, छिनहि मा मद्धिम, बिना तेल जस दीप बरन् ।

फारसी का एक शेर इस भाव को दूसरी सुन्दर रीति से कहता है—

गहे बर तारुमे आला नशीनम् गहे मन् पुश्ति पाये खुद न वीनम् ।

‘कभी तो, मानो बहुत ऊँचे गोपुर, अटारी, मीनार, के ऊपर बँठा हुआ बहुत दूर-दूर की वस्तुओं को देखता हूँ। कभी अपने पैर को भी नहीं देख सकता हूँ।’ देर दिन चित्त में स्फूर्ति होती है तो चार दिन म्लानि म्लानि, सब शक्तियाँ शिथिल ।

ऐसी अवस्था में, पोली आशाओं पर पुस्तक को न जाने कितने दिनों तक मुद्रणालय में पड़ा रहने देना नितांत अनुचित, और हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के कार्यालय पर अत्याचार, होगा। इस लिये अब निश्चय कर लिया कि जितना छप गया है उम को यही समाप्त कर के, पुस्तक को प्रकाशित कर ही देना उचित है। और इस को समग्र पुस्तक का प्रथम भाग समझना चाहिये।

विहंगमावलोकन का काम जो आरंभ हो गया है, उम को शक्ति और समय के अनुसार (—‘समय’ इस लिये कि अभी भी दूसरी अंशों से सर्वथा अवकाश नहीं है—) चलता रक्खूंगा। यदि शरीर और बुद्धि ने साथ दिया, और काम पूरा हो गया, तो इस ग्रन्थ के दूसरे भाग के रूप में वह प्रकाशित होगा।

यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि इस ग्रन्थ में ‘कापी-राइट’ का अधिकार, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, यू० पी०, को, पुस्तक के प्रकाशित होने के पीछे, तीन वर्ष तक, अर्थात् सन् १९४३ के अंत तक रहैगा। इस के अनंतर जिम का जी चाहे इस को, या किसी अन्य भाषा में इस के अनुवाद को, छपा सकैगा। हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, जिन पुस्तकों को छापती हैं, उन के लेखकों को पुरस्कार दिया करती हैं। मेरी जीविका दूसरे प्रकार से उपलब्ध है, इस लिये मैं अपने ग्रंथों के लिये पुरस्कार, ‘रॉयल्टी’ आदि, नहीं लेता; मैं ने जेनरल सेक्रेटरी जी को यह लिखा कि मुझे पुरस्कार न दे कर, उस के विनिमय में, यह स्वीकार कर लें कि तीन वर्ष पीछे इस में ‘कापीराइट’ न रहैगा। उन्होंने हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, यू० पी०, की ओर से यह स्वीकृति मुझ को लिख भेजी। यह प्रबन्ध मैं ने इस लिये कर लिया है कि इस ग्रंथ में कोई मेरी उपज की नई बात नहीं है, सब पुरानी आर्ष बातें ही लिखी हैं, और मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि उन बातों का अधिकाधिक प्रचार हो, ‘कापीराइट’ आदि के कारण उस के प्रचार में कमी न हो।

एक बात और लिख देना उचित (मुनासिब) जान पड़ता है। कुछ लोगों को ऐसी धारणा (खयाल) है, कि हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के उद्देश्यों (मकसदों) में एक यह भी था कि जिन पुस्तकों (किताबों) को यह संस्था (इंस्टीट्यूशन, सीमा, सर्चिस्तः) प्रकाशित (शायः) करे, उन की भाषा (जबान) ऐसी हो जिस से हिन्द उर्दू का झगड़ा मिटै, और दोनों के बीच की एक ऐसी बोली, ‘हिंदुस्तानी’ के नाम से,

बन जाय, जो दोनो का काम दे सकै, और सारे भारतवर्ष (हिंदुस्तान) मे फैले । थोड़ा बहुत जतन (यत्न, कोशिश) इस ओर मैं ने भी छोटे मोटे लेखों (तहरीरों) मे किया, पर मेरे अनुभव (तजुबे) का निचोड़ यही है कि ऐसी बोली साधारण (मामूली) काम के लिये तो बहुत कुछ इस समय (वक़्त) भी चल रही है, और कुछ अधिक (ज़्यादा) भी चलई जा सकती है; किन्तु शास्त्रीय वादों, लेखों, और ग्रन्थों, (इल्मी त.क़ीरों, तहरीरों, और किताबों) के काम के लिये नहीं बन सकती; इस काम के लिये या तो संस्कृत के शब्दों को, या अरबी फ़ारसी के लफ़्ज़ों को बहु-तायत से लिखना बोलना पड़ेगा । पर यह अवश्य (ज़हूर) करना सम्भव (मुमकिन) भी है, और उचित (मुनासिब) भी है, कि जहाँ तक हा सकै संस्कृत शब्दों के साथ, 'त्रैकेट' मे, उन के तुल्यार्थ (हम-मानी) अरबी-फ़ारसी शब्द, और अरबी-फ़ारसी लफ़्ज़ों के साथ उन के समानार्थ (हम-मानी) संस्कृत शब्द, भी लिख दिये जाया करें । इस रीति (तरीक़े) मे कुछ दोष (नुज़स) तो हैं ही; पढ़ने वालों को कुछ पीड़ा (तकलीफ़) होगी, जैसे रोहों पर दौड़ती हुई गाड़ी मे बैठे यात्री (मुसाफ़िर) को; पर गुण (वस्फ़) यह है कि उर्दू जानने वालों को हिंदी के भी, और हिंदी जानने वालों को उर्दू के भी, पाँच पाँच सात सात सौ शब्दों का ज्ञान (इल्म) हो जायगा, और एक दूसरे के वार्त्तालाप (गुफ़्तोगू, त.क़ार) और लेख (तहरीर) समझना सरल (सहल) हो जायगा । यह तो स्पष्ट (ज़ाहिर) ही है कि वाक्यों (जुम्लों) की बनावट (रचना, तरीक़े) हिंदी और उर्दू दोनो मे एक सी है, और क्रिया (फ़ाल) के पद (लफ़्ज़) भी दोनो मे अधिकतर (ज़्यादातर) एक ही हैं; भेद (फ़र्क) है ता संज्ञा-पदों (इस्म के लफ़्ज़ों) मे है । इन थोड़े से वाक्यों (जुम्लों) मे, मेरे मन (राय) का उदाहरण (नमूना) भी दिखा दिया गया है, और इस ग्रन्थ (किताब) मे कई स्थलों (जगहों) पर भी इस रीति (तरीक़े) से काम लिया गया है ।

परमात्मा से, (रूहुल-रूह, रुहि आज़म) से, मेरी हार्दिक प्रार्थना है, (दिली इन्तिज़ा है), कि इस किताब के पढ़ने वालों के चित्त को शांति (सलम) मिलै, और समाज के (इन्मानी जमाअत के) व्यवस्थापकों (मुन्तज़िमों) और सुधारने वालों का ध्यान इस देस के पुराने ऋषियों (रसीदः बुजुर्गों) के दिखाये हुए मार्ग की (राह की) ओर झुकै । तभी दर्शन का, (फ़लसफ़ा का), प्रयोजन सिद्ध होगा (मक़सद हा मिलेगा) । सांमरिक और पारमार्थिक (दुनियावी और इलाही, रूहानी) दोनो मुखों को साधने का मार्ग जो दरसावै वही सच्चा दर्शन ; यही दर्शन का प्रयोजन है ।

यद् आभ्युदयिकं चैव, नैश्रेयसिकमेव च,
सुखं साधयितुं मार्गं दर्शयेत् तद् हि दर्शनं ।

बनारस,
१५ सितम्बर, १९४०

} आप का शुभचिंतक (खैर-अंदेश)

भगवान् दास

विषय-सूची

	पृष्ठ
अध्याय १—दर्शन का मुख्य प्रयोजन	१
सनत्कुमार और नारद की कथा	३३
यम-नचिकेता की कथा	४
याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी	६
बुद्धदेव	७
महावीर-जिन	९
ईसा मसीह	१०
सूफी	१२
तौरत, इंजील, कुरान	१३
निष्कर्ष	१५
‘दर्शन’ शब्द	११
न्याय	१६
वैशेषिक	१८
सांख्य	११
योग	२३
पूर्व मीमांसा	२४
वेदांत अर्थात् उत्तर मीमांसा	२६
पाश्चात्य मत — आश्चर्य से ‘जिज्ञासा’	२९
—कुतूहल से; संशय से—कल्पना की इच्छा से	३२
अतिवाद	११
विशेष प्रयोजन से जिज्ञासा	३५
कर्तव्य कर्म में प्रवर्तक हेतु की जिज्ञासा	३६
वैराग्य से जिज्ञासा	११
सब का संग्रह	३८
पाश्चात्य की कविता में भी उसी दिव्य वासना का अंकुर	४१
दर्शन और धर्म (मजहब, रिलिजन)	४४

धर्म की परा काष्ठा—दर्शन	...	५५
आत्म-दर्शन ही परम धर्म	...	५६
सब धर्मों का यही परम अर्थ	...	५७
सब धर्मों का परम अर्थ यही है कि आत्मदर्शन हो	...	५७
अध्याय २—दर्शन का गौण प्रयोजन		५३
‘राज-विद्या’ का अर्थ; उस की उत्पत्ति की कथा	...	५३
इस का उपयोग—इहलोक, परलोक, लोकातीत, सब का बनाना	...	६३
‘ब्रह्मा’ शब्द का अर्थ	...	६४
‘ब्रह्म’ और ‘धर्म’; राजविद्या और राजधर्म	...	६५
पश्चिम में आत्मविद्या की ओर बढ़ता झुकाव	...	७५
गणित और प्रज्ञान	...	७८
आत्म-विद्या की शाखा प्रशाखा	...	८०
आत्म-विद्या और चित्त-विद्या	...	८१
आत्म-विद्या के अवान्तर विभाग	...	८४
‘वेद-पुरुष’ के अंगों गंग	...	८६
मुख्य और गौण प्रयोजनों का संबंध	...	९०
अध्याय ३—दर्शन की सामाजिक विश्व-व्रतीनता		९५
सांसारिक-दुःख-बाधन और सांसारिक मुख- साधन	...	९५
(काम्युनिस्ट) साम्यवाद और (साइको-ऐनालिटिक) कामीयवाद का अध्यात्म-वाद से परिमार्जन	...	१०४
अध्याय ४—‘दर्शन’-शब्द; ‘दर्शन’-वस्तु; ‘दर्शन’-प्रयोग		१०७
‘दर्शन’-शब्द	...	१०७
‘दर्शन’ की शक्ति का लाभ करने के योग- मार्गीय रहस्य उपाय	...	१०८
‘दर्शन’-वस्तु	...	१०९
‘दर्शन’-शब्द का व्यवहार अन्य ग्रन्थों और अर्थों में	...	१०९

'वाद', 'मत', 'बुद्धि', 'दृष्टि', 'राय'	...	१११
'जगह बदली, निगाह बदली'	...	१११
'दर्शन' शब्द का रूढ़ अर्थ	...	११२
'-वाद', '-इज़म'	...	११३
'वाद, विवाद, सम्वाद'	...	११४
'दर्शन' का प्रयोग, व्यवहार मे	...	११८
सन्ध्यास का दुष्प्रयोग	...	११९
मन्दिरों का दुरुपयोग	...	१२०
आत्मज्ञानी ही व्यवहार-कार्य अच्छा कर सकता है	...	१२१
'प्रयोग' ही 'प्रयोजन'	...	११२
वर्णाश्रम व्यवस्था की वर्तमान दुर्दशा; अ-ध्यात्म- शास्त्र से जीर्णोद्धार	...	१२३
निष्कर्ष	...	१२९
राजविद्या, राजगुह्य	...	१३१
बिना सदाचार के वेदान्त व्यर्थ	...	१३३
धर्मसर्वस्व की नीवी, सर्वव्यापी आत्मा	...	१३५
कारावास-परिष्कार, सैंको ऐनालिसिस, आदि	...	१३३
दर्शन की परा काटा	...	१३४
सर्वसमन्वय	...	१३८
स्वप्न और भ्रम भी, किन्तु नियमयुक्त भी	...	१३९
अध्यास-वैराग्य से आवरण विक्षेप का जय	...	१४१
दर्शन और धर्म से स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ सभी	...	१४४
'दर्शन' से गृहार्थों का दर्शन	...	१४८
मानव-समाज-व्यवस्था की नीवी	...	१५६
अध्याय ५--पौराणिक रूपकों के अर्थ	...	१५४
पौराणिक रूपक	...	१५५
बारह रूपकों का अर्थ	...	१५९
कुछ अन्य रूपक	...	१७९
रूपकों की चर्चा का प्रयोजन	...	१८५
सभी ज्ञान, कर्म के लिये	...	१८६
धर्म और दर्शन से स्वार्थ परार्थ परमार्थ सब का साधन	...	१८७

अध्याय ६—दर्शनसार और धर्मसार	...	१९०
दर्शनसार और धर्मसार	...	१६९
वर्णाश्रम-व्यवस्था का सच्चा स्वरूप	...	१७२
ऋण-चतुष्कादि	...	१९३
समग्र दर्शन और धर्म का संग्रह	...	१३६
अतिवाद से उत्पन्न विरोधों का परिहार	...	१४७
अध्याय ७—दर्शन का इतिहास	...	१९८
चीन देश का दर्शन	...	२००
जापान ,,	...	२०४
तिब्बत, बर्मा, आदि का	२०५
भारत ,,	...	२०६
बौद्ध दर्शन	...	,,
जैन ,,	...	२०७
औपनिषद् अद्वैतादि ,,	...	२०९
मीमांसा दर्शन	...	२१०
शंकराचार्य के शिष्य प्रशिष्य	...	२११
पाणिनीय दर्शन	...	२१२
नव्य दर्शनों की 'शागली' भाषा	...	२१३
यहूदी दर्शन	...	२१४
अरबी :,	...	२१५
दार्शनिक के लिये दो राजों का युद्ध	...	२१७
यूरोपीय और अमेरिकन दर्शन	...	२१८
उपसंहार	...	२२३

उद्धृत ग्रन्थों की सूची

पुस्तक का नाम	पृष्ठ
छांदोग्योपनिषत्	१, १०६, १०९
कठ	४, २९, २०५, १०९, ११८, १५८, १७०, १७८
बृहद्भारण्यक,	६, ११, १०३, १०९, ११८, १४४
भागवतपुराणं	८, १४, ३४, ४०, ५९, ६६, १०५, ११४, १२२, १४९ ५०, १३७, १८०, १८२
बाह्वल्	१०, १३५
गीता	११, २६, २८, ३९, ३९, ४४, ५९, ७२, ७९, ८२, ९५, १०५, १०९, १११, १३०, १३२, १३४, १३५, १३७, १४१, १७०, १७८, १८७, १९०-१
पॉल गार्हार्ड का काव्य	११
कुरान	१३, ४०, ४४, ४८-९
हदीस	१४, १८, १३५
न्यायसूत्रं गौतमकृतं	१७
न्यायसूत्रभाष्यं वात्स्यायनकृतं	१८, ८९, १४४, १८७
वैशेषिकसूत्रं कणादकृतं	१
सांख्यसूत्रं कपिल-(वा विज्ञान भिक्षु-) रचितं	१८
सांख्यकारिका ईश्वरकृष्णकृता	१८, २२, ४५, २२२
सांख्यतत्त्वकौमुदी वाचस्पतिकृता	१९
<i>Psychology and Morals</i> by J. N. Hadfield	२२
योगसूत्रं पतंजलिकृतं	२३, ५८, १२५, १७८
मीमांसासूत्रं जैमिनिकृतं	२४
,, स्य शाबरभाष्यं	,,
श्लोकवार्त्तिकं कुमारिलकृतं	२५
मनुस्मृतिः	२५, ३९, ४९, ५६, ६८, ६९, ९३, ११०, १२१, १२३, १२४, १२७, १३४, १६४, १४७, १५१-४, १७१-३, १८७, १९०-१
ब्रह्म-सूत्रं बादरायजकृतं	२७
ऋग्वेदः	२९, १०८, १२६, १३०, १४८, २११
<i>The Basutos</i> by Casalis]	३१

पुस्तक का नाम	पृष्ठ
<i>The Psychology of Emotions</i> by Ribot ...	३१
<i>The Psychology of Philosophers</i> by Alexander Herzberg ...	३६, ३७, ९०
<i>Short History of the World</i> by H. G. Wills	३७
<i>My Country and My-People</i> by Lin Yutang	,,
<i>Poem</i> by George Herbert ...	४१
,, ,, Francis Thompson ...	४२
,, ,, Coleridge ...	५३
भजन मीराकृत ...	४३, ५३
कवित्त कबीरकृत ...	४३
महाभारतं ... ५५, ६४, ११२, ११९, १२८, १३५, १४९, १६०, १६५	
	१६८-९, २२०, २२१
याज्ञवल्क्य-स्मृतिः ...	५६, ६८, ११०, १२४, १९१
मुंडक-उपनिषत् ...	५७, ९३, १०५
योगवासिष्ठं ...	६१, ६३, ६५, ७३, ८३, १३१
<i>History of Philosophy</i> by Schwegler ...	६३
वायुपुराणं ...	६३, ६५
अनुगीता ...	६३
अमरकोशः ...	६३
शुक्नीतिः ...	७०, १२८, १५०, १६१
अर्थशास्त्रं कौटिल्यकृतं ...	७१, ९३
<i>The Message of Plato</i> by F. G. Urwick ...	७४
<i>These Eventful Years</i> ...	७५
<i>Introduction to Science</i> by J. Arthur Thomson	७६
<i>Principles of Psychology</i> by Herbert Spencer	७७
<i>Frist Principler etc.</i> by ,, ...	७८
चरकः ...	८२
सुश्रुतं ...	८५
<i>Yoga and Western Psychology</i> by Coster ...	९९
<i>Autobiographical Study</i> by Freud ...	,,

पुस्तक का नाम			पृष्ठ
<i>Introductory Lectures on Psycho-Analysis</i> by Freud	९९, १०४
नीतिशतकं भर्तृहरिकृत	१०२
वैराग्यशातकं	१४२
मुक्तिहोपनिषत्	१०५
ईशोपनिषत्	१०७
<i>The Secret Doctrine</i> by H. P. Blavatsky.	१०८
ऐतरेयोपनिषत्	१०९
स्कन्दोपनिषत्	”
मैत्री उपदिषत्	”
मस्नवी, मौलाना-रूम-कृता	११४, १४२, २१६
पंचदशी माधवाचार्य-कृता	११५
शिवमहिमस्तुतिः पुष्पदन्तकृता	११६, १२८
शंकरद्विविजयः माधवाचार्यकृतः	११७
संश्लेषशारीरकं सर्वज्ञमुनिकृतं	११९
किरातऽर्जुनीयं भारविकृतं	१२५
निरुक्तं यास्ककृतं	१२९, १३९
वसिष्ठ-स्मृतिः	१३२
मार्कण्डेयपुराणं	१४२
नृसिंहोपनिषत्	१४४
मामुक्तीमा विशालीकृत	१४९
शिवसंहिता	”
भागवत-महात्म्यं	”
आदित्यहृदयस्तोत्रं	१६०
गुरुगीता	१६१
न्यायसुधा सोमेश्वरभट्टकृता	१८१
पंचतंत्र चाणक्यरचित	२१२
हीवान् समदकृत	२१५
पद्य अकबर इलाहाबादी का	२१६

पहिला अध्याय

दर्शन का मुख्य प्रयोजन

सनत्कुमार और नारद की कथा

छांदोग्य उपनिषद् में कथा है, सनत्कुमार के पास नारद आगे, प्रार्थना की,
'शिक्षा दीजिए ।'

अधीहि भगवः, इति ह'उपससाद् सनत्कुमारं नारदः । तं ह उवाच ।
यद् वेत्थ तेन मा (मां) उपसीद, ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि, इति । स
ह उवाच, ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदं, आथर्वणं चतुर्थं,
इतिहासपुराणं पंचमं, वेदानां वेदं, पित्र्यं, राशि, दैवं, निधि, वाको-
वाक्यं, एकायनं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्र-
विद्यां, सर्प-देवजन-विद्यां, एतद् भगवोऽध्येमि । सोऽहं, भगवो,
मन्त्रविद् एव ऽस्मि, न ऽत्मवित् । श्रुतं हि मे भगवद्दृशेभ्यः, तर्ति
शोकं आत्मविद् इति । सोऽहं, भगवः, शोचामि । तं मा (मां) भगवान्
शोकस्य पारं तारयतु । (छांदोग्य, अ० ७)

सनत्कुमार ने कहा, 'जो सीख चुके हो वह बताओ, तो उस के आगे की बात
तुम से कहूँ ।' बोले, 'ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, ये चारो वेद, पंचम वेद रूपी
इतिहास-पुराण जिस के बिना वेद का अर्थ ठीक समझ में नहीं आ सकता, वेदों का
वेद व्याकरण, परलोकगत पितरों से और इस लोक में वर्तमान मनुष्यों से परस्पर
प्रीति और सहायता का बनाए रखने वाला श्राद्धकल्प, राशि अर्थात् गणित, दैव
अर्थात् उत्पात-ज्ञान शकुन-ज्ञान, अथवा दिव्य प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान, निधि
अर्थात् पृथ्वी में गड़े धन का ज्ञान, अथवा आकर शास्त्र, वाकोवाक्य अर्थात्
तर्कशास्त्र, उत्तर-प्रत्युत्तर-शास्त्र, युक्ति-प्रतियुक्ति शास्त्र, एकायन अर्थात् नीतिशास्त्र,
राजशास्त्र, जो अकेला सब शास्त्रों से काम लेता है, देवविद्या अर्थात् निरुक्त जिस में

१ पाञ्चरात्र आगम के ग्रन्थों में उस आगम को ही 'एकायन वेद'
कहा है । "एषः एकायनो वेदः प्रख्यातः सर्वतो भुवि । वेदं एकायनं नाम,

भूम्यानी मुख्य देव अग्नि, अंतरिक्षस्थानो सोम (पर्जन्य विद्युत्, इन्द्र आदि जिस मे पर्यायवत् अंतर्गत है), युस्थानी सूर्य, आँर देवाधिदेव आत्मा, का वर्णन है, अथवा शब्दकोष, ब्रह्मविद्या अथात् ब्रह्म नाम वेद की अंग विद्या, शिक्षा कल्प और छंद आदि, भूतविद्या अर्थात् भूत प्रत आदि का वाग्ना को दूर करने की विद्या, अथवा अधिभूत शास्त्र, पंचमहाभूतों पंचतत्त्वों के मूल स्वरूप और परिणामो विकृतियों का शास्त्र, क्षत्रविद्या अर्थात् धनुर्वेद समस्त युद्धशास्त्र, नक्षत्रविद्या अर्थात् ज्योतिष शास्त्र, सर्पविद्या अर्थात् विष वाले जंतुओं के निरोध की और विष के चिकित्सा की विद्या, अथवा (सर्पति चरंति प्राणात् जीवांति इति) वृक्ष पशु आदि जीव जंतु का शास्त्र, देवजनविद्या अर्थात् गांधर्व विद्या, चतुःषष्टि कला, गीत, वाद्य, नृत्य, शिल्प, सुगन्ध का निर्माण, मुम्यादु भोज्य पदार्थ का कम्पन आदि, यह सब मैंने पढ़ा । पर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैं ने केवल बहुत से शब्दों को ही पढ़ा । आत्मा को, अपने को, नहीं पहचाना । और मैं ने आप ऐसे वंशनीय वृद्ध महानुभावां से सुना है कि आत्मा को पहिचानने वाग्ना शोक के पार तर जाता है । सो मैं शोक मे पड़ा हूँ । मुझ को शोक के पार तारिए ।’

तब सनत्कुमार ने नारद को उपदेश दिया ।

आज काठे के अंग्रेजी शब्दों मे^३ कहना हो तो स्यात् यों कहेंगे कि, सब सायंस

वेदानां शिरमि स्थितं ; तदर्थकं पाञ्चरात्रं मोक्षद तत् क्रियावताम् ।” इत्यादि । किन्तु, इस स्थान पर यह अर्थ अनुग्युक्त है क्योंकि पाञ्चरात्र आगम की कथा तो यह है कि उस को नारद ने साक्षात् नारायण मे पाया, और उसी से मुक्त हो गये; फिर सनत्कुमार के पास शोक से मुक्ति का उपाय पूछने क्यों आते ।

१ ‘अपना’ शब्द प्रायः संस्कृत आत्मा, आत्मानं, आत्मनः का ही प्राकृत (अन्ता, अन्ताणं, अन्तणो, आपणो) विकार और रूपांतर जान पड़ता है ।

२ यद्यपि आज काल चाल ‘आज कल’ लिखने की चल पड़ी है, पर संस्कृत शब्द ‘अद्य काले’ की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से भी ‘आज काल’, आज के काल मे, इस समय (जमाने) मे, ही ठीक जान पड़ता है ।

३ All Sciences, all Arts, History, Anthropology, Grammar, Philology, Mathematics, Logic, Chemistry, Physics, Geology, Botany, Zoology, Psychical Science, Medicine, Astronomy, Fine Arts, Music, Dancing, Painting, Architecture, Gardening, Perfumery, Culinary, Dietetics, etc.

और सब आर्ट, सब हिस्ट्री, ऐन्थ्रोपॉलॉजी, ग्रामर, फैंलॉजी, मैथेमैटिक्स, लाजिक, केमिस्ट्री, फ़ाज़िम्स, जियॉलॉजी, बॉटनी, जुऑलॉजी, साइकिकल सायंस, मडिंसन, ऐम्प्रीनोमी, और सब फ़ाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डॉसल्, पेंटिङ्, आर्किटेक्चर, गार्डनिङ्, परफ़्यूमरी, क्युलिनरी, डायटेटिम्स, आदि—सब जान कर भी कुछ नहीं जाना, चित्त शांत नहीं हुआ। दुःख से, शोक से, छुटकारा नहीं हुआ। इस लिए वह पदार्थ भी जानना चाहिए जिस से चित्त को स्थायी शांत मिले, मनुष्य स्वस्थ आत्मस्थ हो, अपने को जाने, आगमापायी आने जाने वाले मुख दुःख के रूप को पहिचाने, और दोनो के पार हो कर स्थितप्रज्ञ हो जाय, नफ़्मुल् मुम्मइन्ना और नफ़्मुर्-रहमानी को हासिल करे।

जब तक मनुष्य किसी एक विशेष शास्त्र को जान कर इस अभिमान में पड़ा है कि जो कुछ जानने की चीज़ है वह सब मैं जानता हूँ, तब तक, स्पष्ट ही, उस को आत्मविद्या अर्थात् दर्शनशास्त्र का प्रयाजन नहीं। जब स्वयं उस के चित्त में असंतोष और दुःख उठे और उस को यह अनुभव हो कि विशेष शास्त्रों के मरे ज्ञान से मेरा दुःख नहीं मिटता, चित्त शांत नहीं होता, तभी वह इस आत्मदर्शन की खोज करता है। उपनिषत् के उक्त वाक्यों पर भाष्य करने हुए शंकराचार्य लिखते हैं—

सर्वविज्ञानसाधनशक्तिसंपन्नस्य ऽपि नारदस्य देवपुंः श्रेयो न वभूव, उत्तमाभिजनविद्यावृत्तसाधनशक्तिसंपत्तिनिमित्ताभिमानं हित्वा, प्राकृतपुरुषवत्, सनत्कुमारं उपससाद, श्रेयःसाधनप्राप्तये, निरतिशय-प्राप्तिसाधनत्वं आत्मविद्यायाः इति।

देवताओं के ऋषि, बहिर्मुख शास्त्रों के सर्वज्ञ, फ़रिश्तों में अफ़ज़ल और अल्लामा, नारद को भी, ऊँचे कुल का, विद्या का, शक्ति का, गर्व अभिमान छोड़ कर, साधारण दुःखी मनुष्य के ऐसा सिर झुका कर, सनत्कुमार के पास उस अन्तिम ज्ञान के लिए जाना पड़ा, जिस से सब दुःखों की जड़ कट जाती है। जिस हृदय में अहंकार अभिमान का राज है उस में वह अंतिम ज्ञान, वेद के अंत, वेदांत, और आत्मा का प्रवेश कहां ?

खुदी को छोड़ा न तू ने अब तक, खुदा को पावेगा कह तू क्यों कर ?
जवानी गुज़रा, बुढ़ापा आया, अभी तक, ऐ दिल ! तू ख़्वाब में है !
न कोई पग़दा है उस के दर पर, न रूये रौशन नक्राब में है ;
तू आप अपनी खुदी से, ऐ दिल !, हिजाब में है, हिजाब में है !

यम और नचिकेता की कथा

ऐसी ही कठ उपनिषत् में बालक नचिकेता की कथा है। उस के पिता ने ब्रौ किया, अपनी सब संपत्ति अच्छे कामो के लिए सुपात्रों को दे दूंगा। जब सब वस्तुआ को उठा-उठा कर लोग ले जाने लगे, तब छोटे बच्चे के मन में भी श्रद्धा पैठी^१।

पिता से पूछने लगा, 'तात, मुझे किस को दीजिएगा।' एक बेर पूछा, दो बेर पूछा, तीसरी बेर पूछा। थके पिता ने चिढ़ कर कहा, 'मृत्यु को।' कोमल चित्त का सुकुमार बच्चा, उस क्रूर वाक्य से विह्वल हो गया। बेहोश, निस्संज्ञ, हो कर गिर पड़ा। शरीर बच्चे का था, जीव पुराणा था। संसार के चक्र में, प्रवृत्ति के मार्ग पर, उस के भ्रमने की अवधि आ गई थी। यम लोक, अंतर्यामी लोक, यम-नियम लोक, स्वप्न लोक, को गया। यमराज अपने गृह पर नहीं थे। तीन दिन बालक उन के फाटक पर बैठा रहा^२। यम लौटे, देखा, बड़े दुखी हुए, करुणा उमड़ी। 'बच्चे !, उत्तम अधिकारी अतिथि हो कर तीन दिन-रात तू मेरे द्वारे बिना खाए पीए बैठा रह गया। मेरे ऊपर बड़ा ऋण चढ़ गया। तीन वर माग। जो मागेगा वही दूंगा।' 'मेरे यहां चले आने से पिता बहुत दुखी हो रहे हैं, उन का मन शांत हो जाय।' 'अच्छा, वह तुम को फिर से देखेगा।' 'स्वर्ग की बात बताइए, उस की बड़ी प्रशंसा सुन पड़ती है; वहां की व्यवस्था कहिए, वह कैसे मिलता है सो भी बताइए।' यम ने सब बतलाया। फिर तीसरा वर लड़के ने मागा।

या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्ति इत्येकेन ऽयम् अस्तीति च ऽन्ये;
एतद् विद्याम् अनुशिष्टः त्वया ऽहं, वराणामेष वरस्तृतीयः। (कठ)

मनुष्य मर जाता है, कोई कहते हैं कि शरीर नष्ट हो गया पर जीव है; कोई कहते हैं कि नहीं है; सो क्या सच है, इस का निर्णय बताइए।

१ ठेठ हिंदी में, इन को भी 'साध' लगी; गर्भवती स्त्रियों के लिए 'साध' अर्थात् उन की श्रद्धित इष्ट वस्तु भोजना; जो 'सर्धा' होय तो दान दो; यह रूप 'श्रद्धा' के देख पड़ते हैं।

२ पुराण ग्रंथों से ऐसी सूचना मिलती है कि जैसे सूक्ष्म लोक से इस स्थूल लोक में आने और जन्म लेने के पहिले एक संध्याऽवस्था, गर्भावस्था, होती है, वैसे ही प्रायः भूर्लोक से पुनः भुवर्लोक पितृलोक में वापस जाने के पहिले, बीच में, एक संध्याऽवस्था, बेहोशी की, नींद की सी, होती है। स्यात् तीन दिन तक यम से न मिलने और बात न होने का आशय यही है। शरीर की दृष्टि से, तीन दिन रात बच्चा बेहोश, निस्संज्ञ, बे-सुध-बुध, पड़ा रहा।

इस लोक को छोड़ कर परलोक को, यमलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक को, जाग्रत लोक से स्वप्नलोक को, जीव जाता है। पर वहां भी उस को कम बेश यहीं की सी सामग्री देख पड़ती है, और वहां भी मौत का भय बना ही रहता है। नचिकेता अपना स्थूल शरीर छोड़ कर यम लोक में आया है, तो भी उस को अपनी नित्यता, अमरता, का निश्चय भीतर नहीं है, क्योंकि सऽदि सऽन्त सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग देह से उस का जीव यहां भी बँधा है, और यम ने भी उस को स्वर्ग का हाल सब बताया है, सुखों के साथ दुःख भी, मृत्यु का भय भी, स्वर्ग से च्युत हो कर पुनः भूलोक में जाने का निश्चय भी, सब बताया है। इस से बालक पृच्छता है, 'जीव अमर है—यह निश्चय कैसे होय ?'

यम ने बहुत प्रलोभन दिखाया, 'धन दौलत लो, सुंदर पत्नी लो, पुत्र पौत्र लो, ऐश्वर्य लो, बड़े में बड़ा राज लो, दीर्घ से दीर्घ आयु लो, दृढ़ और खूब खा पी सकने और भाग विलास करने योग्य द्रविष्ठ बलिष्ठ आशिष्ठ सुंदर श्रीमान् शक्तिमान् शरीर लो, यह प्रश्न मत पूछा। देवताओं को भी यहां शंका लगी ही है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सूक्ष्म है, समुझना बहुत कठिन है।

देवैः अग्नि अत्र विचिकित्सितं पुरा; नहि सुविज्ञेयं, अणुः पय धर्मः ।

पर बालक अपने प्रश्न से नहीं डिगा।

अपि सर्वे जीवितं अलगमेव, तत्रैव वाहाः तत्र नृत्यगीते;
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो. वरम्नु मे वाणीयः स एव ।
यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति देवाः. यत्साम्पराये महन्ति ब्रूहि नः नत्;
योऽयं वरो गूढं अनुप्रविष्टो, नऽन्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते ।

यह सब वस्तु जिन से आप मुझ को लुभाने हो, वह सब तो आप ही की रहेगी, एक दिन सब खाना-पीना, नाचना-गाना, हाथी-घोड़े. प्रामाद-उद्यान, ऐश-आराम आप वापस लगे। देवताओं को भी इस विषय में शंका है, मृत्यु का भय है, इसी लिए तो मुझे इस शंका का निवारण और भी आवश्यक है। यह वर जो मेरे मन में गहिरा धँस गया है, जो अत्यन्त गूढ़तम बात की खोज करता है, मुझे इस के सिवा दूसरा कोई पदार्थ नहीं चाहिए। दूसरा कुछ इस समय अच्छा ही नहीं लगता। मुझे प्रश्न का उत्तर ही चाहिए, अमरता ही चाहिए, मृत्यु का भय छूटा तो सब भय छूटा, अमरता मिली तो सब कुछ मिला।

तब यम ने उपदेश दिया, त्रेधांत विद्या का भी और तत्संबंधी योग विधि, प्रयोग विधि, का भी, 'मेटाफिजिकल सार्यस' का भी और 'साइको-फिजिकल आर्ट'

का भी, निरोध का भी और ध्युत्थान का भी, मोक्षशास्त्र, शांति-शास्त्र, 'सार्यस आफ़ पीस' का भी, और शक्ति-शास्त्र, 'सार्यस आफ़ पावर', 'ओक़ल्ट मायंस' का भी ।^१

मृत्युप्रोक्तां, नचिकेतोऽथ लब्ध्वा, विद्यामेतां, योगविधिं च कृत्स्नं, ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्, विमृत्युः, अन्योऽप्येवं, यो विद् अद्यान्ममेव।(कठ)

यमराज से वेदांत विद्या, आत्म-विद्या, को, तथा समग्र योग विधि को, पा कर, नचिकेता ने ब्रह्म का अनुभव किया, रजस् से, राग-द्वेष के मल से, चित्त उस का शुद्ध हुआ, मृत्यु के पार पहुँचा । जो कोई इसी रीति से दृढ़ निश्चय करेगा, यम का सेवन करेगा, कठिन यम-नियमों का पालन करेगा, यमराज मृत्यु का मुँह देख कर उस का सामना करेगा, डर कर भागेगा नहीं, मृत्यु से प्रश्नोत्तर करेगा, और उत्तर की खोज में दुनिया के सब लोक लालच छोड़ने को तय्यार होगा, उस को भी नचिकेता के ऐसा, आत्मा का, परमात्मा का, जीव और ब्रह्म की एकता का, 'दर्शन', 'सम्यग्दर्शन', होगा, और अमरता का लाभ होगा ।

**ज्यों पनिहारिन भरे कूप जल, कर छोरे बतरावै,
अपनौ मन सखियन संग राञ्चै, सुगन गगर पर लावै,
या विधि जो कोइ मन को लगावै, हरि को पावै । (कबीर)**

याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी

जैसा यम ने सांसारिक विभव से नचिकेता को संतुष्ट करना चाहा, ऐसे ही, जब याज्ञवल्क्य ऋषि का मन इस लोक के जीवन से थका, तब उन्होंने ने अपनी भार्या मैत्रेयी से विदा चाहा, और मैत्रेयी को धन दौलत देने लगे । मैत्रेयी ने पूछा, 'क्या मैं इस धन दौलत से अमर हो जाऊँगी ?' । याज्ञवल्क्य ने कहा, 'नहीं, केवल

१ Metaphysical Science, Psycho-physical Art, Science of Peace, Science of Power, Occult Science.

२ इस संबंध में भागे चल कर हज़र्वर्ग नाम के यूरोपियन विद्वान् की पुस्तक, 'दी साइकालोजी आफ़ फ़िलोसोफ़र्स', The Psychology of Philosophers, (सं० १९२९) की चर्चा की जायगी, जिस में उन्होंने ने यूरोप के तीस नामी फ़िलसफ़ी अर्थात् दार्शनिकों की नैसर्गिक प्रकृतियों और जीवनियों की परीक्षा समीक्षा की है, और इस की गवेषणा की है कि किन हेतुओं से वे 'फ़िलो-सोफ़ी' की, दर्शन की, ओर झुके ।

यही होगा कि जैसे धनी लोग जीवन का निर्वाह करते हैं वैसे तुम भी कर सकोगी, और जैसे वे मरते हैं वैसे तुम भी मरोगी ।' तब मैत्रेयी ने कहा, 'तो फिर वह ले कर क्या करूँगी जिस से मृत्यु का भय न छूटे । वही घस्तु दीजिए जिस से अमर हो जाऊँ ।'

येन ऽहं न अमृता स्यां किं अहं तेन कुर्याम् । (बृहदारण्यक)

तब याज्ञवल्क्य ने परा-विद्या का ज्ञान दिया ।

बुद्ध-देव ।

राजकुमार गौतम को, जो पीछे बुद्ध हुए, उन के पिता ने, ज्योतिषियों की भविष्य वाणी के भय से, ऐसी कोमलता से पाला कि उन को सूखा पत्ता भी कभी यौवन के आरंभ तक न देख पड़ा । दैवज्ञों ने कहा था कि यह बालक या तो सार्वभौम एकराट् चक्रवर्ती होगा, या परम विरक्त समस्त संसार का उद्धार करने वाला सन्यासी होगा । पिता ने राजकुमार के वास-स्थान, प्रसाद, उद्यान के भीतर, जगत् का स्वरूप शोभामय, सौंदर्यमय, सुखमय, प्रलोभनमय बनाया । इस लिए कि संसार में उन का मन लिपटा ही रहे, कभी इस से ऊँच उचट्टे नहीं । पर इस कोमलता ने ही भविष्य वाणी को सिद्ध करने में सहायता दी । राजकुमार को, एक दिन, फुलवारी के बाहर का लोक देखने की इच्छा हुई । गए । पिता ने सब कुछ प्रबंध किया कि कोई दुःख-स्वप्न के ऐसा दुःखद दृश्य उन की आँख के सामने न आवे । सड़क छिड़काया, नगर सजाया, सुंदर रथ पर राजकुमार को नगर में फिराया । पर होनहार पूरी हुई । जगदात्मा सूत्रात्मा के रचे संसार नाटक के अभिनय में उपकरण-भूत कर्मचारी देवताओं ने ऐसा प्रबंध किया कि भावी बुद्ध सिद्धार्थ ने जरा में जर्जर बूढ़े को देखा, पीड़ा से कराहते रोगी को देखा, मृत मनुष्य के विकृत शरीर को स्मशान की ओर ले जाए जाते देखा । चित्त में महा चिंता की आग धधकी, महा करुणा का सोत फूटा और बह निकला, आत्मा की सात्त्विकी बुद्धि जागी । केवल अपने शरीर के दुःख का भय नहीं, सब प्राणियों के अनंत दुःखों का महा दुःख, घन हो कर, संपिंडित हो कर, उन के चित्त में एकत्र हुआ, उन के शरीर में भीना, अंग-अंग में व्यापा । विवेक, विचार, वैराग्य, सर्व-प्राणि मुमुक्षा, स्वयमेव मोक्षं इच्छा नहीं, किंतु सर्वान् मोक्षयितुं इच्छा, दुःख से एक आप अकेले छूट जाने की नहीं, सभी दुःखियों को छुड़ाने की इच्छा, का परम सात्त्विक उन्माद

हृदयमे छा गया । उस दब्य-बुद्धिमय पागलपन में, उन्तीस वर्ष की उमर में, आधी रात को, सब सुख समृद्धि के सार भूत अतिप्रिय पत्नी यशोधरा और बालक राहुल को भी छोड़ कर, भवन के बाहर, नगर के बाहर, चले गए । नगर के फाटक से बाहर हो कर, घूम कर, बाँह उठा कर, गपथ किया

जननमरणयोः अदृष्टपारः न पुनः अहं कपिः ऽह्वयं प्रवेष्टा ।

जीना क्या है, मरना क्या है, इन के दुःखों से पत्नी पुत्र वंधु बांधव समस्त प्राणी कैसे बचें, इस के रहस्य का जब तक पता नहीं पाऊँगा, तब तक राजधानी कपिलवस्तु के भीतर फिर पैर नहीं रखूँगा ।

छः वर्ष की घोर तपस्या से, बहुवेध मुनिचर्याओं की परीक्षा कर के, अनंत विचारों की छान-बीन कर के, एकाग्रता से, समाधि से, उस रहस्य को, परम शांतिमय निर्वाण को, भेदबुद्धिमय अहंकारमय इच्छा तृष्णा वासना एषणा के निर्वाण को, पाया; निश्चय से जाना कि मुख दुःख, जीवन-मरण, सब अनंत द्रंद्रमय संसार, अपने भीतर, आत्मा-के भीतर, है, आत्मा आप अपना मालिक है, अपने आप जो चाहता है सो अपने-को मुख-दुःख देता है, कोई दूसरा इस को सुख-दुःख देने वाला, इस पर काबू रखने वाला, इस का मालिक, नहीं है । तब पैंतालीस वर्ष तक, सब संसार को, इस ज्ञान के सार, वेद के अंत, परा विद्या, परम तत्व, “सर्व-गुह्यतमं” तथ्य, “गुह्याद् गुह्यतरं” रहस्य, का उपदेश करते हुए, गङ्गा के किनारं-किनारे फिरे । दुःख क्या है, दुःख का हेतु क्या है, दुःख की हानि क्या है, दुःखहानि का उपाय- क्या है—यह चार “आर्थ-सत्य” बताते रहे; जिसी चतुर्व्यूह के दुःख—आयतन—समुदय—मार्ग के नाम से भी कहने हैं । कहुणा से व्याकुल, सब के आँसू पोंछते, यह पुकारते फिरे, ‘सब लोक सुनो, दुःखी मत हो;

१ भक्ति के शब्दों में, यह भाव, प्रह्लाद की नारायण के प्रति उक्ति में, भागवत में दिखाया है—

प्रयेण, देव, मुनयः स्वविमुक्तिकामाः स्वार्थं चरन्ति विजने, न परार्थनिष्ठाः;
नेतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षे एकः, नऽन्यं त्वद् अस्थ शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ।

हे-देव !, प्रायः मुनिजन अपनी ही मुक्ति की इच्छा से, जनरहित श्कांत में स्वार्थ साधते हैं, परार्थ नहीं । सब संसार में भ्रमते, कृपण, कृपा, के, कहुणा के योग्य इन दीन जनो को छोड़ कर अकेले मुक्त होना मैं नहीं चाहता; और आप को छोड़ इन का कोई दूसरा शरण नहीं देखता; इन सब की मुक्ति का उपाय बताइए ।

दुःख तुम्हारे काबू में है; तुम अपनी भूल से, अपनी इच्छा से, अपने किये से, दुखी हो, किसी दूसरे के किये से नहीं; यह सब तुम्हारा ही बनाया खेल है; इस को पहिचानो, अपने को पहिचानो, सत्य को जानो, दुःख छोड़ो, स्वस्थ आत्मस्थ हो ।

महावीर-जिन

महावीर-जिन की जीवनी का पता जहाँ तक बलता है, बहुत कुछ बुद्ध के चरित से मिळती है । तीस वर्ष की उमर में, उन्हीं ने, लो, पुत्र, गुरराज का पद, राज्य-लक्ष्मी, छोड़ा । बारह वर्ष तपस्या करने पर कैवल्य-ज्ञान की, अद्वैत का, तौहीद की, ज्याति का उदय उन के हृदय में हुआ । शुद्धि, शांति, शक्ति की परा काष्ठा को पहुँचे । तीस वर्ष उपदेश द्वारा संसारी जीवों के उद्धरण में प्रवृत्त रहे । बुद्ध देव के ज्ञाति, सगोत्र, बन्धु और समकालीन थे । दोनो ही को आज से कोई ढाई हजार वर्ष हुए । जैन पद्धति का भी मूल, सब दुःखों से मोक्ष पाने की इच्छा है ।

इस सम्प्रदाय का एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ 'तत्त्वार्थाभिगम सूत्र' है । इस को उमास्वामी, जिन को उमास्वाती भी कहते हैं, प्रायः सत्रह सौ वर्ष हुए, लिखा । इस का पहिला सूत्र है, 'सम्यग्दर्शनज्ञानवारित्राणि मोक्षमार्गः' । मोक्ष का सब दुःखों से, सब बंधनों से, छुटकारा पाने का, उपाय, सम्यग् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य है ।

जैन मत का एक प्रसिद्ध श्लोक है—

आम्रत्रो बंधहेतुः स्यात्, संवरो मोक्षकारणम् ;
इति इयं आर्हती मुष्टिः, अन्यद् अस्याः प्रपंचनम् ।

बंध का हेतु आम्रत्र, तृष्णा; उस के संवर से, निरोध से, मोक्ष—इस मूठी में सारा अर्हत तंत्र जैन दर्शन, रक्खा है । अन्य सब भारी ग्रंथ-विस्तार, इसी का प्रपंचन, फैलावा, है । वेदान्त दर्शन के बंध—अविद्या—विद्या—मोक्ष, और बौद्ध दर्शन के दुःख—तृष्णा—त्याग—निर्वाण, योग दर्शन के व्युत्थान-निरोध आदि, नितरां सुतरां यही पदार्थ हैं । तथा आयुर्वेद दर्शन के रोग रोगहेतु-रोगहानोपाय-रोगहानं । उक्त जैन श्लोक में जो बात इच्छा-संबंधी शब्दों में कही है उसी का दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू, ज्ञान-संबंधी शब्दों में उसी प्रकार के संग्राहक और प्रसिद्ध वेदान्त के श्लोक में कहा है ।

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि, यदुक्तं शास्त्रकोटिभिः ,
 ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नऽपरः ।
 अविद्या बंधहेतुः स्याद् , विद्या स्यात् मोक्षकारणं ;
 मम इति बध्यते जन्तुः, न मम इति विमुच्यते ।

ईसा मसीह

ईसा मसीह ने भी ऐसी ही बातें कही हैं--

कम् अंड्रू मी आल यी दैट आग वियरी ऐण्ड हेवी लेडन, ऐण्ड
 आइ विल गिव यू रेस्ट । इफ एनी मैन विल कम आफ्टर मी लेट
 हिम डिनाइ हिम्सेल्फ, ऐण्ड फ़ालो मी । फ़ार हू-सो-एवर विल जेव
 हिज़ लाइफ़ शैल लूज़ इट, ऐण्ड हू-सो-एवर विल लूज़ हिज़ लाइफ़
 फ़ार माई सेक शैल फ़ाइण्ड इट् । फ़ार ह्याट इज़ ए मैन प्रोफ़िटेड इफ़
 ही शैल गेन दी होल वर्ड, ऐण्ड लूज़ हिज़ सोल ? यी कैन नाट सर्व
 गाड ऐण्ड मैमन बोथ । वट सीक फ़र्स्ट दि किङ्डम आफ़ गाड ऐण्ड
 हिज़ रैचस्नेस, ऐण्ड आल थिङ्ज़ विल बी ऐडेड अंड्रू यू । (बाइबल)†

जो दुनिया के बोझ से अत्यंत थके हैं, ऊब गये हैं, वे मेरे पास, आवें । उन को
 मैं अवश्य विश्राम दूंगा । जो दुनिया से थका नहीं है, वह खुदा के पीछे पड़ता ही
 नहीं है, खुदा को पावेगा कैसे ? सब सुख चैन से, ऐश आराम से, मन हटा कर,
 सारे दिल से, मेरे पीछे, आत्मा के पीछे, लगे, तो निश्चयेन पावे । जो इन थोथी
 छोटी ज़िंदगी की अनित्य, नद्वर, वस्तुओं में मन अटकाए हुए है, वह उस नित्य
 अजर अमर वस्तु को खो रहा है, भुला रहा है । जो इस को छोड़ने को तयार होगा,
 वह उस को जरूर पावेगा । और उस वस्तु को पाने का यत्न करना चाहिये । आदमी
 सब कुछ पावे, पर 'अपने' ही को, अपनी रूह को, आत्मा ही को, खो दे, भुला
 दे, तो उस ने क्या पाया, उस को क्या लाभ हुआ ? दुनिया की और खुदा की,
 दोनों की, पूजा साथ-साथ नहीं हो सकती । खुदा को आत्मा को, और आत्मधर्म
 को, सत्य को, ऋत को, पहिचान लो, पा लो, फिर यह सब दुनियावी चीज़ें भी आग

† Come unto me all ye that are weary and heavy laden,
 and I will give you rest If any man will come after me, let
 him deny himself, and follow me. For whosoever will save his
 life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake
 shall find it. For what is a man profited if he shall gain the

से आप मिल जायेंगी । परम सत्य को, तत्त्व को, हक को, ढूँढ निकालो और गले लगाओ, अन्य सब पदार्थ स्वयं उस के पाँछे आ जायेंगे' ।

‘आत्म-लाभ से सर्व-लाभ’ यही बातें उपनिषदों में, गीता में, कही हैं—

सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज;
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुचः । (गीता)
आत्मनस्तु कामाय सर्वं वै प्रियं भवति ।
एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति ।
एतद् हि एव अक्षरं ब्रह्म, एतद् हि एव अक्षरं परं,
एतद् एव विदित्वा तु यो यद् इच्छति तस्य तत् । (कठ)

यं यं लोकं मनसा संविभाति, विशुद्धमत्त्वः कामयते यांश्च कामान् ,
तं तं लोकं जयते, तांश्च कामान् , तस्माद् आत्मज्ञं हि अर्चयेद् भूति कामः ।

आत्मैवेदं सर्वमिति...एवं पश्यन् आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः, स
स्वराट् भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । (छांदोग्य)

अन्य धर्मों को, आत्मा से अन्य पदार्थों के धर्मों को, सब को छोड़ कर, मेरी शरण लो । ‘मै’, आत्मा, तुम को सब दुःखों से,, सब पापों से, छुड़ावेगा । सब कुछ, माल-मता इज्जत-हुकूमत-दौलत मनबहलाव, दोस्त-आरना, बाल-बच्चे, देव

whole world and lose his soul? Ye cannot serve God and Mammon both. But seek first the Kingdom of God and his Righteousness, and all these things shall be ad'led unto you: (Bible)

१ बंध और मोक्ष के भाव और शब्द कैसे स्वाभाविक और व्यापक हैं इस का उदाहरण देखिए, कि ईसा के धर्म के संबंध में भी ये पाए जाते हैं । पाउल गार्हार्ट नाम के भक्त का भजन है,

आइ ले इन क्रूएल बांडेज, दाउ केमूस्ट एण्ड मेड मी फ्री ।

I lay in cruel bondage, thou cam'st and made me free.
मैं बंधन में पड़ा था, तू ने आ कर मुझे मुक्त किया, स्वतंत्र किया । अँग्रेजी शब्द ‘बांड’ प्रायः संस्कृत के ‘बंध’ का ही रूपांतर है ।

Emancipation of mind, fetter of soul, freedom of thought, deliverance from sins, bondage of spirit, bonds of sin, spiritual bondage, spiritual freedom, salvation, political bondage, political freedom, ये सब शब्द उन्हीं मूल भावों के द्योतक हैं ।

और इष्ट, जो कुछ भी प्यारे हैं, आत्मा ही के वास्ते, अपने ही वास्ते, प्यारे होते हैं। आत्मा ही खो जाय तो सब कुछ खो गया। उस एक के जानने से सब कुछ जाना जाता है। उस को जान कर, अक्षर, अविनाशी, सब से बड़ी, सब से परे वस्तु को जान कर, पा कर, फिर जिस किसी वस्तु को चाहेगा, वह अवश्य मिलेगी। यह आत्मा ही प्रणव से, ओंकार से, सूचित ब्रह्म है; सब कुछ इस आत्मा के भीतर है; तो यह जान कर जो कुछ चाहेगा, वह आत्मा से ही पावेगा। जिस-जिस लोक में जाना चाहेगा उस-उस लोक में बिना रुकावट जा सकेगा; आत्मज्ञानी, आत्मानंदी, ही तो सच्चा स्वराट् है, स्व-राज्य वाला है, उस की गते किसी लोक में नहीं रुकती।

सूफी

बिजिन्स यही बातें सूफियों ने कही हैं।

न गुम् शुद कि रूयश जि दुनिया विताफ्त,
 कि गुम् गश्त ए ख्वेश रा वाज़ याफ्त।
 हम् खुदा ख्वाही व हम् दुनियाइ दूँ,
 ई खयालस्तो मुद्दालस्ता जुनू।
 हर कि ऊ रा याफ्त दुनिया याफ्तः,
 जाँ कि हर ज़रः जि मिहश ताफ्तः।

जिस ने दुनिया से मुँह फेरा वह गुम नहीं हुआ, बल्कि गुमगश्ता, खोए हुए, भूले हुए, आपे को, अपने को, आत्मा को, उस ने वापस पाया। दुनिया को भी और खुदा को भी चाहो, और दोनों को साथ ही पावो, यह मुश्किल है, वहम है, पागलपन का खयाल है। अगर खुदा को, परमात्मा को, अपनी अजर अमर आत्मा को पहिचानना और पाना है, अगर सब खौफ और तकलीफ, सब क्लेश और बंध, सब हिंस और इवस की असीरी, से हमेशा के लिए नजात, मोक्ष, आज्ञादी, स्वतंत्रता चाहते हो, सब 'सिन' से 'साल्वेशन' पाने की ख्वाहिश है, तो एक

१ 'He has the freedom of all the worlds, can enter into any worlds at will'. इंगलिस्तान में 'freedom of a town' किसी को उस नगर की ओर से देना बड़े आदर का चिह्न समझा जाता है। अब तो यह एक निरी रस्म मात्र रह गई है। पर प्रायः पूर्वकाल में इस का अर्थ यह होगा, कि उस आदत सज्जन के लिए 'सब घरों के दरवाज़े खुले हैं।'

१ Sin, Salvation.

बार दुनिया से तमामतर मुह मोड़ना ही होगा ; एक बार तो सारा दिल खुदा की खोज में लगा देना ही होगा । जब उस को पा लोगे, तब उस की बनाई हुई चीजों को आप से आप पाओगे । सारी दुनिया, एक-एक ज़र्रा, एक-एक अणु, परमाणु, परमात्मा की अचरज माया शक्ति से, मिह से, जिस की अस्तित्वत वही है जो तुम्हारे खयाल की कृत की है, बना है ।

जो इल्मो हिकमत का वो है दाना,
तो इल्मो हिकमत के हम हैं मूजिद ;
है अपने सीने में उस से ज़ायद,
जो बात वायज़ किताय में है ।

जीवात्मा जब परमात्मा को पा ले, यह पहिचान ले कि दोनो एक ही हैं, तो परमात्मा में जो अनंत सर्वज्ञता भरी है वह इस जीवात्मा में नई-नई ईजादों की, आविष्कारों की, शकल से बाहिर होने लगती है । उस की रचना शक्ति, माया शक्ति, संकल्प शक्ति इस में भी कल्पना शक्ति की सूरत में नुमायाँ होती है । जीवात्मा और परमात्मा की, रूह और रूहुलरूह की, ऐनि-मुअय्यन और ऐनि-मुरक़ब की, एकता को पहिचाने बिना भी जो कुछ ईजाद इन्सान करते हैं, जो कुछ नया इल्म हूँद निकालते हैं, वह सब उसी अथह इल्म के खजाने से, ब्रह्मा से, महत्तत्त्व से अक़्लि-कुल रुहि-कुल से, ही उन को मिल जाता है । पहिचान कर हूँदने से ज्याद आसानी से मिलता है । एक की हालत अँधेरे में टटोल कर पाने की है, दूसरे का चिराय लेकर खोजने और पाने की है ।

तौरैत, इज़्ज़ील, कुरान

कुरान में भी ऐसी बातें मिलती हैं । मुहम्मद ने भी पच्चीस बरस की उमर से चालीस की उमर तक, यानी पंद्रह बरस, तपस्या की, पहाड़ों में जा कर, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, ध्यान में, मुराक़िबा में, शर्क़ हो कर, खुदा को, अल्ली को, आत्मा को, हूँदा और पाया । तब दुनिया को सिखाया ।

इन्ज़िल् खासिरीन् अल्लज़्ज़ीना ख़सेरु अन्फ़ुसहुम् । (कुरान)

बड़ा नुकसान उन्होंने ने उठाया जिन्होंने ने अपनी नफ़्स को, अपने आपा को आत्मा को खोया ।

नसुल्लाहा फ़अन्साहुम् अन्फ़ुसहुम् । (कुरान)

जो अल्लाह को, परमेश्वर को, भूले, वे अपनी नफ़्स को, अपने को भूले ।

एज़ा अहब्ब अल्लाहो अब्दन् अग्नम्मह विल-वलाए। (हदीस)

अल्ला, परमात्मा, अंतरात्मा। जब किसी अब्द से, बन्दे से, मुहब्बत करता है, तब बलाओं से उस का गला पकड़ता है उस के ऊपर मुपीबतें डालता है, ताकि वह दुनियाबी हिंसा से मुड़, और 'मेरी', अल्ला की, परमात्मा की, तरफ आवे।

इज़ील का यही मज़मून है,

हूम दि लार्ड लवेथ ही चे स्टनेथ'। (वाइवल)

जिस का ठीक शब्दांतर भागवत का श्लोक है,

यस्य अनुग्रहम् इच्छामि तस्य सर्वे हरामि अहम्।

जिस का भला चाहता हूँ उस का सर्वस हर लेता हूँ। छीन लेता हूँ। क्यों कि दुःखी हो कर, बाहर की ओर से भीतर की ओर लोटता है, दुनिया की तरफ से खुदा की, आत्मा की, तरफ फ़िरत है, और तब उस को जरूर ही पाता है। यहां तक कि कुंती ने, धृष्ण के रूप में अंतरात्मा से, यह प्रार्थना की है कि,

विपदः सन्तु नः शशत् तत्र तत्र, जगद्गुरो !,
भवतो दर्शनं यत् स्याद् अपुनभवेदशनम्। (भागवत)

हम लोगों पर सदा आपत्, आफ़त, विपत् पड़ती रहे सो ही अच्छा, जो आप का दर्शन तो हो, जिस से फिर संसार के बंधनों का दर्शन न हो।

यही मज़मून मुहम्मद ने भी कहा है,

लौ यालमुल्-मोमिन् नियालहू भिनल्-अज्जे फ़िल मसायब लत-
मन्ना अन्नह कुरेज़ा विल मक्कारीज़। (कुरान)

अगर ईसा मसीह मोमिन (श्रद्धालु) यह इल्म (ज्ञान) रखता कि मुपीबतों में उस के लिए कितनी उन्नत, कितना फ़ायदा, कितना लाभ रक्खा है, तो तमन्ना (प्रार्थना) करता कि मैं कैबियों से टुकड़े-टुकड़े कतरा जाऊँ।

साधारण संसार के व्यवहार में भी, आपत्ति विपत्ति ऊपर पड़ने पर ही, दुर्बल प्राणी सबल शक्तिशाली प्रभाववान् के पास जाता है, और उस से सहायता को प्रार्थना करता है।

शुधा-तृषा-पार्ताः जननीं स्मरन्ति।

बच्चे खेल कूद में मस्त बेफ़िक्र रहते हैं, जब भूख प्यास लगती है तब मा

को याद करते हैं । आध्यात्मिक व्यवहार में भी, ऐसे ही, परम आपत्ति आने पर ही, संसार से मुक्त कर, संसार के मालिक की, परमात्मा अंतरात्मा की, खोज जीव करता है ।

निष्कर्ष

निष्कर्ष यह कि पूर्व देश में जिस पदार्थ को दर्शन, और जिस के संबंधी शास्त्र को दर्शन शास्त्र, कहते हैं, उस का आरंभ दुःख से, और उस दुःख में आत्यंतिक ऐकांतिक छुटकारा पाने की इच्छा से, अथवा आत्यंतिक ऐकांतिक असंभिन्न अपरिच्छिन्न अनवच्छिन्न अपरिमित, 'फैनल, कम्प्लैट, पर्फेक्ट, ऐब्सोल्यूट, अन-ऐलायड, अन-लिमिटेड'^१ सुख पाने की इच्छा से, जो भी वही बात है, हुआ । आत्यंतिक ऐकांतिक सुख की लिप्सा, और दुःख की जिहासा, यही दर्शन की ओर प्रवृत्ति का मूल कारण है । विशेष-विशेष सुख की लिप्सा और विशेष विशेष दुःख की जिहासा से विशेष-विशेष शास्त्र और शिल्प उत्पन्न होते हैं । सुखसामान्य की प्राप्ति और दुःख सामान्य के निवारण के उपाय की खोज से शास्त्रसामान्य, सब शास्त्रों का सम्राट्, अर्थात् दर्शन शास्त्र (जो सब शास्त्रों के सार का हृदय का, तत्त्वों का, तथा संसार के मूल परमात्मा का, दर्शन करा देता है, क्योंकि उस में योग का शास्त्र भी अंतर्गत है) उत्पन्न होता है ।

दर्शन शब्द

इस शास्त्र का नाम दर्शनशास्त्र कई हेतुओं से पड़ा । सृष्टि-क्रम के इस विशेष देश-काल-अवस्था अर्थात् युग में, ज्ञानेन्द्रियों में दो, आँख और कान, तथा कर्मेन्द्रियों में हाथ, अधिक काम करने वाली इंद्रियाँ हैं । प्रायः इन के व्यापारों के द्योतक शब्दों से, बौद्ध प्रत्यय, 'मेन्टल आइडियाज़', 'कानसेप्ट्स'^२, आदि पदार्थों का भी नामकरण, सभी मानव भाषाओं में, हो रहा है । नेदिष्ठ निस्तंदेह ज्ञान, विस्मृष्ट

१ Final (आत्यंतिक, जो फिर न बदलै), complete, perfect, absolute (ऐकांतिक, अखंडित, निश्चित) unalloyed, unmixed (असंभिन्न) unlimited (अपरिच्छिन्न, अनवच्छिन्न, अपरिमित) ।

२ Mental ideas, concepts.

प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव, को 'दर्शन कहते हैं। 'देखा आपने?', 'इ यू सी?,' का अर्थ यही है कि 'आप ने खूब साफ़ तौर से समझ लिया न ?'^१

संसार के मर्म का, जीवन-मरण के रहस्य का, सुख-दुःख के हृदय का, अपने स्वरूप का, पुरुष और पुरुष की प्रकृति का, जिस ज्ञान से दर्शन हो जाय वह दर्शन। दर्शन का अर्थ आँख भी। जिस से नयी आँख हो जाय, और 'नयी आँख को दुनिया नयी' के न्याय से सारी दुनिया का रूप नया हो जाय, नया देख पड़ने लगे, वह दर्शन। "मेघाऽसि देवि विदित-ऽखिल-शास्त्र-सारा", सब शास्त्रों के सार को, तत्त्व को, पहिचानने की शक्ति हो जाय, सब मे एक ही अर्थ, एक ही परमात्मा की विविध विचित्र अनंत कला, देख पड़ने लगे, समदर्शिता हो जाय, सब असंख्य मतों, धर्मों, रुचियों का विरोध-परिहार और सच्चा परस्पर समन्वय हो जाय, सब बातों के भीतर एक ही बात देख पड़े, वह सच्चा दर्शन।

जिस से सब अनंत दृश्य एक ही द्रष्टा के भीतर ही देख पड़े, जिस से सब देश सब काल सब अवस्था मे अपना ही, आत्मा का ही, 'स्व' का ही, 'मै' का ही, प्राधान्य, राज्य, वश देख पड़े, जिस से दुःख के मूल का उच्छेद हो जाय, सुख का रूप बदल कर अक्षोभ्य शांति मे परिणत हो जाय, वह सच्चा दर्शन।^२

न्याय

प्रसिद्ध छः दर्शनो के सूत्रों मे प्रायः यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है, कि उन का प्रेरक हेतु, प्रयोजन, (मक़्सद), यही दुःख-जिहासा, अथवा, रूपांतर मे, बंध से मुमुक्षा है।

१ Do you see ?

२ दर्शन का अर्थ मत, राय, view, opinion, भी है। यथा "प्रस्थानभेदाद् दर्शनभेदः"; स्थान बदला, दृष्टि बदली; अवस्था बदली, बुद्धि बदली; जगह दूसरी, निगाह दूसरी; हालात बदली, राय बदली; दि व्यु चेंजेज़ विथ दि स्टैंड-पोइन्ट, ओपिनियन्स चेंज विथ दि पेंगल आफ़ विज़न आर दि सिट्युएशन, the view changes with the stand-point, opinions change with angle of vision or situation.

३ लॉ ऑफ़ ऐनालोजी, law of analogy.

गौतम के बनाए न्याय सूत्र के पहिले दो सूत्र ये हैं—

प्रमाण प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टांत-सिद्धांत-अवयव-तर्क-निर्णय-
वाद-जल्प-वितंडा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात्
निःश्रेयसाधिगमः । दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तरा-
ऽपाये तदनन्तरऽपायाद् अपवर्गः ।

सच्चे ज्ञान के उत्पन्न करने, ले आने, संग्रह करने के उपकरण, तथा ज्ञान की सत्यता की परीक्षा और निश्चय करने के उपाय, को प्रमाण कहते हैं । यानी सुबूत, ज़रियइ-सुबूत, 'प्रूफ' इत्यादि । जो पदार्थ प्रमाणों के द्वारा सिद्ध निश्चित किए जाते हैं, उन को प्रमेय कहते हैं । इन दो से संबंध रखने वाले, इन के आनुषंगिक, शेष बौद्ध पदार्थ हैं । प्रमाण और प्रमेय आदि (जिन प्रमेयों में आत्मा मुख्य प्रमेय है) सोलह पदार्थों का तात्विक सच्चा ज्ञान होने से, दुःख और उस के कारणों की परंपरा का, उत्तरोत्तर, एक के बाद एक का, अपाय, अपगमन, निराकरण, क्षय हो कर, अर्थात् तत्त्वज्ञान मिलने से मिथ्याज्ञान का क्षय, उस से राग-द्वेषादि दोषों का क्षय, उस से कर्मों में प्रवृत्ति का क्षय, उस से सर्व दुःख का क्षय हो कर, अपवर्ग, (जो मोक्ष और निःश्रेयस का नामांतर है) मिलता है । एक ही पदार्थ को, दुःखों के समूल अपवृत्ति से 'अपवर्ग' कहते हैं; नितरां श्रेयस, जिस से बर्क कर श्रेयान् पदार्थ नहीं है, ऐसा होने से निःश्रेयस कहते हैं; मृत्यु के भय रूषी, और अमरता में संशय रूपी, मूल बंधनों से, तथा दुःखोत्पादक कर्मों और वासनाओं के मूल बंधनों से, छूट जाने से उसी को मोक्ष कहते हैं; चित्त की सब चंचलताओं के शांत हो जाने से, तृष्णा की जलती आग के बुझ जाने से, उसी को निर्वाण कहते हैं । दूसरी भाषाओं में, उन-उन भाषाओं के बोलने वाले विद्वान्, सूफी, मिस्टिक, ग्नास्टिक, फ़िलासोफ़र^१ सभ्जनों ने उसी "अहमेव सर्वः", 'मुझ में सब, सब में मैं', के परमानंद ब्रह्मानंद को नजात, लज्जतुल्-इलाहिया, फ़नाफ़िल्ला, यूनिशन विथ गाड, फ़्रीडम आफ़ दी स्पिरिट, डिवाइन व्लिस, विज़न आफ़ गाड, डेलिवरंस फ़्रम सिन, साल्वेशन, बीएटिट्यूड, बैटिज़्म विथ दी होली गोस्ट, विक्रमिड् क्रैस्टास, विक्रमिण ए सन आफ़ गाड^२ इत्यादि शब्दों से कहा है ।

१ Proof.

३ Mystic, gnostic, philosopher.

४ Union with God; freedom of the Spirit; divine bliss; vision of God; deliverance from sin; salvation; beatitude;

वैशेषिक

कणाद के रचे वैशेषिक सूत्रों के पहिले, दूसरे, और चौथे सूत्र ये हैं—

अथ अतः धर्मजिज्ञासा । यतः अभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिः सः धर्मः ।
धर्मविशेषप्रसूनाद् द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायानां पदार्थानां
साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसम् ।

धर्म वह पदार्थ है जिसे से सांसारिक अभ्युदय और पारमार्थिक निःश्रेयस, भोग और मोक्ष, दुनिया और आकाशत, खिलकृत और खालिक दोनो मिलते हैं । इस धर्म मे से एक विशेष भाग के आचरण से द्रव्य आदि पदार्थों के (जिन मे मुख्य द्रव्य आत्मा है) लक्षणात्मक धर्मों का, और उन के साधर्म्य-वैधर्म्य, सादृश्य-वैदृश्य का, तात्त्विक ज्ञान होता है, और तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस होता है । इस लिये साधनभूत मानव-धर्म की आपाततः, और उस के साध्यभूत पदार्थों के धर्मों के तत्त्वज्ञान की मुख्यतः, जिज्ञासा की जाती है । चित्त की शुद्धि के साधक वर्णाश्रम धर्म की चर्चा, वैशेषिक सूत्रों के भाष्य मे, जिस की प्रशस्तपाद ने रचा है, की है ।

सांख्य

कपिल के नाम से प्रसिद्ध जो सांख्य सूत्र मिलते हैं उन का पहिला सूत्र यह है—

अथ त्रिविधदुःखऽत्यंतनिवृत्तिः अत्यंतपुरुषार्थः ।

ईश्वरकृष्ण की रची सांख्य-कारिका का पहिला श्लोक भी यही अर्थ कहता है—

दुःखत्रयाभिघाताज् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ;

दृष्टे साऽपार्था चेत्, न, एकांतऽत्यंततोऽभावात् ।

अनेक प्रकार के दुःख मनुष्यों को सताते हैं । उन की यदि राशियाँ की जायँ, तो तीन मुख्य राशियाँ होंगी, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक । वाचस्पति मिश्र ने, सांख्य-तत्व-कौमुदी नाम की सांख्यकारिका की टीका मे, इन तीनों का अर्थ एक उत्तम रीति से किया है । यथा, आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार के, शारीर और मानस । पाँच प्रकार के वात अर्थात् प्राण वायु, पाँच प्रकार के पित्त, पाँच

baptism with the Holy Ghost; becoming Christos; becoming a son of God.

प्रकार के श्लेष्मा^१—इन के वैषम्य से, उचित मात्रा में न हो कर कमी बेशी से, जो रोग पैदा हों वे शरीर । क्रम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से जो दुःख पैदा हों वे मानस । यह सब आंतरिक उपाय से साध्य हैं, चिकित्सानीय हैं, इस लिये आध्यात्मिक; क्योंकि आत्मा दैह्य (देह-रूपी) भी, जैव (जीव रूपी) भी । बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार के, आधिभौतिक और आधिदैविक । दूसरे जंगम प्राणियों से, तथा प्राकृतिक स्थावर पदार्थों से, जो दुःख अपने को मिले, वह सब आधि-भौतिक; और यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि के आवेश^२ से जो हों, वह आधिदैविक ।

यह वाचस्पति मिश्र का प्रकार है । यदि इस से संतोष न हो तो दूसरे प्रकारों से भी अर्थ किया जा सकता है, और उक्त प्रकार के साथ उन का कथंचित् समन्वय भी हो सकता है । कृष्ण ने गीता के आठवें अध्याय में भी इन शब्दों का अर्थ बताया है । उस के अनुसार, नये शब्दों में, यों कह सकते हैं कि तीन पदार्थ अनुभव से सिद्ध हैं, एक 'मै' जानने वाला, दूसरा 'यह' जो कुछ जाना जाता है, तीसरा इन दोनों का 'संबंध' । विषयी, विषय, और उन का संबंध । चेतन, जड़, और उन का संबंध । स्फिरिट, मैटर, फोर्स । सबजेक्ट, आब्जेक्ट, रिलेशन । गाड, नेचर, मैन^३ ; जीवात्मा (अर्थात् तत्स्थानी चित्त, मन, अन्तःकरण), देह, और दोनों को बाँध रखने वाला प्राण । भिन्न-भिन्न प्रस्थानों से देखने से ऐसे भिन्न-भिन्न त्रिक देख पड़ते हैं । इन में सूक्ष्म भेद भी है, तो स्थूल रूप से समानता भी है । मूल त्रिक पहिले कहा, विषयी-मै-चेतन, विषय-यह-जड़, और दोनों का संबंध । इसी मूल त्रिक की छाया अन्य सब पर पड़ती है । अब

१ Diseases due to derangements of the nervous system and 'the five kinds of nervous forces'; of the assimilative system and 'the five kinds of digestive and bodily-heat-producing secretions'; and of the tissue-building apparatus and 'the five kinds of mucous substances'.

कविराज श्री कुंजलाल भिषगत्न ने सुश्रुत का जो अंग्रेज़ी अनुवाद किया है, उस में बड़ी विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता से इन तीनों का अर्थ वैज्ञानिक और युक्ति-युक्त करने का यत्न किया है ।

२ Obsession by evil spirits.

३ Spirit, matter, force; subject, object, relation (between the two) : God. Nature. Man.

मानव सुख दुःख के प्रसङ्ग में, मुख्य दो ही प्रकार देख पड़ते हैं। एक जो अधिकांश भीतरी है; अपने आत्मा जीवात्मा मन के हैं, अपनी प्रकृति के किए हैं, अन्तःकरण से विशेष संबंध रखते हैं, काम, क्रोध, भय, लोभ, चिंता, ईर्ष्या, पश्चात्ताप, शोक आदि के दुःख, और उन के विकार; इन को आध्यात्मिक कह सकते हैं।

दूसरे जो बाहर से आते हैं, अधिकांश बाहरी हैं, जिन को दूसरे प्राणी, अथवा जड़ पदार्थ, पत्थर, लकड़ी, काँटा, विष, जल, आग, बिजली आदि पाञ्चभौतिक पदार्थ, हमारे पाञ्चभौतिक शरीर को पहुँचाते हैं; इन को आधिभौतिक कह सकते हैं।

तीसरे हमारे जीव और हमारी देह को एक दूसरे से बाँधने वाले जो प्राण हैं, उन के विकार से जो उत्पन्न होते हैं; उन को आधिदैविक कह सकते हैं। दीव्यति, क्रीडति, विजिगीषति, व्यवहरति, द्योतते, मोदते, माद्यति, स्वपिति, कामयते, गच्छति—दिव् धातु के ये सब बहुत से अर्थ हैं। क्रीडा, खेल, का भाव सब में अनुस्यूत है, सब का संग्राहक है। आत्मा और अनात्मा का, पुरुष और प्रकृति का, परस्पर खेल, जीवत् प्राणवान शरीर के द्वारा—यही संसार का रूप है। प्राण ही मुख्य देव है^१। तो प्राणों के विकार से जो रोग और दुःख हों, वे आधिदैविक सूक्ष्म दृष्टि से देखने से, इन का विवेक किया जाय, तो सम्भव है; अन्यथा प्रायः ये भी अथवा आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक के अन्तर्गत होते हैं। अथवा तीन का विवेक यों किया जाय कि मानस दुःख, सब प्रकार के, आध्यात्मिक; शरीर को जो दूसरे जीव जन्तुओं वा जड़ पदार्थों से पहुँचै, वह आधिभौतिक; और प्राण के विकार से जो रोग उत्पन्न हों, ज्वर, काश-श्वास, उदर-शूल, शिरो-व्यथा आदि, वे सब आधिदैविक।

अब पश्चिम के वैज्ञानिक भी धीरे-धीरे मानने लगे हैं, कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, और घातु^२ की सृष्टियों के सिवा अन्य 'योनियों' का भी सम्भव है, जो हम को चर्म-चक्षु से नहीं देख पड़ती। स्थूल शरीर के स्थूल नेत्रों से जितना

१ प्राणों के, इंद्रियों के, महाभूतों के, 'अभिमानि देव' भी उपनिषदों में कहे हैं। एक अर्थ में यह भी कहना ठीक हो सकता है, कि मानव जीव सभी प्राणों इंद्रियों महाभूतों का अभिमानि देव है, क्योंकि इस के पिंड में समस्त ब्रह्माण्ड के पदार्थ, बिंब-प्रतिबिंब न्याय से उपास्थित हैं।

२ Human, animal, vegetable, mineral, kingdoms.

हम को देख पड़ता है, उस के सिवा जगत् में और कुछ है नहीं, ऐसा कहना थोथा अहंकार है^१ ।

देव, उपदेव, यक्ष, राक्षस, गंभव, अप्सरा, भूत प्रेत, पिशाच^२ आदि जीव भी नितरां असंभाव्य नहीं हैं । 'साइकिकल रिसर्च'^३ में जो वैज्ञानिक प्रवृत्त हैं, वे इन के विषय में ज्ञान का संग्रह, उचित परीक्षा के साथ, कर रहे हैं; न अंध विश्वास करते हैं, न अंध अविश्वास ही । तो यदि ऐसे जीव हों, और उन में हमारे प्राणों को, और उन के द्वारा हमारे चित्त को, उन्माद, अपस्मार, आदि रूप से, बाधा पहुँचे, तो उस दुःख का भी आधिदैविक कह सकेंगे । साइको-एनालिसिस, साइकिपेट्री, साइको-थिरापी, साइकिकल रिसर्च^४ आदि के विविध वैज्ञानिक मार्गों से, पश्चिम में जो अन्वेषण हो रहा है, उस से, आगे चल के, इन सब विषयों का जो भारतीय शास्त्र, योग और तंत्र-मंत्र का, नष्ट-भ्रष्ट हो गया है, उस का वैज्ञानिक रूप में जीर्णोद्धार होगा—इस की संभावना है । अस्तु । इस स्थान पर आधिदैविक शब्द के अर्थ के निर्णय के संबंध में यह चर्चा हुई । निष्कर्ष यह कि दुःखों का यह राशीकरण^५ एक सूचना मात्र है । भिन्न दृष्टियों से भिन्न प्रकारों की राशियाँ बनाई जा सकती हैं । विशेष-विशेष दुःखों के प्रकार अनंत असंख्य अपरिगणनीय हैं । दुःख का सामान्य रूप एक ही है, वह अनुभव से ही सिद्ध है, अर्थात् 'मै' का 'हास', जैसे 'मै' की 'वृद्धि', बहुता, बाहुल्य, सुख है; 'भूमा एव सुखम्' । अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव—यह सदा अभेद्य रूप से परस्पर बद्ध हैं । जिस की कहीं प्रधानता हो जाती है, वहाँ उसी का नाम दिया जाता है । आयु^६ में रोगों की प्रायः दो राशि की हैं । एक आधि अर्थात् मानस, और दूसरी व्याधि अर्थात् शारीर । और यह भी कहा है कि आधि से व्याधि, और व्याधि से आधि, उत्पन्न होती है^६ ।

१ "What I know not is not knowledge."

२ Nature spirits, angels, sylphs, fairies, un lines, gnomes, brownies, ghosts, devils, demons, fiends, vampires, succubi, incubi, etc.

३ Psychical research,

४ Psycho-analysis, psychiatry, psycho-therapy, psychical research "The neurotic patient is set free from his neurosis"—this is an idea and expression of frequent occurrence in psycho analytic literature, and it is noteworthy.

५ Classification.

६ Compare: "Psychogenic disorders, that is, disorders

इन सब वर्गों के अर्थात् मानस, शारीर, और मध्यवर्ती अवांतर जो कोई हों, सब दुःखों का, एकांत, निश्चित और अत्यंत सदा के लिए जब मूल से, जो फ़िर न उपजै, ऐसा नाश, दृष्ट उपायों से, औषध आदि से, नहीं होता देख पड़ता है। इस लिए ऐसे उपाय की जिज्ञासा होती है जिस से इन का समूल, सावदिक, अर्संशयित विनाश हो जाय। वह कैसे हो ?

सांख्य का उत्तर है,

ज्ञानेन चऽपवर्गो...व्यक्तऽव्यक्त-ज्ञ-विज्ञानात् ।

बुद्धिर्विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषांतरं सूक्ष्मम् । (सांख्यकारिका)

‘सच्चे ज्ञान से ही अपवर्ग होता है। ‘ज्ञ’, ज्ञाता, द्रष्टा, आत्मा, पुरुष, स्फिरिट,^१ रूह, एक ओर; ज्ञेय, प्रकृति, प्रधान, दृश्य, व्यक्त, मात्रा, मैटर^२ मादा। जिस, दूसरी ओर ; इन का भेद रूप संबन्ध, कारण-रूप अव्यक्त शक्ति, तीसरी ओर ; इन त.नो का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञय मे उस के दोनो रूप, कार्य रूप व्यक्त, और कारण-रूप अव्यक्त, अंतर्गत हैं। और ‘ज्ञ’ मे ‘ज्ञेय’ अंतर्गत है। अपवर्ग के इस ज्ञान-रूपी उपाय को, ख्याति को, विवेकख्यति को, प्रकृति और पुरुष के परस्पर अन्यता भिन्नता की ख्याति को, पुरुष के तात्त्विक स्वरूप की ख्याति को

originating in the mind are variously distinguished as ‘psycho-neuroses,’ ‘functional nervous disorders’, or, more popularly, ‘nervous diseases’ They include neurasthenia, hysteria, anxiety neuroses, phobias, and obsessions, all of which conditions are ultimately due to disturbances of emotional life. In the psycho-neuroses, the disorder is not primarily a disorder of structure, but of function. ‘Organic’ diseases, as distinct from ‘functional’, are preponderatingly physical in origin their cause being some defect of bodily structure. It is a fact that emotional disturbances can produce physiological changes;” J. N. Hadfield, *Psychology and Morals*, p 1, (pub. 1927).

१ Spirit.

२ Matter. “मात्रास्पर्शास्तु, कौंतेय”, (Gītā) ; मांति, परिमाणयंति, अवच्छेदयति, आत्मानं, इति मात्राः, महाभूतानि, इन्द्रियविषयाणि, इन्द्रियाणि च । मां, अहमं, जीवं, त्रायन्ते, व्यञ्जयन्ति, इति वा । मीयन्ते, प्रमीयन्ते, निश्चीयन्ते, ज्ञायन्ते, अत एव त्रायन्ते च, व्यक्तीक्रियन्ते, विद्यन्ते अतः विद्यन्ते, इति वा ।

कि वह प्रकृति से अन्य है, भिन्न है, इसी विवेकप्रमक ख्याति को दर्शन कहते हैं—यह सांख्य का कहना है। “एकमेव दर्शनं, ख्यातिरेव दर्शनं”—ऐसा पंचशिख आचार्य का सूत्र है।

योग

पतंजलि के योग सूत्रों में भी ये ही बातें हैं।

परिणाम-ताप-संस्कार-दुःखैः गुण-वृत्ति-विशेषाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। हेयं दुःखं अनागतम्। द्रष्टृ-दृश्ययोः संयोगो हेय-हेतुः। तस्य हेतुः अविद्या। विवेकख्यातिः अविप्लवा हानोपायः। (अ० २, सू० १५, १६, १७, २४, २६)।

ततः क्लेश-कर्म-निवृत्तिः। पुण्यार्थ-शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति। (अ० ४ सू० ३०, ३४)।

जिस को हम लोग सुख समझते हैं वह भी, विवेक से, बारीक तमीज से, देखने से, कोमल चित्त वाले, नाजुक तबीयत वाले, जीव के लिए दुःख ही है। परिणाम में, आखिरत में, वह भी दुःख ही देता है, इस लिये आदि से ही सब संसार दुःखमय, दुःखव्याप्त, जान पड़ता है। जिस को यह मालूम है कि मुझे कल जहर का प्याला पीना पड़ेगा ही उस को आज खादु से खादु खाद्य चोष्य लेह्य पेय व्यंजन भी प्रिय नहीं लग सकता। और भी; विविध प्रकार की वृत्तियाँ, वासनाएँ, वित्त के भीतर परस्पर कलह सदा किया करती हैं; एक को पूरी करने का सुख होता है, तो साथ ही दूसरी तीसरी के भंग का दुःख होने लगता है; इस से भी सब जीवन, सुकुमार चित्त वाले विवेकी विद्वान् को, दुःखमय जान पड़ता है। इस लिये जो दुःख बीत गया उस की तो अब कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, जो आने वाला है उस को दूर रखना चाहिए। कैसे दूर हो? तो पहिले रोग का कारण जानो तब चिकित्सा करो। सब दुःखों का मूल कारण, द्रष्टा और दृश्य, पुरुष और प्रकृति, का संयोग है। और उस संयोग का भी हेतु मिथ्याज्ञान, अज्ञान-फहमी, धोखा, ला-इल्मी, बेवकूफी, अविद्या है। उस को दूर करने का एकमात्र उपाय, तत्त्वज्ञान, सच्चा ज्ञान, विद्या, बक्फ़. इरफ़ान, मारिफ़त, यानी यह कि पुरुष और प्रकृति के, चेतन और जड़ के, विषयी और विषय के, ‘मैं’ ‘और ‘मेरे’ के, खालिक और खिलक़त के, विवेक, फ़र्क़, भेद को, खूब अच्छी तरह पहिचानो। इस विवेक-ख्याति से सब कर्म और क्लेशों की निवृत्ति होगी।

और वासना, तृष्णा, के क्षीण होने पर, सत्त्व-रजस्-तमस्, अर्थात् ज्ञान-क्रिया-इच्छा, तीनों गुण, स्पंद रहित हो कर शांत हो जायेंगे, बीजावस्था को चले जायेंगे, और चित्, चेतन, आत्मा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जायगा, केवल अपने ही को देखेगा “एकमेवाद्वितीयं” रूपी कैवल्य को प्राप्त हो जायगा, अपने सिवा किसी दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं देखेगा। ‘शैरियत’ को छोड़ कर ‘अनानियत’ में कायम हो जायगा। जब रूह को, आत्मा को, अपना सच्चा स्वरूप मालूम हो जाता है, तब चंचल इच्छाओं की अधीनता से, दीनता से, हिंसा इवम की असीरी से, वह मुक्त हो जाता है। सब काल सब देश में, केवल ‘मैं ही मैं हूँ’, ‘सब वासना केवल मेरे ही अधीन हैं, मैं उन का अधीन नहीं हूँ’, ऐसा कैवल्य वह दियत, परतंत्रता से मोक्ष, सब दुखों के जड़ मूल से नजात, छुटकारा, उस को प्राप्त होता है :

(पूर्व) मीमांसा

जैमिनि के मीमांसा सूत्रों का भी पहिला सूत्र वही है जो वैशेषिक का।

अथातो धर्म-जिज्ञासा ।

इस के भाष्य में शबर मुनि ने कहा है,

तस्माद् धर्मो जिज्ञासितद्यः । स हि निःश्रेयसेन पुण्यं संयुन-
कतीति प्रतिजानीमहे ।

को धर्मः, कथं-लक्षणः, कानि अस्य साधनानि, कानि साधन-
शास्त्रानि, किंपरश्चेति । धर्मं प्र त हि विप्रतिपन्ना बहुविदः कचि-
दन्यं धर्ममाहुः, कांचदनं । साऽयं अविचार्य प्रवर्तमानः कचिदेव
उपादानः विहन्येत, अनर्थं वा ऋच्छेत् ।

धर्म के सच्चे स्वरूप को जानना चाहिये धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इस का लक्षण क्या है, इस के साधन क्या है, धार देने वाले धर्मशास्त्रों और साधनशास्त्रों क्या हैं, इस का अंतिम तात्पर्य, इस का प्रयोजन, क्या है। धर्म के विषय में बड़े जानकार मनुष्यों में भी मतभेद, विवाद, और भ्रान्ति देख पड़ती है; कोई एक बात कहते हैं, कोई दूसरी बात कहते हैं। तो बिना गहिरा विचार किये, किसी एक को धर्म मान ले, और तदनुसार आवरण करने लगे, तो बहुत संभव है कि मारा जाय, अथवा बड़ी हानि उठवे। इस लिये धर्म के सच्चे स्वरूप को खोजना और जानना

चाहिये । धर्म के सच्चे ज्ञान और आचरण से पुरुष को निःश्रेयस प्राप्त होता है । यह मीमांसा शास्त्र की प्रतिज्ञा है ।

यद्यपि मीमांसा शास्त्र का साक्षात् संबंध कर्मकांड से, यज्ञादि-आपूर्तादि धर्म से, कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान से और ब्रह्म से नहीं, तो भी उस का अन्तिम लक्ष्य वही है जो दूसरे दर्शनो का । प्रसिद्ध यह है कि नित्य, नैमित्तिक, और कर्म्य (यज्ञ-याग-दिक, 'इष्ट', और वापी कूप तडाग आदि का लोकांहतार्थ निर्माण, 'आपूर्त') कर्म में, स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में विविध प्रकार के उत्कृष्ट इंद्रिय-विषयक सुख मिलते हैं, अमृतपान, नन्दनवन, गन्धर्व और अप्सरा का गांत वाद्य नृत्य आदि । पर मीमांसा में 'स्वः' शब्द की जो परिभाषा की है उस का अर्थ कुछ दूसरा ही है ।

यन् न दुःखेन संभिन्नं, न च ग्रस्तमनंतरम् ,

अभिलाषापनीतं च, तत्पदं स्वःपदास्पदम् । (श्लोक-वार्त्तिक)

जिस सुख में दुःख का लेश भी मिश्रित न हो, जिस का कभी लोप न हो, जो कभी दुःख से ग्रस्त अभूत न हो जाय, जो अपनी अभिलाषा के अधीन हो, किसी पराए की इच्छा के अधीन नहीं, उस पद को उस अवस्था को, उस सुख को, 'स्वः' शब्द से कहते हैं । यह सुख तो पूर्व परिचिंत सांख्यदि दर्शनो का कहा हुआ आत्यंतिक ऐर्कातिक अ-त्मवशता रूप निःश्रेयस मोक्ष ही है ।

मनु ने भी कहा है.

मर्थं परशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखं,

एतद् विद्यान् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः । (४-१६०)

सर्वभूनेषु च आत्मानं, सर्वभूतानि च अत्मनि,

समं पश्यन् आत्मयाज्ञो, स्वाराज्यं अधिगच्छति । (१२-९२)

परवशता ही दुःख, आत्मवशता ही सुख है । जो अपने को सब में, सब को अपने में, समदृष्ट से देखता और इस दर्शन से ही सर्वदा आत्मयज्ञ करता है वह स्वाराज्य को पाता है । निःश्रेयस, मोक्ष, निर्माण, अपवर्ग, कैवल्य, स्वरूप-प्रतिष्ठा, सब पर्याय हैं ।

इस रीत से देखने से जान पड़ेगा कि, जैसा कुछ लोग विचार करते हैं कि पूर्व मीमांसा का और उत्तर मीमांसा का अशमनीय विरोध है, सो ठीक नहीं । धर्म और ब्रह्म, कर्म और ज्ञान, प्रयोग और सिद्धांत, लोक और वेद, व्यवहार और शास्त्र,

प्रैक्टिस और थियरी, ऐप्लिकेशन और प्रिंसिपल, सायंस और फिलॉसोफी, अमल और इल्म, का संबंध अवच्छेद्य है। शुद्ध आचरण से पुण्य कर्म से, शुद्ध ज्ञान; और शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कर्म—ऐसा अन्याऽन्याश्रय है।

वेदांत अथवा उत्तर मीमांसा

बादरायण के कहे ब्रह्म सूत्रों में तो प्रसिद्ध ही है कि आत्मा के, 'मै' के, ब्रह्म के, सच्चे स्वरूप के ज्ञान से, ब्रह्मलाभ, ब्रह्मसम्पत्ति, सब दुःखों से मुक्ति आनंद और शांति की परा काष्ठा की प्राप्ति, होती है। इन सूत्रों को वेदांत के नाम से कहते हैं, यद्यपि यह नाम तत्त्वतः उपनिषदों का है, क्योंकि वेद नाम से विख्यात ग्रंथों के अंत में ये उपनिषद् रक्खे हैं; अथ च वेद का, ज्ञान का, अंत, समाप्ति, पूर्णता, परा काष्ठा, परमता, जिस का बौद्ध संस्कृत में पारमिता, प्रज्ञापारमिता, कहते हैं, इन में पाई जाती है। कर्मकांड के पीछे ज्ञानकांड का रखना सर्वथा न्याय प्राप्त, मानव जीवन के विकास के क्रमिक इतिहास के अनुसार ही है। पहिले प्रवृत्त, तब निवृत्ति : पहिले यौवन में बाह्यमुखवृत्ति और चंचलता और विविध कर्मों में लीनता पीछे वार्धक्य में अंतर्मुखता, कर्मशिथिलता, स्थितिशीलता, स्थिरबुद्धिता, ज्ञानपरायणता : वेदांत को ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, पराविद्या, आदि नाम से भी पुकारते हैं। और ऐसा जान पड़ता है कि भगवद्गीता के गायक कृष्ण के समय में सांख्य और योग इसी वेदांत के ही दो अर्ध, पूर्वार्ध-परार्ध अर्थात् ज्ञानांश और कर्मांश, शास्त्रांश-प्रयोगांश, थियरी-प्रैक्टिस, सायंस आफ् पीस और सायंस आफ् पावर आकल्ट सायंस मैजिक, थामेटर्जी), मेटाफिजिक्स और स्युपर-फिजिक्स (या साइको-फिजिक्स)^१ इल्म-अमल, इफ़ानु-सुलूक समझे जाते थे।

सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवर्तत, न पंडिताः। (गीता)

सांख्य और योग को वे ही लोग पृथक् बताने हैं जिन की बुद्धि अभी बाल्यावस्था में है, बालकों की सी है। सद्-असद् विवेकिनी बुद्धिः पंडा सा संजाता यस्य सः पंडितः, सत् और असत् में विवेक कर सकने वाली बुद्धि का नाम पंडा, वह जिस में सम्यक् जात, अच्छी तरह से उत्पन्न हो गई है, वह पंडित। जो पंडित है

१ Practice and theory, application and principle, science and philosophy.

२ Theory-practice, Science of Peace and Science of Power (occult science, magic, thaumaturgy), metaphysics-superphysics (or psycho-physics).

वह सांख्य और योग को पृथक् नहीं देखता, उन को एक दूसरे के पूरक-समझता है।

ब्रह्म सूत्रों में दर्शन के प्रयोजन का प्रतिपादन करने वाले सूत्र ये हैं,

अथ ऽतो ब्रह्मजिज्ञासा । जन्मादि अस्य यतः । तन्निष्ठस्य मोक्षोप-
देशात् (अ० १, पा० १, सू० १, २. ७) । तदधिगमे उत्तरपूर्वाद्योरश्लेष-
विनाशौ तद्व्यपदेशात् । यदेव विद्ययेनि द्वि । भांगेन । त्वतरे क्षपयि-
त्वा संपद्यते । (४-१-१३, १८, १९) । संपद्य ऽविर्भावः स्वेन शब्दात् ।
मुक्तः प्रतिज्ञानात् । अनावृत्तिः शब्दाद्, अनावृत्तिः शब्दात् ।
(४-४-१, २, २२)

बृहत्तम. ब्रह्म, सब से बड़े पदार्थ की खोज करना चाहिये, उस को जानना चाहिये; जिस से सब दृश्यमान जगत् की उत्पत्ति स्थिति, संहति होती रहनी है। जो पदार्थ ऐसा बृहत्तम, महत्तम, महतो महीयान्, कि यह सब संसार उस के अधीन हो, "वशे प्रभो मृत्युरपि ध्रुवं ते," कोई वस्तु जिस के अधिकार के बाहर न हो, जिस को, जिस से, जिस के लिये, जिस में से, जिस का, जिस में. और जो ही स्वयं (यतः सार्वविभक्तिः कस्तसिः) यह सारा व्यस्त समस्त जगत् हो। यह इष्टों का इष्ट. बहिष्ठ भी अल्पेष्ठ भी, मदिष्ठ भी अणिष्ठ भी, गरिष्ठ भी लघिष्ठ भी, दविष्ठ भी नेदिष्ठ भी, श्रेष्ठ भी प्रेष्ठ भी, चैतना. चित्, चित्तिशक्ति, चैतन्य, आत्मा ही है। इस विद्या, इस ज्ञान, इस अनुभव में परिणष्टित होने से, अभेद-बुद्धि का, 'युनि-वर्साएल्टी, युनिटी, कर्नटन्युइटी, आफ् आल् अइफ्, आल् कान्दासनेस्, नेवर,^१ का, तौहीद, इत्तिहाद ला तफ़ीक का, यक़ीन हो जाता है। तब आत्मा को बांधने वाले, बंधन में डालने वाले, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य से गिरा कर परतंत्रता, पराधीनता दीनता में डालने वाले, सब पुण्य पापों के मूल राग-द्वेष आदि की वासना का, तृष्णा का. मायाबोज की घोरता उग्रता का, जिस को अब पच्छिम में विल-ट्र-लिव. विल-ट्र-पावर. लिबिडो, एलान् वीटाल्, हार्में. अर्ज-आफ्-लाइफ्^२ आदि नामों से पहचानने और कहने लगे हैं क्षय होता है। तब शांत मन से अपने प्रारब्ध कर्मों के फलभूत सुख-दुःखों का सहन करता हुआ. स्थिर-बुद्धि असंमूढ, स्थित-प्रज्ञ, अपने

१ Universality, unity, continuity, of all life, all consciences usness, all nature.

२ Will-to-live, will-to power, libido, *elan vital*, hormone, urge-of-life.

परमात्म-भाव में संपन्न और प्रतिष्ठित, जीव, सब मिथ्या भावों से मुक्त हो जाता है^१। जब तक शरीर रहता है तब तक अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है, पर नए धोखों के चक्कर में नहीं पड़ता, और छूटने के बाद फिर इस जगत् में नहीं आता।

ब्रह्मविद् आप्नोति परम् । ब्रह्मैव सन् ब्रह्म ऽप्नोति ।
ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ।^१

ब्रह्म को जानने वाला परम पदार्थ परमार्थ को पाता है। जो ही ब्रह्म सदा से था वही ब्रह्म फिर भी हो जाता है, वही बना रहता है।

मुहम्मद पैगम्बर की हदीस है, “अल आना कमा काना”, मैं जैसा था वैसा हो गया और वैसा हूँ। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है वृहत्तम, सब से बड़ा भी, और अनंत बढ़ने की शक्ति रखने वाला भी।

वृहत्त्वाद् वृंहणत्वाच् च ऽऽत्मैव ब्रह्म इति गीयते ।

ऐसा पदार्थ ‘मैं’ आत्मा ही है, इस लिये आत्मा ही को ब्रह्म कहते हैं। जिस ने ब्रह्म को, आत्मा को, पहिचाना, जिस को यह निश्चय हो गया कि ‘मैं’ परमात्म-स्वरूप है और हूँ, विन्मय सब से बड़ा, अमर, “अनल् हक”, “ला इलाहा इल्ला अना”, ‘मे’ के, मेरे, सिवा और कोई दूसरा अल्ला नहीं उस को सब कुछ मिल गया।

यं लब्ध्वा च ऽपरं लाभ मन्यते न ऽधिकं ततः;
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुहणापि विच्चाभ्यते;
तं विद्यद् दुःखसयोगत्रियागं योगसंज्ञितम्;
स निश्चयेन यः क्तव्यो योगो ऽनिर्विण्णचेतसा । (गीता)

जीवात्मनोऽनु संयोगो योग इत्युच्यते बुधैः ।
योगश्च पक्ष्यं हि कथ्यते ।

मनुष्य को अथरु मन से उस योग में जतन करना चाहिये लग जाना चाहिये, जिस से सब दुःख से त्रियाग हो जाय, और उस पदार्थ से संयोग हो जिस का लाभ हो जाने पर अन्य किसी वस्तु के लाभ की तृष्णा नहीं रह जाती, जिस से बढ़ कर और कोई दूसरा लाभ नहीं।

१ Is finally freed from the root psycho-neurosis, A-vidyā.

२ तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, नृसिंहोत्तर, मुंडक उपनिषत् ।

पाश्चात्य मत, आश्चर्य से जिज्ञासा की उत्पत्ति

इन सब उद्धारणो से यही सिद्ध होता है कि पूर्व देश में दर्शन पदार्थ का आरंभ सब बंधनो से मोक्ष पाने की इच्छा से, आत्यंतिक ऐकांतिक दुःख-जिज्ञासा सुख-लिप्सा से, हुआ है। पच्छिम देश में विविध मत कहे गए हैं। पर ऐसा जान पड़ता है कि गहिरा दृष्टि से देखने से, उन सब का भी पर्यवसान इसी में पाया जायगा।

प्लेटो और ऐरिस्टाटल ने कहा है कि फलसफा, दर्शन, का आरंभ 'वंडर'^१ अर्थात् आश्चर्य से होता है, आश्चर्य से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। गीता में भी इस का इशारा है,

आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनं, आश्चर्यवद् वदति तथैव च ऽन्यः;
आश्चर्यवच् च एन अन्यः शृणोति, श्रुत्वा ऽप्येनं वेद न चैव कश्चित् ।
(गीता)

आश्चर्य से लोग इस सब सृष्टि तो देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, पर कोई इस को ठीक-ठीक जानता नहीं।

तथा उपनिषदों में भी,

श्रवणाया ऽपि बहुभिर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तो ऽपि बहवो यं न विद्युः,
आश्चर्यो वक्ता, कुशलो ऽस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलो ऽनुशिष्टः।
(कठ, १-२-७)

इस रहस्य का सुनना दुर्लभ है, सुन कर समझना दुर्लभ है। इस का जानने, कहने, सुनने, समझने, वाला—सब आश्चर्य है।

ऋग्वेद के संहिता भाग में भी आश्चर्य से प्रेरित प्रश्न मिलते हैं।

अमी य ऋक्षा निहितास उच्चाः नक्तं ददशो कुहचिद् दिवा ईयुः ;
अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि, विचाकशत् चन्द्रमा नक्तमेति ।

(मं० १, सू० २२)

ये तारे ऊँचे पर रखे हुए रात में देख पड़े, दिन में कहाँ चले गए ? वरुण के कर्म अर्थात् आकाश के अचरज, समझ के पार हैं। रात में चमकता हुआ चंद्रमा निकलता है। तथा यजुर्वेद में,

किं स्विद् आसीद् अधिष्ठानम्, आरंभणं कतमस्स्विद् कथासीत् ;
यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्याम् और्णात् महिना विश्वचक्षाः ।
(अ० २३) ।

इस जगत् का आरंभक अधिष्ठान सर्वव्यापी क्या था, कौन था, कैसा था ? किस विश्वकर्मा ने, सब रचना की शक्ति रखने वाले ने, सब कुछ कर सकने वाले ने, सर्वशक्तिमान् ने, उस में से इस भूमि को उत्पन्न किया ? किस सर्वचक्षा ने, सब कुछ देखने वाले ने, सर्वज्ञ ने, इस आकाश में इस ध्रुव लोक को, अपनी महिमा से फैलाया ।

ऋग्वेद का, दस ऋचा का. हिरण्यगर्भ सूक्त (म० १, सू० १२१) सब का सब इसी प्रश्न को पूछता है, “कस्मै देवाय हविषा विधेम ।” उस का पहिला मन्त्र यह है,

हिरण्यगर्भः समवर्त्तत ऽग्रे, भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत् ;
स दाधार पृथिवीं द्यां उत इमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम ?

सोने के ऐसा चमकता हुआ, सब से पहिला, सब भूतों का पति, इस पृथ्वी और इस आकाश का फैलाने और सम्हालने वाला, जिस ने ऐसे अचरज रचे, वह कौन देव है, कि उस को हम पूजा करें ?

अचरज की चर्चा चली है । इस अचरज को भी देखिये कि जो ही प्रश्न वेद के ऋषि के मन में उठे, जो ही प्रश्न आज काल के, अच्छी से अच्छी ऊंची शिक्षा पाए हुए बुद्धिमत्तर पश्चिमी विद्वान के मन में उठते हैं, वे ही प्रश्न अफ्रीका की अशिक्षित जातियों में से एक ‘बासूटी’ जाति के एक मनुष्य के हृदय में उठते हैं, और वैसे ही सरस और भावपूर्ण शब्दों में उठते हैं ।

‘एक देशाटन के प्रेमी सज्जन ने शुद्ध निष्कारण, मानस कुतूहल का उदाहरण लिखा है । एक बेर “बासूटी” जाति के एक मनुष्य ने उन से कहा—बारह बर्ष हुए मैं अपने पशुओं को चराने ले गया । आकाश में धुंध थी । मैं एक चट्टान पर बैठ गया । मेरे मन में शोक भरे प्रश्न उठने लगे । शोक भरे, क्योंकि उन का

१ कोई, इस सूक्त का व्याख्यान, प्रश्नात्मक नहीं करते, किन्तु वर्णनात्मक और नमस्कारात्मक करते हैं, ‘कस्मै’ को, सर्वनाम ‘कः’ की नहीं, बल्कि प्रजा-पति-वाचक ‘कः’ की चतुर्थी का रूप कहते हैं । साधारणतः वह रूप ‘काय’ लौकिक संस्कृति में होता है, पर वैदिक में ‘कस्मै’ भी हो सकता हो ।

उत्तर सूझ नहीं पड़ना था। तारों को किसने अपने हाथों से छुआ है ? किन किन खम्भों पर ये रक्खे हैं ? पानी सदा बहता ही रहता है। कभी थकता नहीं। बहना छोड़ दूसरा काम कोई उस को आता नहीं। सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक, बहता ही रहता है। कहीं भी ठहरता है, कभी भी आराम लेता है, या नहीं ? कौन उसे बहाता है ? बाइल आते हैं, जाते हैं, फट कर पृथ्वी पर पानी के रूप में गिरते हैं। कहाँ से आते हैं ? कौन भेजता है ? हवा को मैं देख नहीं सकता। पर है अवश्य। क्या है ? उस को कौन चलाता है ? सिर झुका कर, दोनों हाथों से मुंह छिपा कर, मैं सोचता रह गया।^१

प्रश्न वे ही अथवा वैसे ही हैं जैसे वेद के। उत्तर बेचारा 'बासूटो' कुछ भी नहीं समझ पाता। उस के जीवात्मा का अधिक उत्कर्ष होने पर कुछ समझेगा। प्रश्न शोकपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर नहीं सूझता; मुह को हाथों से ढांक कर सोचता है, 'इन बातों में प्रकृत देवता ने क्या आफत छिपा रक्खा है ?' इस पर आगे कुछ कहा जायगा। पश्चिम के सभ्य देशों का आधुनिक वैज्ञानिक विद्वान् इन प्रश्नों का बहुत कुछ उत्तर देता है और कार्य-कारण की परम्परा को बहुत दूर तक ले जाता है, पर अंत में मूल कारण के विषय में वह भी शोकपूर्ण हो जाता है, मुह को हाथों से छिपा कर गहिरा सोच करता ही रह जाता है, और 'दी मिस्ट्री आफ़ दी यूनिवर्स' के सामने, या तो 'चांस', या 'ला आफ़ एवोल्यूशन', या 'एनर्जी' या 'अन् नोएबल'

१ "In the following, reported by a traveller, we have an instance of this spontaneous transition to disinterested curiosity in the case of an intelligent Basuto: 'Twelve years ago' (the man himself is speaking) 'I went to feed my flocks. The weather was hazy. I sat down upon a rock and asked myself sorrowful questions; Yes, sorrowful, because I was unable to answer them. Who has touched the stars with his hands ? On what pillars do they rest ? The waters are never weary, they know no other law than to flow without ceasing—from morning till night, and from night till morning, but where do they stop, and who makes them flow thus ? The clouds also come and go, and burst in water over the earth. Whence come they ? Who sends them ? I can not see the wind, but what is it ? Who brings it, makes it blow ? Then I buried my face in both my hands' : Casalis, *The Basutos*, p. 239, quoted in a footnote at p. 311 in *The Psychology of the Emotions* by Ribot.

प्रभृति शब्दों का, या 'गाड' ^१ शब्द का, प्रयोग करता है। वैदिक ऋषि ने उस को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ब्रह्म, 'परमात्मा, चैतन्य, ऐसे नामों से समझने समझाने का प्रयत्न किया है।

मानस कुतूहल से जिज्ञासा, तथा संशय से, तथा कल्पना की इच्छा से

पच्छिम में अधिकतर विचार साम्प्रत काल में मौजूदा जमाने में, यह रहा है कि जैसे अन्य उत्कृष्ट ज्ञानों और शास्त्रों का, वैसे ही फलसफा का, प्रेरक प्रयोजक हेतु सम्पूर्णतः नहीं तो मुख्यतः 'इंटेलेक्चुअल क्युरियासिटी' ^२, मानस कुतूहल, है। बच्चों को नई वस्तु के विषय में बड़ा कुतूहल रहता है, यह क्या है, क्यों है, इस का नाम क्या है, यह कैसे हुआ, कैसे बनता है, इत्यादि। जो बाल्यावस्था में ज्ञान के वर्धन का कारण है वही प्रौढ़ावस्था में भी।

जो अशिक्षित जाति की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है वही सुशिक्षित जाति को और आगे चलाता है। पैथागोरस ने फलसफा का जन्म शुद्ध ज्ञान की इच्छा से, अथवा नवीन रचना कल्पना कर सकने के लिये उपयोगी ज्ञान पाने की इच्छा से, बताया है। तथा डेकार्ट ने संशय से। ये दोनों भी, एक ओर आश्चर्य से, दूसरी ओर कुतूहल से, मिलते हैं। यह सब विचार भी निश्चयेन अंशतः ठीक हैं। जैसे बासटो के प्रश्नों में शोक निगूढ़ होने का प्राकृतिक गभीर अभिप्राय है, वैसे ही इस कुतूहल, संशय, ज्ञानेच्छा, में भी वही अभिप्राय अंतर्हित है; निष्कारण कुतूहल नहीं है। यह आगे दिखाने का यत्न किया जायगा। पर तत्काल इस कुतूहलवाद को पच्छिम में यहाँ तक बढ़ा दिया, कि विज्ञानशास्त्री और कलावित् कहने लग गए, कि 'सायंस इज़ फ़ार् दी सेक आफ् सायंस', 'आर्ट इज़ फ़ार् दी सेक आफ् आर्ट' ^३। अर्थात् मानव जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं, सिवा इस के कि शास्त्र की वृद्धि हो, कला की वृद्धि हो। मानव जीवन केवल साधन, शेष, उपाय, मार्ग; और शास्त्र अथवा कला केवल साध्य, 'शेषी,' उपेय, लक्ष्य हो गए।

अतिवाद

पच्छिम में यह अतिशयोक्ति और अंधभ्रम, मूढ़ग्राह और अति भक्ति, वैज्ञा-

१ The mystery of the Universe; Chance; Law of Evolution; Energy; Unknowable; God.

२ Intellectual curiosity.

३ 'Science is for the sake of science', 'Art is for the sake of art' etc.,

निक आभिमौक्तिक शास्त्रों के विषय में वैसी ही फैंजी जैसी भारतवर्ष में धर्मशास्त्रों के विषय में; यहाँ तक कि अपने को पंडित मानने वाले लोग भी बुद्धिद्वेषी हो कर यह डिंडिम करने लग गए कि 'धर्म में बुद्धि का स्थान नहीं।' यद्यपि यह प्रायः प्रत्यक्ष-सिद्ध है, और पूर्व के भी और पच्छिम के भी पूर्वाचार्यों का माना हुआ सिद्धांत है, कि वैज्ञानिक शास्त्र भी और धर्म शास्त्र भी, समी शास्त्र, परस्पर सम्बद्ध होते हुए, एक दूसरे की बाधा और व्याहति न करते हुए, एक व्यापक सत्य तथ्य ज्ञान के अंग और अंग होते हुए देश-काल-निमित्त के अनुसार मनुष्यों के व्यवहार के संशोधन और उन के जीवन के सुख के साधन और उत्कर्षण के लिए बने और बनाये गये हैं और बनते जाते हैं। दर्शन के ग्रंथों से जो सूत्रादि पहिले उद्धृत किए और बताए गए, यथा "यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः," उन से स्पष्ट है कि धर्म पदार्थ मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन मात्र है, स्वयं साध्य नहीं। मनुष्य के लिए शास्त्र है, शास्त्र के लिए मनुष्य नहीं, इस तथ्य के विरोधी अतिवाद की अतिवादता को विचारशील सज्जनों ने पच्छिम में भी अब पहिचाना है, और नामी वैज्ञानिक करने लगे हैं कि — "सायंस इन् फ़ार् लाइफ्, नाट् ल इफ् फ़ार सायंस,"^१ अर्थात् शास्त्र और कला आदि सब मानव जीवन के सुख के साधन मात्र हैं, स्वयं साध्य नहीं हैं। इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि प्रत्येक सभ्य जाति में स्वास्थ्य और समृद्धि बनाने वाले कानून विज्ञान के आधार पर बनाए जाते हैं (वेद-मूलो हि धर्मः, 'धर्मो वेदे प्रतिष्ठितः,' का जैसा अर्थ है, यानी ज्ञान पर, विज्ञान पर, सायंस-शास्त्र-वेद पर, धर्म-कानून को प्रतिष्ठित होना चाहिए हो); और बड़े बड़े कर्मांतों यंत्रालयों के साथ वैज्ञानिक योग्यशास्त्र भी रक्खी जाती हैं, जिन की उपज्ञाओं, बुद्धि की 'उपजो', जिह्तों, ईजादों, का, नवीन आविष्कारों का, उपयोग उन कर्मांतों में किया जाता है। गत दो विद्व-युद्धों में ऐसी उपज्ञाओं का कैसा राक्षसी दुरुपयोग किया गया यह भी प्रसिद्ध है।

सायंस के स्वयं साध्य-लक्ष्य होने का जो अतिवाद कुछ दिनों प्रचल रहा उस का मूल कारण यही रहा होगा कि मध्ययुगीन यूरोप में कई सौ वर्ष तक धर्म के बहाने एक विशेष (रोमन कैथलिक) मत के रूप में धर्माभास ने अंधश्रद्धा को अति प्रचंड कर,

१ Science is for life, not life for science.

२ Experimental Laboratory. सुश्रुत में "तस्माद् योग्यं कारयेत्", योग्या शब्द 'एक्सपेरिमेंट' के अर्थ में मिलता है।

जाति का कल्याण है। निष्कर्ष यह कि मानस कुतूहल भी निश्चयेन ज्ञान की वृद्धि में अंशतः प्रेरक हेतु है, पर जैसे आश्चर्य, वैसे कुतूहल भी, परम्परया, उक्त मूल प्रयोजन का अर्वांतर और अधीन साधक है। इस को विशद करने का यत्न आगे किया जायगा।

कर्तव्य कर्म में प्रवर्तक हेतु की जिज्ञासा

पच्छिम में कुछ दार्शनिकों ने यह भी माना है कि कर्तव्य से जिस मनुष्य का चित्त किसी कारण से विमुख, निरुद्ध, प्रतिबद्ध, हो रहा है, उस को उस कार्य में प्रवृत्त करने के लिए, तथा अकर्तव्य को करने के लिए जिस का मन चञ्चल और व्युत्थित हो रहा है उस को उस से निवृत्त, निरुद्ध, शान्त करने के लिए भी फलसफ़ा का प्रयोजन होता है। यह एक व्यावहारिक प्रयोजन भी फलसफ़ा का है। यह बात भी ठीक ही है।^१ भगवद् गीता, तथा योग-वासिष्ठ, इस के उदात्त उदाहरण हैं।

वैराग्य से जिज्ञासा

संसार की दुःखमयता को देख कर के भी, जैसा पूर्व में वैसा पच्छिम में भी, कोमलचित्त मृदुवेदी स्त्रियों और पुरुषों की, दार्शनिक विचार की ओर प्रवृत्ति हुई है। यूरोप के मध्य युग में, जैसा भारत के मध्य युग में, और वर्तमान

१ "The relationship between theoretical and practical philosophy is a psychological one. The inhibited person requires a stimulant before he can act, or a sedative in order to bear inaction; the practical philosophies provide these. Every philosophy, says Nietzsche, however it may have come into existence, serves definite educative ends, e. g., to encourage or to calm, etc." *Herzberg, The Psychology of philosophers.* p. 213.

२ Thus, George Sand (quoted by Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, I, 347) "when the sadness, the want, the hopelessness, the vice, of which human society is full, rose up before me when my reflections were no longer bent upon my proper destiny, but upon that of the world of which I was but an

समय में भी, इस 'दुःखमेव सर्वं विवेकिनः' की दृष्टि का प्रभाव अधिकतर यह होता रहा और है कि लोग किसी न किसी प्रकार के भक्ति 'मार्ग' या पंथ में जा रहते थे। 'मोनास्टरी', मठ, विहार, में पुरुष; 'कानवेंट' या 'नश्यरी' में स्त्रियाँ^१। इस प्रकार से, भक्ति से, ईश्वर में, विष्णु, महादेव, दुर्गा, अल्ला, गॉड, जेहोवा, अहुरा मज़दा में, ईसा में, बुद्ध, मुहम्मद, ज़रदुस्त, राम, कृष्ण में, मन लगा कर, संसार के झगड़ों से अलग हो कर, पर कुछ लोकसेवा भी करते हुए, जन्म बिता देते थे। कुछ गिने चुने जीव, ज्ञान की ओर झुक कर, दार्शनिक विचारों की सहायता से, अपने चित्त की शांति करते थे, और दूसरों को शांति देने का यत्न भी करते थे।

उत्तम प्रकार के सास्विक, परार्थी लोक हितैषी 'विवेक-वैराग्य' का यह स्वरूप है; जैसा बुद्ध का हुआ, जैसा ब्रह्मज्ञान के सब सच्चे अधिकारियों को होना चाहिये; अपने ही छुटकारे की चिन्ता नहीं। पच्छिम के एक ग्रंथकार ने कई पाश्चात्य दार्शनिकों के उदाहरण दिए हैं जिन को भी, ऐसी शुद्ध नहीं, पर इस के समीप की, कोमलचित्तता का अनुभव हुआ।^१

उक्त सब प्रकार उपनिषदों में भी दिखाए हैं। श्वेतकेतु बाल्यावस्था में, खेल कूद में मग्न, प्रकृति के उग्र थे। पिता उद्दालक ने कहा, "वस ब्रह्मचर्यं, नैव, सोम्य !, अस्मत्कुलीनो ब्रह्मबंधुः इव भवति", गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य का संग्रह करने वाली चर्या करते हुए, वास करो, विद्या सीखो; हमारे कुल में, आर्य कुल में अनार्य अनार्य मनुष्य होने की चाल नहीं है। ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ, परमात्मा भी; परमात्मनिष्ठ वेद अर्थात् सब सत्य विद्या, शास्त्र, ज्ञान भी; और अनंत संतान-परम्परा की सृष्टि की दिव्य शक्ति का धारण करने वाला शुक, वीर्य, भी; तीनों का संवय करो। श्वेतकेतु ने चौबीस वर्ष की उम्र तक पढ़ा; घर लौटे, विद्या मद से स्तब्ध, 'मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे ऐसा बुद्धिमान विद्वान् दूसरा नहीं।' तरह-तरह के मद होते हैं, बलमद, रूपमद, धनमद, ऐश्वर्यमद, तथा विद्यामद, बुद्धिमद भी। पिता ने देखा

atom, my personal despair extended itself to all creation, and the law of fatality arose before me in such appalling aspect that my reason was shaken by it."

१ Monastery; convent; nunnery. See Wells' *Short History of the World*, on such, in China etc., and Lin Yutang's *My Country and My People*.

२ Herzberg, *The Psychology of Philosophers*.

कि पुत्र ने बहुत कुछ सीखा, पर जो सब से अधिक उपयोगी बात है, जिस का सीखना सब से अधिक आवश्यक है, वही नहीं सीखा, मनुष्यता इन्सानियत, नहीं सीखा, अपने को नहीं पहचाना—मैं क्या हूँ, पोथी पत्रों के भार का वाहक ही हूँ, बहुत से शब्दों के उच्चारण करने का यंत्र मात्र हूँ, या कुछ और हूँ, यह नहीं जाना। उस की सोई हुई आत्मा को जगाया। कुतूहल के द्वारा पूछा, 'पुत्र, बहुत बातें सीखा; क्या वह भी सीखा जिस में अनसुनी बात सुनी हो जाय, अनजानी बात जानी हो जाय?' श्वेतकेतु ने कहा 'यह तो नहीं जाना, सो आप शिक्षा दीजिए।'

जनक की सभा में जल्प और विवाद से भी आरम्भ कर के याज्ञवल्क्य आदि इसी परमार्थ ज्ञान पर श्रोताओं को लाये। कितने ही प्रश्नों ने, उपनिषदों में, दूसरे विषयों के प्रश्नों से आरंभ किया है, पर अवमान इसी में हुआ है। अर्थात् दुःख की जिहासा और सुख की लिप्सा; सुख कैसे मिले, दुःख कैसे छूटे। मक्खी और मच्छर, साँप और बीछू, बाघ और भेड़िये, क्यों पैदा हुए, यह अक्सर पूछा जाता है। आम और ईख, गुलाब और चमेली, कोयल और बुलबुल, क्यों पैदा हुए, यह शायद ही कभी कोई पूछता हो। हाँ, मक्खी और मच्छर वगैरह कम कैसे हों, आम और ईख आदि बड़े कैसे, इस पर बहुत खोज और मिहनत की जाती है।

सब का संग्रह

ज्ञान और इच्छा और क्रिया का अविच्छेद्य संबंध है। जानाति, इच्छति, यतते। यद्ध्ययति तदिच्छति, यदिच्छति तत्करोति, यत्करोति तद्भवति।

ज्ञान से इच्छा, उस से क्रिया, उस से फिर और नया ज्ञान, फिर और इच्छा, फिर और क्रिया, फिर और ज्ञान—ऐसा अनंत चक्र चला हुआ है। जिज्ञासा का अर्थ ज्ञातुम् इच्छा, ज्ञान की इच्छा। आश्चर्य, कुतूहल, नई कल्पना करने की अंतःप्रेरणा, संशय निवृत्त करने की इच्छा—ये सब जिज्ञासा के ही विविध रूप हैं। और सब का मर्म यही है कि साक्षात् नहीं तो परम्परया कार्य-कारण का संबंध जान कर, आज नहीं तो जब अवसर आवे तब, हम उस ज्ञान के द्वारा दुःख का निवारण और सुख का प्रसारण कर सकें। विशेष दुःख के उपाय की आकांक्षा, विशेष सुख के उपाय की कामना, से विशेष शास्त्र। विशेष निःशेष दुःख की, दुःखसामान्य, की निवृत्ति की वांछा, उत्तम सुख, परमानंद, सुखसामान्य, की अभिलाषा, से शास्त्र-सामान्य अर्थात् दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति होती है; और इस आशा की पूर्ति ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। मीमांसा का सिद्धांत है "सर्वमपि ज्ञानं कर्म परं, विहितं कर्म धर्मपरम्, धर्मः पुरुषपरः अर्थात् पुरुषनिःश्रेयसपरः"; सब ज्ञान, कर्म का उपयोगी

है; उचित न्याय्य कर्म, धर्म का उपयोगी है; धर्म, पुरुष का अर्थात् पुरुष के निःश्रेयस का । आत्मज्ञान ही निःश्रेयस परमानंद है । इस लिए,

सर्वे कर्म ऽखिलं, पार्थी, ज्ञाने परिसमाप्यते । (गीता)

दर्शन को उत्पत्ति के, उक्त ज्ञानात्मक, इच्छात्मक, क्रियात्मक, 'इंटेलैकचुअल, इमोशनल, और प्रैक्टिल अथवा ऐक्शनल',^१ सभी स्थानों का संग्रह. गीता के एक श्लोक में मिलता है ।

**चतुर्विधा भजंते मां जनाः सुकृतिनो, ऽर्जुन' !
आर्त्तो जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च, भरतर्षभ !**

आर्त्त, विशेष अथवा अशेष दुःख से दुःखित; जिज्ञासु, विशेष अथवा निःशेष ज्ञान का कुतूहली; अर्थार्थी, अल्प अथवा परम अर्थ का अर्थी; और ज्ञानी; ये चार प्रकार के मनुष्य, मुझ को, विशेष इष्टदेव, ईश्वर, को, विशेष ज्ञानदाता, विशेष अर्थदाता को, अथवा 'मैं' को परमात्मा को, सर्वार्थदाता को, भजते हैं ।

इन सब प्रकारों का मूल खोजा जाय तो प्रायः सब का समन्वय हो जाय । अशक्तता, दुर्बलता, अतः पराधीनता और पर से भय, दुःख का भय और भय का दुःख और उस दुःख से दूर होने की इच्छा, तथा स्वाधीनता, आत्मवशता, सर्वशक्ति-मत्ता, निर्भयता, और तज्जनित असीम सुख पाने की इच्छा—यह इच्छा इन सब प्रकारों के भीतर, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त रूप से, अनुस्यूत है । 'बासूटो' मनुष्य के प्रदं देखने में शुद्ध मानस कुतूहल से जनित होते हुए भी शोकपूर्ण थे । क्यों ? उत्तर न दे सकने के कारण । 'न सकना', अशक्तता, यही तो परवशता और दुःख का मूल स्वरूप है ।

**सर्वे परवशं दुःखं, सर्वे आत्मवशं सुखम्-
एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ।**

(मनु, अ० ४, श्लोक १६०)

सब परवशता, विवशता, वेवसी ही दुःख, सब आत्मवशता, स्वतंत्रता, खुद-मुस्तारी ही सुख, यह सुख और दुःख का तात्त्विक हार्दिक लक्षण थोड़े में जानो—यह मनु का आदेश है । दूसरे शब्दों में, इष्टलाभः सुखं, अनिष्टलाभः दुःखं; जो जो अपना चाहा पदार्थ है उस का मिलना सुख, जो जो अपना चाहा नहीं है उस का

1 Intellectual ; emotional ; practical or actional.

मिलना दुःख । अपनी मर्जी के खिलाफ़, अपने मन के विरुद्ध, कोई बात होना ही दुःख; अपनी इवाहिश के मवाफ़िक़, अपने चित्त के अनुकूल, जो ही बात हो वही सुख । नश्वरता का दुःख, मृत्यु के भय का दुःख, यही सब भयों और सब दुःखों का सार है, परवशता की परा काष्ठा है; इस के निवारण के उपाय की जिज्ञासा मुख्य जिज्ञासा है; इस का निवारण हो सब अर्थों का परम अर्थ है । और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, कि वह अजर-अमर है, स्वतंत्र है पराधीन नहीं; सब उस के अधीन, वह किसी के अधीन नहीं; जो कुछ मुख-दुःख का भान उस को होता है वह अपनी लीलामयी संकल्प शक्ति, ध्यान शक्ति, इच्छा शक्ति, माया शक्ति, अविद्या शक्ति से ही होता है, दूसरे किसी के किया नहीं—यही ज्ञान एक मात्र परम उपाय सब दुःख के निवारण और सब सुख अर्थात् परम शांति रूप परम आनन्द के प्रापण का है । यदि मृत्यु का भय और दुःख मनुष्य को न होता तो निश्चय है कि पृथ्वी पर धर्म-मज्जहब-रिलिजन का और दर्शन शास्त्र का दर्शन न होता । इन की ज़रूरत ही न पड़ती । कवि ने हँसी में बहुत सच कहा है, “ये भी कहेंगे फ़ैली खुदाई बजोरे मौत” (अक़बर इलाहावादी) । जब और जिस को यह भय है, तब और तिस को धर्म की, मज्जहब-रिलिजन की, दर्शन की, आवश्यकता इस के शमन के लिए रही है और होगी । धर्म को, दर्शन को, पृथ्वी से उठा देने का प्रयत्न करना, आकाश को लाठी से तोड़ना और बिना वायु के मनुष्य को जीते रखना है ।

इसी लिए भागवन में, कुरान में, इज़ील में कहा है ।^१

यस्य ऽनुग्रहं इच्छामि तस्य सर्वं हरामि अहम् ।

इस का, भगवद् गीता के उक्त श्लोक के साथ मिला कर, यों अनुवाद किया जाय, तः दर्शन की उत्पत्ति के सब स्थानों का समन्वय हो जाय,

ईश, आत्मा, अंतर्यामी, कहत पुकारि-पुकारी,
जा को चहूँ अनुग्रह वा की छीनों सम्पद सारी;
संपद खोइ, होइ आरत अति, परम अर्थ अरथावै,
जिज्ञासा करि, ज्ञान पाइ तब, सब जग में मोहि भावै ।

पाशवात्य कविता में उसी दिव्य वासना का अंकुर ।

अंतरात्मा की यह दिव्य प्रेरणा, सार्वत्रिक वासना, सब देशों में, सब कालों में,

अशिक्षित, सुशिक्षित सब मनुष्यों में, 'बासूटी' मनुष्यों में, वैज्ञानिक में, वैदिक ऋषि में भी, सदृश रूप से काम कर रही है; कहीं प्रसुप्त अव्यक्त अनुद्बुद्ध है, कहीं किंचिद् व्यक्त अंकुरित स्पंदित अर्ध निद्रा है, कहीं तनु है, कहीं विच्छिन्न है, कहीं व्यक्त स्फुट उद्बुद्ध है, कहीं उदार है; पर सब को आत्मज्ञान,^१ आत्म-दर्शन, की ओर ले चल रही है। यह दिखाने को दो अंग्रेजी कवियों की उक्तियों का उद्धरण करना चाहता हूँ। एक का देहान्त १६३३ ई० में हुआ, दूसरे का १९०७ ई० में।

जार्ज हर्वर्ट की गीत के सब पथों का संपूर्ण अनुवाद, उन के ऐसे सुंदर शब्दों में करना, मेरे लिए असंभव है; थोड़े में आशय यों कहा जा सकता है,

सिरजि मनुज कौ ईश ताहि सब सम्पति दीन्ह्यौ,
पर नहि दीन्ह्यौ शांति, एक वा कौ रखि लीन्ह्यौ,
इन खेलन तैं थकि अवश्य कवहुँक उकतावै,
करत शांति की खोज गोद मेरी फिरि आवै।^२

१ Unconscious, dormant, sleeping; fore-conscious; 'tenuous', 'thin', slightly conscious; now conscious now unconscious, broken; wide-awake, fully conscious.

२ Self-realisation.

३ When God at first made man,
Having a bowl of blessings standing by,
"Let us", He said, "pour on him all we can,
Let the world's riches which dispersed lie,
Contract into a span".

So Strength first made a way,
Then Beauty flowed, then Wisdom, Honour, Pleasure;
When almost all was gone, God made a stay,
Perceiving that, alone of all His treasure,
Rest at the bottom lay.

For "If I should," said He,
"Bestow this Jewel also on my creature,
He would adore My gifts instead of Me,
And rest in Nature, not the God of Nature,
So both should losers be.

Yet let him keep the rest,
But keep them with repining Restlessness;
Let him be rich and weary, that, at least,
If Goodness lead him not, yet Weariness,
May toss him to My breast."

ये सज्जन, जार्ज हर्बर्ट, अंग्रेज़ जाति के सच्चे ब्राह्मण पादरी थे। इन के जीवन में कोई विशेष दुरवस्था, अन्न वस्त्र का क्लेश, अथवा दुराचार पश्चात्ताप आदि का दुःख नहीं था; संसार से वैराग्य का भाव, इन के चित्त में, मृदु, सहज, शांत था। तदनुसार, कविता में हृदयोद्गार भी इन का सरल शांत भक्तिप्रधान है।

दूसरे कवि, फ्रान्सिस टाम्सन, के जीवन में आर्थिक क्लेश दुरवस्था और अनाचार के पश्चात्ताप का शोक बहुत तीव्र हुआ। उन के अनुभव के अनुसार उन का हृदयोद्गार भी तीव्र करुणा से तथा तीव्र आनन्द से भरा है।

पूर्ववत् संक्षेप से आशयानुवाद उस का यह है,

जब विषाद अत्यन्त तिहारे ह्रिय में छावै,
सरब प्रान तें करु प्रकार, उत्तर तें पाव;
रहत देवता ठाढ़ी निसि दिन तेरे छारै,
मुख फेरे तू ही रहै. वाकौ न निहारै ? ।

O world Invisible!, we view Thee,
O world Unknowable!, we know Thee,
O world Intangible!, we touch Thee,
Inapprehensible!, we clutch Thee !
Does the fish soar to find the ocean,
The eagle plunge to find the air—
That we ask of the stars in motion,
If they have rumour of Thee there ?
Not where the wheeling systems darken,
And our benumbed conceiving soars—
The drift of pinions, would we hearken,
Beats at our own clay-shuttered doors.
The angels keep their ancient places—
Turn but a stone and start a wing!
'Tis ye', tis your estranged faces,
That miss the many-splendoured thing.
But, when so sad thou canst not sadder,
Cry—and upon thy so sore loss
Shall shine the traffic of Jacob's ladder
Pitched betwixt Heaven and Charing Cross.

विस्तार से, इन पश्चिमी कवियों के अनुभवों का, उन के हृदय के भावों और बुद्धि के दर्शनों का, सरसनर प्रतिरूप तो मीरा कबीर आदि संतों और सूफियों का उक्तियों में मिलता है।

मीरा ने रात में, हृदय की व्यथा के अंधकार में, सर्व प्राण से पुकार किया और इष्ट का दर्शन पाया।

मीरा के प्रभु गहिर गँभीरा, हृदय रहो जी धीरा,
आधि रात प्रभु दर्शन देंगे, प्रेम नदी के तीरा।

और कबीर ने भी उन्हें देखा और पहिचाना और गया।

मोकूँ कहां तू खोजै, वंदे !, मै तां तेरे पास,
नहीं अगिन मे, नहीं पवन मे, नहीं जल, थल, आकास,
नहिं मक्का मे, नहिं मद्रिना मे, नहिं कासी कैलास
नहिं मंदिर मे, नहिं मस्जिद मे, मै आतम बिस्वास—
मै तो सब खाँसा की खाँस।

दक्खिन के एक सूफी ने कहा है—

हक्र से नाहक्र मे जुदा था, मुझे मालूम न था,
शक्के इन्साँ मे खुदा था, मुझे मालूम न था,
मत्लप दिल पे मेरे छाया था जंगारे खुदी,
चाँद बादल मे छिपा था, मुझे मालूम न था,
बावजूदे कि मुझदप तेरा, नहनो अक्रब,
सफ्रहे मसहफ्र पे लिखा था, मुझे मालूम न था,
हो के सुस्ताने हक्रीकत इसी आबो गिल मे
दर बदर मिस्ले गदा था, मुझे मालूम न था।

जैसा किसी संत ने कहा है,

जा के घर सुख का भंडारा, सो क्यों भटकै दर दर मारा।

Yea, in the night, my soul!, my daughter!,
Cry—clinging Heaven by the hems ;
An I lo!, Christ walking on the water,
Not of Gennesareth but Thames.

कुरान और गीता में भी ये ही भाव मिलते हैं,

व फ़ी अनफ़ुसेकुम् इल्ला तुब्सरून ।

मैं तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी नफ़स में, मौजूद हूँ, तुम्हारी नस नस में व्यापा हूँ, पर तुम देखते ही नहीं हो, मुह फेरे हुए हो, आँख बंद किए हो, तुम को आँख है ही नहीं, दर्शन करना चाहते ही नहीं ।

अवजानंति मां मूढाः मानुषीं तनुं आश्रितम्;

परं भावं अजानंतः मम भूतमहेश्वरम् । (गीता)

मोह में पड़े हुए जीव, मनुष्य शरीर के भीतर छिपे हुए परमात्मा को, अपने को, पहिचानते नहीं, और 'मेरा' यानी अपना, तिरस्कार करते हैं, 'अपने को तुच्छ समझते हैं, यद्यपि यह आत्मा, उन की आत्मा, सब की आत्मा, सब पदार्थों का महेश्वर है ।

दर्शन और धर्म (मजहब, रिलिजन) ।

पच्छिम के आधुनिक प्रकारों से जिन्होंने विद्या का संपह किया है उन को जो बातें ऊपर कही गई उन से प्रायः शंका होगी कि दर्शन का, फ़लसफ़ा का, और धर्म-मजहब का, संकर किया जा रहा है, और ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि पच्छिम में तो ये दोनों अलग कर दिये गये हैं ।

इस शंका का समाधान यों करना चाहिये ।

जैसा गीता में कहा है,

न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः,

सत्त्वं प्रकृतिजैः मुक्तं यत् स्याद् एभिस्त्रिभिः गुणैः ।

पुरुष की प्रकृति के ये तीन गुण, सत्त्व, तमस्, रजस्, सब भूतों में, सब प्राणियों में सदा सर्वत्र व्याप्त हैं । इन के बिना कोई वस्तु है नहीं । ज्ञान, इच्छा, क्रिया, और गुण, द्रव्य, कर्म, इन्हीं के रूपांतर कहिये, परिणाम, प्रसूति, फल कहिये, होते हैं ।

१ इस अर्थ को विशद करने का यत्न मैं ने अपनी अंग्रेज़ी भाषा में लिखी पुस्तक, *The Science of Peace* के अध्याय ११ के परिशिष्ट में किया है ।

पर ऐसा घनिष्ठ मैथुन्य, अभेद्य संबंध, होते हुए, इन तीनों गुणों और उन के संतानों में परस्पर अशमनीय कलह भी सदा रहता है, यहाँ तक कि इन के वैषम्य से ही सृष्टि, संसार, 'कॉस्मॉस', और इन के साम्य से ही प्रलय, 'केऑस'^१, घोर निद्रा, होती है ।

अन्योऽन्य-ऽभिभव-ऽश्रय-मिथुन-जनन-वृत्तयश्च गुणाः । (सांख्य-कारिका)

ये तीनों गुण, सदा साथ भी रहते हैं, एक दूसरे को जनते अर्थात् पैदा करते रहते हैं, एक दूसरे के आसरे से ही रहने हैं, और एक दूसरे को दबाते भी रहते हैं ।

इस प्राकृतिक नियम के अनुसार, ज्ञान जब बढ़ता है तब इच्छा और क्रिया दब जाती हैं; इच्छा जब उभड़ती है तब ज्ञान और क्रिया पीछे हट जानी हैं; क्रिया जब वेग बांधती है तब ज्ञान और इच्छा छिप जाती हैं । और ऐसा एक भाव का प्राधान्य, दूसरों का गौणत्व, तीनों को पर्यय से, पर्याय से, पारी-पारा, होता ही रहता है; विविध परिमाणों, पैमानों, पर । यथा एक दिन में, सबेरे यदि ज्ञान का प्राधान्य, तो दोपहर को इच्छा, तीसरे पहर क्रिया । एक वर्ष में, यदि (साधारण सर्दी गर्मी वाले देश में), वसंत और ग्रीष्म में ज्ञान, तो वर्षा-शरद में इच्छा, और शिशिर-हेमन्त में क्रिया । एक जीवन में, आदि में ज्ञान (विद्यार्थी की ब्रह्मचर्यावस्था), फिर यौवन में इच्छा (गार्हस्थ्य का आरम्भ), फिर क्रिया (गार्हस्थ्य की जीविकार्थ, और वानप्रस्थाना की विविध यज्ञ ओर त्याग आदि के लिए), फिर और गंभीर ज्ञान (संन्यास में आत्मचिंतन) । (यदि पुनर्जन्म माना जाय तो) एक जन्म में ज्ञान, दूसरे में इच्छा, तीसरे में क्रिया । एक मानव जाति और युग में ज्ञान, दूसरे में इच्छा, तीसरे में क्रिया । इत्यादि । यह एक उत्सर्ग की, सामान्य नियम अनुगम की, सूचना मात्र है । इस के भीतर बहुत से अर्वांतर भेद, विशेष-विशेष करणों से हो सकते हैं, जो ऊपर से देखने में, इस्तिस्ना, 'एक्सेपशन'^२, अपवाद ऐसे मालूम होते हैं; किन्तु यह अनुगम प्रायः निरपवाद ही है कि, जिस समय, जिस चित्त में, एका का विशेष उदय होता है, वहाँ अन्य का अस्त होता है । यहाँ प्रसंगवश इन तीनों के, स्थूल रूप से, क्रमिक चक्र और परस्पर कलह पर ध्यान देना है ।

संसार की अनेकता में एकता भी अनुस्यूत है ही; अन्यथा तर्क, अनुमान, न्याय, भविष्य का प्रबन्ध, नियम, धर्म, कानून, व्याप्तिग्रह, अनुगम, सांसारिक

१ Cosmos ; Chaos.

२ Exception.

जीवन का मर्यादित व्यवहार, कुछ भी बन ही न सकता; यह प्रायः प्रत्यक्ष है कि प्रकृति के अनन्त अवयव, असंख्य अंश, सब परस्पर सम्बद्ध हैं, सब का अंगांगि-भाव है; यह भी प्रत्यक्षप्राय है कि चेतन एकत्र और सर्वत्र व्याप्त है, सब को बांधे हुए है, (और इस को विस्मय मुस्मय कर के, शंका समाधान कर के, बुद्धि का संस्कार परिष्कार कर के, हृदय में बैठा देना ही अंतिम दर्शन वेदान्त का काम है); यहाँ तक कि अब पाश्चात्य वैज्ञानिक भी 'ऑर्गेनिक यूनिटी ऐण्ड कंटीन्युइटी आफ़ नेचर' ^१ को पहिचानने लगे हैं, और कहने लगे हैं कि 'सायंसेज़ आर नाट मेनी, सायंस इज़ वन' ^२; अर्थात् शास्त्र बहुत और पृथक् और विभिन्न नहीं है, अस्ल में शास्त्र, ज्ञान, वेद, एक ही है, और जिन को हम अलग-अलग शास्त्र समझे हैं वे सब एक ही महावृक्ष के मूल, स्थाणु, स्तम्भ, शाखा, प्रशाखा, वृन्त, पल्लव, आदि हैं । यद्यपि ऐसा है, तौ भी तत्तच्छास्त्राभिमानी शास्त्रियों के, 'सायंटिस्ट्स' ^३ के, चित्त के अहंकार रूपी मुख्य दोष से विविध शास्त्रों में विरोध का आभास होता है, शास्त्री लोग एक दूसरे से कहा करते हैं कि हमारे तुम्हारे सिद्धांतों में विरोध है, इत्यादि; यद्यपि स्पष्ट ही, एक ही, सत्य तथ्य वास्तविक ज्ञान के अंशों में विरोध नहीं हो सकता; विरोध तो अविद्याकृत, अहंकारजनित, राग, द्वेष, अभिनिवेश से दूषित, शास्त्रिणम्मन्यों के चित्तों में ही हो सकता है ।

ऐसे ही, ज्ञान-इच्छा-क्रिया में भी, यदि ये विद्या से प्रेरित हों तो; यदि इन में परस्पर अत्यंत कलह न हो, अन्योन्य का घोर अभिभव न हो, उचित आश्रय-मिथुन-जनन हो । पर, सांसारिक, आभ्युदयिक, इच्छा स्वयं साक्षात् अविद्या का रूप ही है; संसृति का, संसरण का, जनन-मरण का कारण ही है । क्रिया-प्रतिक्रिया के दोलान्याय से, चक्रकन्याय से, 'साइक्लिक पीरियॉडिसिटी' और 'ऐक्शन रिएक्शन' ^४ के न्याय से, जब वह अपना रूप बदल कर, नैश्रेणसिक, पारमार्थिक, इच्छा, अर्थात् मुमुक्षा, शुभ वासना, नैकाम्य में परिणत होती है तभी इन तीनों के विरोध और कलह का कथं-कथंचन शमन कर सकती है, तब तक इन का मंग्राम होता ही रहता है ।

ज्ञान-प्रधान मनुष्य, उपयुक्त प्रेरणा और सामग्री होने पर दार्शनिक विचार का ओर झुकते हैं; इच्छा-प्रधान, भक्ति और उपासना की ओर; क्रिया-प्रधान, व्यावहा-

१ Organic Unity and Continuity of Nature.

२ Sciences are not many, Science is one.

३ Scientists.

४ Cyclical periodicity. Action, Reaction.

रिक सांसारिक कर्म अथवा (पारलौकिक निष्ठा अधिक होने पर) कर्मकांड की ओर; होम, हवन, यज्ञ आदि 'ःष्ट', और बापी, कूप, तटाक आदि के सार्वजनिक लाभ के लिये निर्माण, 'आपूर्ति', की ओर । सज्ज्ञान, सच्छ्रद्धा, सद्धर्म में, सज्जीवन में, तीनों की मात्रा, यथास्थान यथासमय तुल्य रूप से होनी चाहिये; और आदर्श महापुरुषों के जीवन में होते भी हैं । पर प्रायः यही देखा जाता है, पूर्व में भी, पच्छिम में भी, कि अपने-अपने इष्ट अपनी-अपनी चाल की प्रशंसा के साथ साथ दूसरों के इष्ट और चाल की निन्दा भी की जाती है । एक ओर राग है तो दूसरी ओर द्वेष भी । इसी से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और कर्म मार्ग में, सामनस्य के स्थान पर, बहुधा वैमनस्य देख पड़ता है, और फलसफ़ी दार्शनिक में और श्रद्धालु, मोमिन, 'फ़ैथफुल बिलीवर'^१ में, अन-वन ही रहा करती है, एक दूसरे को बुरा ही कहते रहते हैं; और दुनियादार कर्मठ आदमी दोनों को बेवकूफ़ समझते हैं । पच्छिम में प्लेटो आदि के समय से ग्रीस में भी, रोम में भी, ईसा के पूर्व के धर्मों के देवी देवों में और उन के पुजारियों में अति श्रद्धा करने वालों के विरुद्ध, तथा ईसा के बाद रोमन कैथलिक चर्च^२ के, श्रद्धांधता और मूर्खता के पोषक धर्माधिकारियों के विरुद्ध, विचारशील दार्शनिक बुद्धि वाले, हर जमाने में कुछ थोड़े से, लिखते बोलते आये; पर प्रायः बहुत दबी ज्ञान से । क्योंकि उगासनात्मक और कर्मकांडात्मक धर्मों के अधिकारियों पुजारियों की चतुरता और श्रद्धालुओं की मूर्खता का जोर बहुत रहा ।

पर सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ से, जब से मार्टिन लूथर ने, जर्मनी में 'पोपों' के विरुद्ध झंडा खड़ा किया, (—रोमन कैथलिक संप्रदाय के 'जगद्-गुरु' महाशय 'पोप' कहलाते हैं, मुसल्मानों के 'जगद्-गुरु' 'खलीफ़ा', और हिंदुओं में तो पंथ-पंथ के अलग अलग बहुत से 'जगद्-गुरु' 'शंकराचार्य' आदि हैं—); तब से, बुद्धिस्वातन्त्र्य, पच्छिम में, धर्मनीति में भी और राजनीति में भी बढ़ता गया; और 'रिलिजन' और 'सायंस' का, शास्त्रवाद और बुद्धिवाद का, पारतन्त्र्य और स्वातन्त्र्य का, असीरी और आज्ञादी का, विरोध अधिकाधिक उग्र होता गया; जैसा पहिले कहा । यदि एक ओर श्रद्धाजड़ता थी, तो दूसरी ओर अश्रद्धाजड़ता भी देख पड़ने लगी । जैसे कृष्ण और बाणासुर के संग्राम में माहेश्वर ज्वर का प्रतिरोध वैष्णव ज्वर ने किया वैसे अत्यास्तिक्य का वारण अतिनास्तिक्य ने यूरोप में किया । तब से पच्छिम में दर्शन और धर्म का पार्थक्य हो गया । ईसा-युग के आदि काल में और मध्य काल

१ Faithful believer.

२ Roman Catholic Church.

मे भी, पादरियों ने^१ दर्शन का अभ्यास किया, दर्शन के अच्छे-अच्छे ग्रंथ लिखे, और उन से अपने ईसा-धर्म का पोषण किया; पर अब फ़लसफ़ा को प्रेरक अधिकांश 'इण्टेलेक्चुअल क्युरियासिटी'^२ ही रह गई ।

'फ़िलॉसोफी' शब्द का यौगिक अर्थ ही जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा, ज्ञातुम् इच्छा, है; ग्रीक भाषा के दो शब्दों को, 'फ़ाइलॉस' प्रेम, और, 'सोफ़िया' विद्या, वैदुष्य, 'विज़्डम्'^३ को, मिला कर, यह अंग्रेज़ी लफ़्ज़ बनाया गया है । इसी यौगिक अर्थ के अनुसार, इन शास्त्रों को, जिन को अब अधिभौतिक विज्ञान, 'फ़िज़िकल सायंसेज़', कहते हैं, उन को पहिले 'नैचुरल फ़िलॉसोफी'^४ कहा करते थे । फ़िलॉ-सोफी मानो बुद्धि की खुजली और कुतूहल मिटाने का एक उपाय, एक प्रकार, रह गई । सायंस की एक कोटि फ़िलॉसोफी को छूती है; दूसरी कोटि नई-नई इजादें कर के व्यावहारिक कर्म को सहायता देती है । रहा उगसनान्तरक धर्म, परलोक बनाने वाली बात; जिस को परलोक में विश्वास हो, और उस को बनाने के उपाय की खोज हो, उस के लिए यह हृदय से सम्बन्ध रखने वाली बात दोनों से अलग पड़ गई ।

इस प्रकार से ये तीनों अलग तो हो गये पर नतीजा यह हुआ कि तीनों, दर्शन-उपासना-व्यवहार, ज्ञान-भक्ति-कर्म, खंडित हो रहे हैं; और सिर, हृदय, हाथ-पैर में, 'हेड-हार्ट-लिम्बज़'^५ में, नित्य झगड़ा हुआ करता है । पर यह झगड़ा तो नितांत अस्वाभाविक, प्रकृति के विरुद्ध, है । मनुष्य के शरीर में सिर का, हृदय का, हाथ पैर का, घनिष्ठ सम्बन्ध है; एक से दूसरा अलग नहीं किया जा सकता; वैसे ही, उस के चित्त में ज्ञान-इच्छा-क्रिया का घनिष्ठ सम्बन्ध है । भारतवर्ष की उत्कृष्ट अवस्था में, जब यहाँ की शिष्टता सभ्यता सर्वांगसम्पन्न थी, तब प्रायः ऐसा तीव्र संघर्ष नहीं था; ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय और समाहार जाना माना और बर्ता जाता था; जिस का प्रमाण, थोड़े में, गीता है; अथवा उस का भी संक्षेप चाहिये तो उसी के दो श्लोक पर्याप्त हैं, यथा,

ये तु अक्षरं अनिर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपासते,
सर्वत्रगं अचित्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् ,

१ Patristic philosophers, Fathers of the Church, Scholastic philosophers, Schoolmen.

२ Intellectual curiosity.

३ Philosophy, philos, sophia, wisdom.

४ Physical Sciences, Natural Philosophy.

५ Head, heart, limbs.

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः,
ते प्राप्नुवति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।

कूटस्थ अक्षर अव्यक्त परम-आत्मा की पर्युपासना अर्थात् अन्वेषण—यह दर्शन का, ज्ञान का, अंश है। मामेव प्राप्नुवन्त—मुझ को, दिव्य उपाधि से उपहित विशेष महा-पुरुष को, अति उत्कृष्ट ईश्वरत्वप्राप्त जीव को, सौर जगत् के ईश-सूत्रात्मा-ब्रह्मा को, पाना—यह भक्ति का अंश हैं। सर्वभूतहिते रताः—सब प्राणियों का यथाशक्ति हित करना—यह कर्म का अंश है। यदि और भी संक्षिप्त रूप से यही भाव देखना हो तो गीता ही के श्लोक के एक पाद से दिखाया है—माम् अनुस्मर युध्य च । (स्मर), अर्थात् परमात्मा को याद करो—ज्ञान; अनु-स्मर, मुझे, मेरे पीछे पीछे चलने की इच्छा से, सेवाभाव से—भक्ति; युध्य च, पाप और पापियों से यथा-शक्ति युद्ध करो—कर्म। भागवत आदि पुराणों में भी तीनों का समन्वय स्थान-स्थान पर किया है; पर सब से उत्तम और विस्तीर्ण प्रमाण तो मनुस्मृति है जिस के ऊपर भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता प्रतिष्ठित है, और जो स्वयं अध्यात्मशास्त्र, वेदांत, के ऊपर प्रतिष्ठित है। मनु की प्रतिज्ञा है,

ध्यानिकं सर्वमेव एतद् यद् 'एतद्' अभिशब्दितम् ;
नहि अनध्यात्मचित् कश्चित् क्रियाफलम् उपाश्रुते ।
सैनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च,
सर्वलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविद् अर्हति ।

अर्थात्, एतत् शब्द से, इदं 'यह' शब्द से, जिस समग्र दृश्य-जात का, जगत् का, अभिधान होता है, वह सब ध्यानिक है; परमात्मा के ध्यान से, संकल्प से, ही बना है; इस लिये, ध्यान के शास्त्र को, अध्यात्मशास्त्र, अन्तःकरण शास्त्र, योगशास्त्र, आत्मविद्या को, जो नहीं जानता है वह किसी भी क्रिया को उचित रीति से नहीं कर सकेगा, और उस के उचित फल को नहीं पा सकेगा; उस की सब क्रिया अव्यवस्थित अमर्यादित होंगी। इस लिये सांसारिक व्यवहारों का निरीक्षण, उपदर्शन, नियमन, सैनापतित्व, दंडनायकत्व, राज्य, अथ किं सर्वलोकाधिपत्य भी, वेदशास्त्र वेदांत के जानने वाले को ही सौंपा जाना चाहिए। जो मनुष्य की, पुरुष की, प्रकृति के तत्त्व को नहीं जानता, उस की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश का हाल नहीं जानता, वह उस के जीवन-संबंधी व्यवहारों का नियमन व्यवस्थापन क्या कर सकता है ?

यह भाव प्राचीन काल में यहाँ था। पर यहाँ भी, सनातन-आर्य-वैदिक-मानव धर्म का बुद्धदेव ने जो संस्करण किया, उस के प्रभाव के क्रमशः लुप्त हो जाने पर,

जो भारतीय सभ्यता का रूप बनता और बदलता रहा, उस में कुछ वैसी ही सी दशा, दर्शन और उपासना और व्यवहार की हुई, जैसी पच्छिम में ; यद्यपि उतना पार्थक्य नहीं हुआ जैसा वहाँ । एक कारण तो यह होगा कि आधिभौतिक विज्ञान की वैसी सप्रुद्धि यहाँ नहीं हुई जैसी वहाँ । इस लिये यहाँ, थोड़े दिनों पहिले तक, कुछ कुछ वह हाल था जो मध्ययुगीन यूरोप का था, जब वहाँ 'स्कूलमेन' और 'स्कोलास्टिसिज़्म'^१ के दर्शनो का प्रचार था । इधर कुछ दिनों से, भारतवर्ष में भी, उस वर्ग में जिस ने पाश्चात्य भाषा और शास्त्रों का अधिक अध्ययन किया है, इस पार्थक्य की वैसी ही दशा हो रही है जैसी पच्छिम में ।

किंतु यह दशा श्लाघनीय और वांछनीय नहीं है । प्रकृति के विरुद्ध है, रोगवत् है, त्रिकिस्ता चाहती है ; पूर्व में भी और पच्छिम में भी । ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग का ; ज्ञान-विज्ञान अर्थात् फ़िलासोफी-सार्यस का, और भक्ति-उपासना अर्थात् रिलिजन का, और सांसारिक व्यवहार अर्थात् 'लाइफ़ इन दी वर्ल्ड'^२ का ; समन्वय, विरोध-परिहार, करना परम आवश्यक है । दिल तो कहता है कि किसी सगुण साकार इष्टदेव की पूजा करो जो आपत्काल में सहाय हो ; दिमाग़ कहता है कि ऐसा देव हो ही नहीं सकता ; हाथ पैर कहते हैं कि खाओ, पीओ, दुनिया-द्वारी से मतलब साधो, और मुसीबत आवे, मौत आवे, तो मर जाओ—ऐसी हालत में जिन्दगी में क्या चैन हो सकता है ! इस लिए तीनों का मेल करना ज़रूरी है । वह दर्शन सच्चा नहीं है, कच्चा है, जो अन्य दोनों से मेल मुहब्बत न कर सके, और उन को भी अपने साथ एक रास्ते पर न चला सके । दर्शन का अर्थ आँख है, देखना है । सब रास्तों को देख कर निर्णय करना, कि किस पर चलने से, किस तरह चलने से, क्या सामग्री साथ ले चलने से, हाथ और पैर, बिना खौफ़ खतरे के, बिना भय और क्लेश के, दिल को, सारे शरीर को, मनुष्य को, जो आँख का भी, हृदय का भी, हाथ पैर का भी मालिक है, उस के अभीष्ट लक्ष्य से मिला देगे, मंज़िले मक़सूद तक पहुँचा देंगे—यह दर्शन का काम है ।

कुतूहल, जिज्ञासा, भी, ज्ञान की इच्छा है ; इस इच्छा का अभिप्राय भी यही है कि, इस बात को जान कर, हम भी, समय-समय पर, ऐसा-एसा काम कर सकें, इस ज्ञान से काम ले सकें । 'नालेज इज़ पावर'^३ । पच्छिम में भी अब यह प्राचीन भाव फिर जोर कर रहा है कि, 'ऐज दी फ़िलासोफी आफ़ लाइफ़, ऐज दी औटलुक

१ Schoolmen; Scholasticism.

२ Life in the world; the day-to-day life of the world.

३ Knowledge is power.

अपान लाइफ़, सो दी लाइफ़', 'आइडीयल्स आर दी प्रैटेस्ट मूविण्ग् फ़ोर्सेस थ्याफ़् नेशन्स,' 'एवेरी मूवमेंट हैज ए फ़िलासोफी बिहाइंड इट', 'दी सार्जंडर दी फ़िल्म-सोफी, दी मोर एफ़ेक्टिव दी मूवमेंट,' इत्यादि^१। ग्रीस देश की पुरानी कहावत है, 'मनुष्य के जीवन की नेत्री फ़िलासोफी है'^२। प्रत्यक्ष है कि कहना और करना, कौल व फ़ेल, 'वर्ड' और 'डीड,' एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे की कसौटी हैं। 'प्रैक्टिस' की, कृति की, जॉच 'प्रोफ़ेशन'^३ से, वाणी से, ज्ञान से, विश्वास से; 'प्रोफ़ेशन' की, विश्वास की, जॉच 'प्रैक्टिस' से, कृति से। यदि कथनी के अनुकूल करनी, और करनी के अनुकूल कथनी, न हो, तो जानना कि कथनी झूठी है, बनावटी है। असली विश्वास, जो सब से गहिरा, मनुष्य के हृदय के भीतर धँसा रहता है, कृति उसी के अनुसार होती है; मुँह से कहना चाहे जो कुछ हो। बुद्धि भी, हृदय भी, कृति भी, तीनों एक साथ जिस तथ्य की साक्षी दें, वही तथ्य और सत्य है; और उसी को पाया हुआ, पहुँचा हुआ, जीव, 'तथा-गत', तथ्य-गत, सत्य-प्राप्त, आप्त, रसीदा, ऋषि (ऋच्छति, गच्छति, प्राप्नोति इति) है।

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्;
मनस्थन्यत् वचस्थन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्।

'जो बात मन मे, सोई बचन मे, सोई कर्म मे—यह महात्माओं का लक्षण है; मन मे दूसरी बात, बोलने मे दूसरी बात, करने मे दूसरी बात—यह दुरात्माओं का लक्षण है।' इस प्रसंग मे, महात्मा शब्द का अर्थ है, वह जीव जिस को ज्ञान सच्चा अपरोक्ष हो गया है, जिस के दिल दिमाग हाथ-पैर मे विद्या एकरस हो कर भीन गई है। तथा दुरात्मा शब्द का अर्थ वह जीव, जिस को ऐसा अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है, जिस का ज्ञान अभी परोक्ष है, शाब्दिक है, झूठा है। जो अविद्या के वश मे है, जिस के खुद मे अभी खुदी गालिब है और खुदा मग़लब है।

धर्म-मजहब-रिलिजन का विश्वास, अन्य विश्वासों की अपेक्षा से, सच्चा और गहिरा इसी लिये समझा जाता है कि मनुष्य का हृदय उस मे लगा है, वह मनुष्य के

१ As the philosophy of life, as the outlook upon life, so the life; Ideals are the greatest moving forces of nations; Every movement has a philosophy behind it; The sounder the philosophy the more effective the movement etc.

२ *Philosophia biou kubernetes.*

३ Word and deed; practice; profession.

हृदय की बात है, और उस के लिये वह सब कुछ करने, जान तक दे देने, के लिए तैयार होता है ; क्योंकि उस को हृदय से दृढ़ विश्वास है कि उस धर्म से उस को, इस लोक में नहीं तो परलोक में, अवश्य सुख मिलेगा। जैसा पहिले कहा, मौत के भय से, मौत के दुःख के छूटने के उपाय की खोज से, धर्म उत्पन्न होते हैं। यह बात 'फ़िलासोफी आफ़ रिलीजन' अथवा 'सायंस आफ़ रिलिजन'^१ की खोज करने वाले पच्छिम के विद्वान् भी मानते व कहते हैं। जिस को यह भय नहीं, उस को धर्मादिक की आवश्यकता नहीं।

यस्तु मूढतमो लोके, यश्च बुद्धेः परं गतः,
द्वौ इमौ सुखं पधेते, क्लिश्यति अंतरितो जनः।

'जो नितान्त मूढ़ है, जिस को मृत्यु और भय के कारण का पूर्वापर-विचारात्मक ध्यान ही नहीं हुआ, या जो बुद्धि के पार पहुँच गया, हैवान है या इन्सानुल-कामिल है, पशु है या पशुपति है—ये दोनों सुखी हैं। बीच में जो पड़ा है वही दुःखी है। जिस को यह निश्चय हो गया कि मैं अमर हूँ, किसी दूसरे के वश में नहीं, सब सुख-दुःख अपने ही किये से, अपनी ही लीला क्रीड़ा के अनुसार भोगता हूँ, उस को फिर बाहरी किसी धर्म की जरूरत नहीं रह जाती, सब धर्म का तत्त्व, मूल, उस के भीतर आ जाता है।

जब मनुष्य देखता है कि शरीर को तो मौत से छुटकारा नहीं ही हो सकता ; जिस वस्तु का आरंभ होता है उस का अंत भी होता ही है ; तब वह जीव में, रूढ़ में, ईश्वर में, रूहुल् आखम में, मन अटकाता है, कि इस लोक में नहीं तो पर-लोक में अजर अमर होंगे।

कुछ लोग चाहते हैं कि मज़हब को दुनियाँ से उठा दें^२। कई तो नेकनीयती से और सहीह, एतबार करते हैं कि जो वस्तु, धर्मों, मज़हबों के नाम से, दुनिया में फैली है, उस से मनुष्यों को बड़ी-बड़ी हानियाँ पहुँची हैं। और उन की सदबुद्धि व विकास में, सच्चरित्रता की उन्नति में, परस्पर स्नेह प्रीति के प्रसार में, भारी बिन्न हुए हैं ; और दुर्बुद्धि, दुश्चरित्रता, परस्पर कलह की वृद्धि हुई है ; इस लिये वे समझते हैं, और चाहते और यत्न करते हैं, कि मज़हब, धर्म, रिलिजन, दुनिया से शायब हो जाय। पर वे गहिरी निगाह से नहीं देखते, कि ये सब दुष्फल, सदधर्म के नहीं, बल्कि धर्माभास और मिथ्या धर्म के हैं ; धर्मों के असली

१ Philosophy of Religion ; Science of Religion.

२ यथा रूस देश के वर्तमान बोल्शेविक शासक।

तात्त्विक अंश के फल नहीं है, प्रस्युत उस मिथ्या अंश के हैं, जिस को मतलबी स्वार्थी पुजारियों, मजहब का पेशा करने वालों, ने, उन में मिला दिया है। कोई लोग, जो खुद बदनीयत और बदकार हो कर दूसरों को भी बिगाड़ने की नीयत से ही, उन के नज़दीक धर्म की हँसी करते हैं, और उन को धर्म से अलग करना चाहते हैं, उन के विषय में तो अधिक कहने का प्रयोजन नहीं। प्रथम वर्ग के लोगों को चाहिये कि पहिले मौत को या मौत के खौफ़ को, दुनियाँ से गायब कर दें; मजहब आप से ही छुप्त हो जायगा। जब तक यह नहीं कर सकते तब तक उन को धर्म के लुप्त करने में कामयाबी नहीं हो सकती। अंग्रेज़ कवि कोलरिज ने, बहुत सरस शब्दों में अखंडनीय युक्ति कही है, जिस का आशय यह है,

नास्तिक कौन वस्तु ऐसी दै सकिहै,
हिय की उयथा तिहारी जो परिहरिहै।
कहत ईश मेरे समीप तू आवै—
‘नहिं दुख अस जासों न शांति तू पावै।
जहँ कहँ दुखी होइ तू आँस बहावै,
मेरौ मंदिर खोजि वहाँ तू धावै।
दूटौ हिय अपनो तू मोहिं दिखावै,
वाके जोरन कौ उपाय मो सों तू पावै’।
जिन सब आसा खोइ दई तिन की वह आसा,
अंधियारे भरमत जन की वह ज्योति प्रकासा।
नहिं कोउ अन्य आसरो, करु वाही कौ ध्याना,
सब-दुख-मेटनहार वही है इक भगवाना’।

भारतवर्ष के संतो ने भी ऐसे ही कोमल करुणामय भावों का, बहुत मधुर शब्दों में भजन किया है, यथा—

दीननाथ ! दीनबंधु ! मेरी सुधि लीजियै !
भाई नाहिं, बंधु नाहिं, परिजन परिवार नाहिं,
ऐसो कोउ मीत नाहिं, जासों कहों—दीजियै !
खेती नाहिं, बारी नाहिं, बनि त व्यापार नाहिं,

१ Come, ye disconsolate! where'er ye languish,
Come to God's altar, fervently here kneel,

राज नाहिं, विद्या नाहिं, जा के बल जीजियै !
हे रे मन ! धीरज धरु, छाँड़ि कै पराई आस,
जाही विधि राम राखैं वाही मे रीझियै !
दीननाथ ! दीनबन्धु ! मेरी सुधि लीजियै !

जिन के मन मे प्रभु-भक्ति बसै तिन साधन और किये न किये !
भव भीति मिटाइ सबै तिन के नित नूतन उपजत आस हिये !

जब तक बच्चे की हालत मे है, तब तक माता पिता का सहारा हूँदना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे, अपने पैरों पर खड़ा हो जायगा। एक दिन ऐसा आवेगा जब दूसरों को सहारा दे सकेगा, अपने बच्चों के लिए आप ईश्वर हो जायगा। प्रत्येक जीव को भक्ति मार्ग मे से गुजरना ही होगा, और बादमे ज्ञान मार्ग मे पहुँच कर, अपने पैरों पर खड़ा भी होना होगा, और, बालक माव को छोड़ कर, सेवक भाव की भक्ति भी बनाये रहना ही होगा।

देहबुद्ध्या तु दासोऽहं, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः,
आत्मबुद्ध्या त्वमेवऽहं, इति भक्तिस्त्रिधा स्थिता ।

‘देह की दृष्टि से ईश्वर का दास हूँ; जीव की दृष्टि से इष्ट देव भी मैं भी दोनो ही परमात्मा के अंश हूँ; आत्मा की दृष्टि से मैं और परमात्मा एक ही हूँ।’

धर्म की ओर से, जन समुदाय को, अरुचि, घृणा, क्रोध, और विरोध भी होता है, जब कुछ लोग उस को अपनी जंविक्ता और भोग विलास और दुष्ट कामनाओं की पूर्ति का उपाय बनाने के लिये, उस मे मिथ्या विश्वासों, दुष्ट भावों, और घोर दुराचारों और कुरीतियों को मिला देते हैं, और इन्हीं को धर्म का मुख्य रूप बता कर, सरल-

Here bring your wounded hearts, here bring your anguish,
Earth has no sorrow that Heaven cannot heal.

Joy of the desolate, Light of the straying,
Hope, when all others die, fadeless and pure,

Here speaks the Comforter, in God' s name saying,
‘Earth has no sorrow that Heaven cannot heal.’

Go, ask the infidel what boon he brings us,
What charm for aching hearts can he reveal.

Sweet as the heavenly promise that Hope sings us,
‘Earth has no sorrow that Heaven cannot heal.’

हृदय जनता के साथ, विश्वासघात करने लगते हैं, रक्षक के स्थान-पर भक्षक हो जाते हैं। मानव जाति के इतिहास में 'धर्म' के नाम से ऐसी ऐसी दारुण हत्या बालकों की, स्त्रियों की, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, आफ्रिका में, की गई है, और की जा रही है, जिन से अधिक घोर यम-यातना भी नहीं हो सकती। भारतवर्ष में वाममार्गी आदि, अब भी अपने राक्षसी पैशाचिक देवताओं को, नरबलि दे ही डालते हैं; पकड़े जाने पर फांसी पाते हैं।

यस्य अंके शिरः आधाय जनः स्वपिति निर्भयः,
स एव तच्छिरः शच्छिद्याद् किं नु घोरमतः परम्। (म०भा०)

'जिस की गोद में सिर रख कर बचा सोता है, वही उस सिर को काट ले— इस से अधिक घोर पाप क्या हो सकता है?' तिस पर भी लोक किसी न किसी धर्म का आसरा चाहते और खोजते ही हैं; एक से उद्विग्न हो कर, उस को छोड़ते हैं, तो किसी दूसरे को ओढ़ते हैं; क्योंकि भीतर से अमरता चाहते हैं। जो उन के सच्चे शुभचिंतक हैं, उन्होंने ने, हर ज़माने में, जनता को, वह रास्ता दिखाने का जतन किया है, जिस से उन को अमृत लाभ हो, आबि-ह्यात मिले, यानी अपनी अमरता और स्वाधीनता का निश्चय हो जाय।

धर्म की परा काष्ठा—दर्शन

अचम्भा तो यह है कि मौत का खौफ तभी गायब होगा, जब मजहब मुकम्मल होगा, और इन्सान कामिल होगा; और तभी, एक मानी में कह सकते हैं कि मजहब भी गायब हो जायगा; क्योंकि खुदी गायब हो जायगी और सिर्फ खुदा रह जायगा, और खुदा को दूसरे के बताये मजहब की क्या जरूरत? सब अच्छे से अच्छे, ऊँचे से ऊँचे, धर्म तो आप उस के भीतर भरे हैं।

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतो को विधिः को निषेधः।

'जिस ने पहिचान लिया कि परमात्मा तीनो गुणो की हरकतों से, विकारों से, परे है, उस को दूसरे के कहे विधि निषेधों की, कायदे कानूनो की, आवश्यकता नहीं, वह अपने भीतर से सब उपयुक्त विधि निषेधों को पाता रहता है।

दर हक़ीक़न खुद तु ई उम्मुल्-किताब.

खुद जे खुद आयाति खुद रा बाज़ याब।

लौहि महफूज़स्त दर मानी दिलत,

हर चि मी स्वाही शवद जू हासिलत।

‘सबसुच तुम ही सब पुस्तकों, शास्त्रों, वेद, कुरान, इंजील आदि की माता हो; जो श्रुति, जो आयत, जो ऋचा, जो ज्ञान, तुम चाहो, उस को अपने भीतर ही पाओगे; और पाते ही हो; जो भी ग्रंथ संसार में हैं सब मनुष्यों ने ही तो बनाये हैं । तुम्हारा हृदय ही चित्र-गुप्त, गुप्त-चित्र, है; भूत-भवद्-भविष्य सब उस में लिखा है’ ।

सर्वासां विद्यानां हृदयं एकायनं । (उप०)

दुःख की निवृत्ति की खोज से ही धर्म उत्पन्न होते हैं; और दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति का एक मात्र उपाय यही दर्शन है; परम-ईश्वर का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, ब्रह्म-लक्ष्म, खुदा का .खुद में नुमायाँ हो जाना, और .खुदी का .खुद से गायब हो जाना । यों ही ‘हेड’ और ‘हार्ट’ और ‘लिम्बज’ का, दिल, दिमाग, और हाथ-पैर का, ज्ञान-इच्छा-क्रिया का, झगड़ा मिट जाता है; और ‘इन्टेलैकचुअल’ (थियोरैटिकल)—इमोशनल—ऐकशनल (प्रैक्टिकल) इंटरेस्ट्स’,^१ तीनों का समाहार हो जाता है । यों ही सिद्ध होता है कि धर्म-मजहब-रिलिजन की परा काष्ठा का ही नाम दर्शन है । परा काष्ठा इस लिये कि, जैसा पहिले कहा, जो पदार्थ आज काल धर्म, मजहब, रिलिजन, के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन से यदि हृदय को संतोष होता है, तो मस्तिष्क को प्रायः नहीं होता, और सांसारिक व्यवहार दोनों से प्रतिकूल पड़ता है; और दर्शन से, यदि सच्चा दर्शन है, तो सब का सामंजस्य, सब की परस्पर अनुकूलता, सब की तुष्टि, पुष्टि, पूर्ति, और सौमनस्य हो जाना चाहिये ।

आत्म-दर्शन ही परम धर्म

जैसा मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है,

सर्वेषामपि च एतेषां आत्म-ज्ञानं परं स्मृतम् ;
तद् हि अग्र्यं सर्वविद्यानां, प्राप्यते हि अमृतं ततः । (मनु, अ० १२)
इज्या-ऽऽचार-दम-अर्हिसा-दान-स्वाध्याय-कर्मणाम्,
अयं तु परमो धर्मो यद् योगेन आत्मदर्शनम् । (याज्ञवल्क्य, अ० १)

‘सब ज्ञानो, सब कर्मों, से उत्तम आत्मज्ञान है; सब विद्याओं से ऊँचा है; क्यों कि उस से अमरता प्राप्त होती है । यज्ञ, सदाचार, दम, अर्हिसा, दान, स्वाध्याय—इन सब से बढ़ कर यह है कि योग के द्वारा आत्म-दर्शन करै ।

१ Intellectual (theoretical)—Emotional—Actional interests.

सब धर्मों का परम अर्थ यही है कि आत्म-दर्शन हो ।

भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः,
क्षीयन्ते च ऽस्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे । (मुंडक उपनिषत्)

‘आत्मा के दर्शन होने पर, परमात्मा का स्वरूप ठीक-ठीक विदित हो जाने पर, हृदय की, बहुत दिनों की पड़ी हुई सब गँठों, काम, क्रोध, लोभ आदि की ग्रन्थियाँ, कट जाती हैं ; बुद्धि के सब असंख्य संशय उच्छिन्न हो जाते हैं, नये सांसारिक बंधन बनाने वाले सब स्वार्थी कर्म क्षीण हो जाते हैं; क्योंकि भेद-बुद्धि ही, पृथक्-जीवन की वासना ही, मैं अलग और अन्य जीव अलग, मनु दीगरम् तू दीगरी, यह भाव ही, मिट जाता है । सभी अपने ही हो जाते हैं, आत्मा ही मे मम हो जाते हैं ।’

यही भाव सूफियों ने भी कहा है,

गौहरे जुज़ खुद-शिनासी नीस्त दर बहरे बुजूद ;
मा बगिर्दे ख्वेश मी गर्देम चूँ गिर्दाबहा ।
रहे इश्क जुज़ पेच दर पेच नीस्त ;
बरे आरिफ़ां जुज़ खुदा हेच नीस्त ।
चश्म बन्दो गोश बन्दो लब बि बन्द ;
गर न बीनी रूयि हक्र बर मा बिरन्द ।

‘भवसागर मे आत्मज्ञान के सिवा और कोई मोती नहीं है । जैसे पानी का भँवर अपने ही चारो तरफ़ फिरता है, वैसे ही हम सब अपनी ही, अपने आत्मा की ही, परिक्रमा करते रहते हैं । प्रेम की राह पेंच के भीतर पेंच के सिवा और कुछ नहीं है ; ज्ञानी के लिये परमात्मा के सिवा और कुछ कही भी नहीं है । आँख, कान, मुँह, बंद करो, परमात्मा अवश्य देख पड़ेगा ।’

१ इन हृदय की ग्रन्थियों को पच्छिम मे ‘साइको ऐनालिटिक’ सम्प्रदाय (psychoanalytic school) के विद्वानो और गवेषकों ने ‘कॉम्प्लेक्स’ (complex) के नाम से पहिचाना है । पर वे, विशेष-विशेष ग्रन्थियों का निर्मूलन, उन के विशेष-विशेष स्वरूप और कारण के ज्ञान के द्वारा, करने का षत्न करते हैं; आत्म-विद्या सब अशेष ग्रन्थियों का एक साथ निर्मूलन आत्मज्ञान से करती हैं ।

योग सूत्र के शब्दों में,

चित्तवृत्तिनिरोधे द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानिम् ।

‘जब चित्त की सब वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, जब ज्ञानात्मक-इच्छात्मक-क्रियात्मक सब वृत्तियों रोक दी जाती हैं, जब मन सब तरफ़ से हट जाता है, तब द्रष्टा, देखने वाला, सब संसार का साक्षी, आत्मा, अपने स्वरूप में, ‘मैं’ में, अवस्थित हो जाता है; मैं परमात्मा, सब संसार का साक्षी, सब का धारक, व्यापक, सब से अन्य हूँ—ऐसी अवस्था, ऐसा ज्ञान, ऐसा भाव उदय होता है ।

पैगम्बर मुहम्मद ने भी कहा है,

मन अरफ़ा नफ़्सहू फ़क़र अरफ़ा रब्बहू ।

‘आत्मा का, अपने का, ज्ञान, और ईश्वर का ज्ञान, एक ही चीज़ है । जिस ने अपने को जाना उस ने खुदा को जाना ।

खुद शिनासी, इफ़ानि खुदा, हक़-बीनी, दीदार, ब्रह्मज्ञान, आत्मदर्शन, ब्रह्मलाभ, आत्मलाभ, ‘दी विज़न आफ़ गाड’, ‘सेल्फ़-नालेज’—यह सब पर्याय हैं, एक ही पदार्थ के विविध नाम हैं, जिसी पदार्थ से ऐकांतिक आत्यांतक दुःख-निवृत्ति होती है, और इतिहाई दवामी लज़्वाल सुख-शांति का लाभ होता है ।

यही दर्शन का और दर्शनशास्त्र का मुख्य प्रयोजन है ।

दूसरा अध्याय

दर्शन का गौण प्रयोजन

दर्शन के प्रधान प्रयोजन का वर्णन किया गया। उस का गुणरूप, गुणभूत, गौण, बड़ा गौरवशाली, और भी प्रयोजन है।

राजविद्या का अर्थ और उस की उत्पत्ति की कथा

गीता का उपाख्यान किस को नहीं मालूम ? अर्जुन को जब किंकर्तव्य-विमूढ़ता, दीनता, विषण्णता ने घेरा, तब कृष्ण ने उस बेचैनी को आत्मविद्या के उपदेश से दूर किया। ब्रह्मचर्य की परा काष्ठा से, आत्मनिग्रह, आत्मवशता से, दैह्य आत्मा पर भी वशित्व^१ पाये हुये, मृत्यु पर भी विजय पाये हुए, इच्छा-मृत्यु, भीष्म ने, योग से शरीर छोड़ते हुए जो कृष्ण की स्तुति की उस में इस को कहा है।

व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनबधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या,
कुमतिं बहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु।

‘शत्रुओं की सेना में आगे बंधु बंधवों को देख, उन के वध को महापातक मान, विषण्ण हुए अर्जुन की कुमति को जिस ने आत्मविद्या से हटाया, उस हरि की सुंदर मूर्ति मेरे मन में, स्नेह से आवृत, सदा बसे।

इस आत्मविद्या ही का नाम राजविद्या, राजगुह्य, है। जैसा स्वयं कृष्ण ने अर्जुन से कहा है।

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे,
ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात्।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदं उत्तमं,
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं मव्ययम्।

^१ Biological autonomy। शास्त्रीय सिद्धांत यह है कि नया शरीर, नया प्रण, उत्पन्न करने वाली, “शुक्र ब्रह्म सनातनं” रूप, शक्ति को जो अपने शरीर से अक्षीर्ण न होने दे, उस प्राण शक्ति को उसी शरीर के ही पोषण में परिणत करता रहे, तो बहुत काल तक उस शरीर को स्थिर रख

आत्मविद्या का नाम राजविद्या क्यों पड़ा, इस विषय में, आज काल कुछ विद्वान्, छिछली सरसरी दृष्टि से, यों तर्क करते हैं कि यह विद्या पहिले क्षत्रियों में उदित हुई । पर गहरी दृष्टि से देखने से इस प्रकार के विचार, जात्यभिमान, वर्ग-प्रशंसिता, आदि ओछे भावों से प्रेरित जान पड़ते हैं ; और योग-वासिष्ठ में इस के उत्पत्ति की जो कथा कही है वही मन में सच्ची होकर बैठती है । कथा यह है ।

विश्वामित्र दशरथ के पास आवे । 'दुर्जन लोग (राक्षस) हमारे ऋषिकुल, गुरुकुल, ब्रह्मभ्रम, विद्यापीठ के सत्कार्यों में विघ्न करते हैं । यज्ञ का अर्थ है

सकता है, जब तक वह इन्द्र्यं उप शरीर के धारण से खिन्न न हो जाय । आज काळ पच्छिम के विद्वानो ने जीर्ण वृद्ध मनुष्य के शरीर को पुनः युवा बना देने का उपाय यह निकाला है कि बानर आदि पशुओं के वृषण (अथवा यदि स्त्री हो तो बानरी आदि के रजःकोष) उस के शरीर में जमा देते हैं । पुराणो में इस की सूचना इस प्रकार से की है कि इन्द्र के भंडकोश जब, पर-दार-गमन के कारण, ऋषि के शाप से, (अथवा उपदंश रोग 'सिक्रलिस' से, गिर गये, सङ्ग-गये), तब उन के स्थान पर स्वर्ग के वैद्यों ने मेघ के वृषण लगा दिये । यह प्रकार राजस, तामस, और पाणीबान् है; सात्त्विक नहीं । तो भी, उस से भी यही सिद्ध होता है कि शुक्र धातु के शरीर में बनने और संचित होने से, यौवन अर्थात् प्राण, ओजस्, तरस्, सहस्, तेजस्, महस्, वर्चस् आदि सूक्ष्म शरीर के गुण, शरीर में उत्पन्न होते हैं । सात्त्विक मानवीय शुक्र से, सात्त्विक मानवीय ओजस् आदि सब छ, ब्रह्मचर्य द्वारा; प्रायः राजस तामस वानरीय शुक्र से, शालाक्य चिकित्सा द्वारा, प्रायः वानरीय ओजस्, तरस्, और सहस् ही, किन्तु सूक्ष्मतर तेजस् महस् वर्चस् नहीं । पश्चिम में यह आसुरी वाजीकरण चिकित्सा कुछ वर्षों तक बहुत चली, पर अब अनुभव से निश्चय हो गया है कि उस के परिणाम बहुत बुरे होते हैं, हम से इस का प्रचार कम होता जाता है ।

ओजो ङि तेजो धातूनां शुक्रांतानां परं स्मृतम् । (वाग्भट)

अंग्रेजी में इस आशय को कहना हो तो स्यात् यों कहा जायगा कि Conservation of normal vital seed and its psychophysical energy in the body, instead of allowing it to escape outside, will prolong life of that body for an indefinite period, (i. e., for much longer than the usual, but not endlessly, of course), till the soul is itself tired—as it will surely become tired in course of time—of holding on to, and daily repeating the experiences, over and over again, of that one body

स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, द्रव्ययज्ञ आदि, मनुष्यों के स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के, देह और बुद्धि के, संस्कार परिष्कार करने वाले, और इस संस्कार के द्वारा इहलोक परलोक दोनों को सुधारने वाले, सब परोपकारी कार्य। राम जी को आज्ञा दीजिये कि मेरे साथ चलें और इन दुष्टों का दमन करें।' 'राम ने तो खाना-पीना छोड़ रक्खा है, न जाने किस चिंता में पड़ गये हैं, किस मोह से मूढ़ हैं, या कोई रोग से रुग्ण हैं; आप उस का उपाय कीजिये, और ले जाइये'। राम जी बुलाये गये। ऋषि ने पूछा। राम जी ने कहा। बहुत विस्तार से, बहुत सरस, मधुर, ओषवान्, वेगवान्, बलवान्, हृदय को पकड़ कर खींच ले जाने वाले, शब्दों में, संसार की अस्थिरता और दुःखमयता, और उस को देख कर अपने चित्त की विकलता और खेदपूर्णता, कहा। बुद्ध को भी, राम जी के बहुत वर्षों पीछे, यही अनुभव हुआ, और उन के पहिले तथा उन के पीछे, सब काल में, अपने अपने समय से, सब जीवों को, मृदुवेदिता और कोमलचित्तता के उदय होने पर, वैसा ही होता रहा है और होगा। संक्षेप से, जो राम जी ने कहा वह यह है।

‘संसार में जो प्रिय से प्रिय, स्थिर से स्थिर, महान् से महान्, पदार्थ हैं, उन की अनित्यता को देख कर, सब प्राणियों को दुःखी देख कर, मुझे भारी व्यथा हो गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता; यही मन में फिर फिर उठता है कि ऐसे नश्वर शरीर को, अपने आप खाना पीना बंद कर के, छोड़ देना अच्छा है; यम से नित्य नित्य डरते काँपते हुए, इस अपवित्र मलमय रक्त मांस अस्थि के संचय को पकड़े रहने का यत्न करना नहीं अच्छा।’

**आपातमात्ररमणेषु सुदुस्तरेषु भोगेषु न अहं अलि-पक्षति-चंचलेषु,
ब्रह्मन्!, रमे मरण-गोग-जरादिभीत्या, शाम्याम्यहं परमुपैमि पदं प्रयत्नात्।
(योग वासिष्ठ, १-२१-३६)**

विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। दशरथ से कहा, ‘राम का यह मोह परम सात्त्विक मोह है। राम को बड़े काम करना है, इस लिये बड़े ज्ञान की इन को आवश्यकता है। नित्य और अनित्य, नश्वर और अनश्वर, फ़ानी और बाक्ती, का विवेक जिस को हो, नश्वर से वैराग्य-जिस के हृदय में जागे, नित्य की खोज में जो सर्व प्राण से पड़ जाय, दिल और दिमाग दोनों में जिस को इस की सच्ची लगन लग जाय, उस को महा उदय, अभ्युदय भी, निःश्रेयस भी, देने वाला, नित्य पदार्थ का बोध मिलता ही है।

विवेकवैराग्यवतो बोध एव महोदयः ।

‘छोटे छोटे कामों में तो कृतार्थता पाने के लिए ऐसी लगन की आवश्यकता होती है, फिर अजर, अमर, अनादि, अनंत पदार्थ पाने के लिये क्यों न चाहेगी ? जिस को यह धुन न लगेगी, कि ‘कार्य वा साधयामि, शरीरं वा पातयामि’, वह कृतार्थ नहीं होगा। सो राम को यह उत्तम जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। इन के कुल के पुरोहित वसिष्ठ जी इस को पूरी करेंगे’। ऐसा विश्वामित्र ने कहा।

तब वसिष्ठ ने आरंभ किया, और आदि में ही कहा कि इस जिज्ञासा को पूरी करने वाली ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, का नाम राजविद्या, राजगुह्य भी है। और इस के विवरण के लिये समाजशास्त्र (सोसियालोजी)^१ की, जो भारतवर्ष के पुराण-इतिहास का एक अंग है, कुछ मूल बातों की चर्चा कर दी। मानव इतिहास के आदि काल में मनुष्य परस्पर मेल मुहब्बत से रहते थे। इस काल को सत्ययुग^२ का नाम दिया जाता है, क्योंकि मनुष्यों को प्रायः असत्य बोलने के योग्य चपल बुद्धि ही न थी, सीधे सादे होते थे। इस को कृतयुग भी कहते हैं, क्योंकि वृद्ध कुलपति, जातिपति, प्रजापति,^३ नेता, जो कह देते थे उस को सब लोग बिना पूछ पाछ, बिना हुज्जत बहस, कर देते थे। “कृतमेव, न कर्त्तव्यं”; वृद्ध के मुह से उपदेश अ देश निकला नहीं कि युवा ने कर दिया ; अभी करने को बाक़ी है—ऐसी नौबत नहीं आती थी। क्रमशः मनुष्यों में अस्मिता, अहंकार, द्वेष, द्रोह, स्पर्धा, ईर्ष्या आदि के भेद-भाव बढ़े। परस्पर युद्ध होने लगे। कापोतन्याय के स्थान में मात्स्यन्याय प्रवृत्त हुआ^४। शांति के स्थापन के लिये राजा चुने बनाये गये^५। उन की बुद्धि समाज-रक्षा के कार्य में, अक्षम, असमर्थ, क्षुब्ध, किकर्त्तव्यविमूढ़, होने लगी। तब ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न किया, आत्मज्ञान से सम्पन्न किया, और राजाओं को शिक्षा के लिये नियुक्त किया। तब आत्मविद्या की शिक्षा पा कर राजा लोग स्थितप्रज्ञ, स्थितधीः, स्थिरबुद्धि, स्थिरमति, हुए, और शांत मन से, प्रजा के द्विविध रक्षण का, अर्थात् पालन और पोषण का, द्विविध उपाय से, अर्थात् दुष्ट-निग्रह और शिष्टसंग्रह से,^६ अपना कर्त्तव्य करने के योग्य हुए। तभी से यह विद्या

१ Sociology.

२ Idyllic state of nature, ‘Pigeon-like’.

३ Golden age; Childhood of Mankind.

४ Patriarch.

५ Warring ‘state of nature’, ‘Fish-like’.

६ Social contract.

७ Protection and nurture; Prevention of disorder and

राजविद्या कहलाई, क्योंकि विद्याओं की राजा है, और राजाओं की विद्या है, राजाओं के लिये विशेष उपयोगिनी है ।

तेषां दैन्यापनोदार्थं, सम्यग्दृष्टिक्रमाय च,
ततोऽस्मदादिभिः प्रोक्ताः महत्यो ज्ञानदृष्टयः ।
अध्यात्मविद्या तेन इयं पूर्वं राजसु वर्णिता,
तदनु प्रसृता लोके राजविद्या इत्युदाहृता ।
राजविद्या राजगुह्यं अध्यात्मज्ञानमुत्तमम्,
ज्ञात्वा, राघव !, राजानः परां निर्दुःखतां गताः ।

(यो० वा०, २-११-१६, १७, १८)

इस का उपयोग—इहलोक, परलोक, उभयलोकातीत, सब के बनाने में

इस रीति से राजविद्या का जो आद्य अवतरण हुआ, उसी का दूसरा उदाहरण, नवीकरण, वा पुनरवतरण, भगवद्गीता का उपाख्यान और उपदेश है । इस परा विद्या को कृष्ण ने 'गुह्यतम', 'गुह्याद्गुह्यतरं', रहस्यों का रहस्य, राजों का राज, इत्मि-सीना, भी कहा, और प्रत्यक्षावगम, अक्षों से, स्थूल इन्द्रियों से, देख पड़ती हुई, भी कहा । जैसा सूक्तियों ने भी कहा है,

मग्निवी !, आं चि तू अश मी तलवी दर खलवत्,
मन् अयां बर सरि कूचः व कू मी बीनम् ।

'हे पच्छिम वाले !, जिस वस्तु को तुम एकांत में हँदते हो, उसे मैं हर सबक और गली में देख रहा हूँ' । इस का आशय, आशा है कि आगे खुलेगा । पच्छिम वाले का सम्बोधन अच्छा है । एक पच्छिम वाले ने अपने हृदय के उद्गार में कहा है, 'जिस ईश्वर को मैं अपने बाहर सर्वत्र देख रहा हूँ, उसी को अपने भीतर भी देख लूँ—यह मेरी सब से उत्कृष्ट इच्छा है' ।^१ इस प्रकार से, पूर्व पच्छिम के भावों

Promotion of general welfare. इस विषय का, विस्तार से, 'राज-शास्त्र' की लेख-श्रेणी में, जो 'काशी विद्यापीठ पत्रिका' में प्रकाशित हुई है, लेखक ने प्रतिपादन किया है ।

१ My highest wish is to find within, the God whom I find every where without"; Kepler, quoted by J. H. Stirling, on the title-page of his translation of Schwegler's *Handbook of the History of Philosophy*.

मे सादृश्य होते हुए भी वैदृश्य, दक्षिण वाम का सा, विम्ब प्रतिबिम्ब का सा, देख पड़ता है ।

एक बेर इस विद्या के सिद्धांत हृदय मे बैठ जायँ, तो फिर देख पड़ने लगतो हैं कि वे चारों ओर समस्त संसार मे व्याप्त हैं । जब “शक्ति इन्साँ मे खुदा है” यह मालूम हो जावे तब, जाहिर है कि, खलकृत के हर कूचः व कू मे वही खुदा देख पड़ेगा जो खलवत मे तलाश किया ज ता है । चंतन्य सर्वव्यापी है, यह निश्चय जब हो जाय तब उस के नियम, परमाणु मे भी और सौर सम्प्रदायों मे भी, अणोः अणी-मे भी और महतो महीयान् मे भी, एक सा काम करते हुए, समदर्शी को देख पढ़ेंगे ।

ब्रह्मा शब्द का अर्थ

योग वासिष्ठ की कथा मे ब्रह्मा का नाम आया । पौराणिक रूपक मे यह नाम उस पदार्थ का है जिस को सांख्य मे महत्तत्त्व और बुद्धितत्त्व भी कहते हैं ।

हिरण्यगर्भो भगवान् एव बुद्धिरिति स्मृतः,
महान् इति च योगेषु विरिंचिरिति चाप्यजः ।
सांख्ये च पठ्यते शास्त्रे नामभिर्बहुधात्मकः,
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृतः ।
वृतं नैकात्मकं येन कृतं त्रैलोक्यमात्मना,
तथैव बहुरूपत्वाद् विश्वरूप इति स्मृतः ।
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं,
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।

(म० भा०, शांति, अ० ३०८)

मनो महान् मतिर्ब्रह्मा पूर्वुद्धिः ख्यातिरीश्वरः ,
प्रज्ञा चितिः स्मृतिः संविद् विपुरं चोच्यते बुधैः ।

(वायु० पु०, पूर्वार्ध, अ० ४)

अव्यक्तः पावनोऽचित्यः सहस्रांशुः हिरण्यमयः,
महानात्मा मतिर्ब्रह्मा विष्णुः शंभुः स्वयंभवः ।
बुद्धिः प्रज्ञा उपलब्धिश्च संवित् ख्यातिर्धृतिः स्मृतिः,
पर्यायवाचकैः शब्दैर्महानात्मा विभाव्यते ।

(अनुगीता, अ० २६)

स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा धाता वेदनिधिर्विधिः ।

(अमर कोश)

ब्रह्म की, परमात्मा, परम पुरुष, की, प्रकृति का पहिला आविर्भाव ब्रह्मा ।
जैसे समुद्र मे लहर ।

अपारे ब्रह्मणि ब्रह्मा, स्वभाववशतः, स्वयं,
जातः स्पंदमयो नित्यम् ऊर्मिः अंबुनिधौ इव ।

(योग वासिष्ठ)

आत्मा का पहिला रूप बुद्धि, जैसे सूर्य का पहिला रूप ज्योति । इसी पदार्थ के विविध पक्षों, पहलुओं, ऐस्पेक्ट्स^१ को, सूफी इस्तलाह मे, अहद का पहिला इजहार वाहिदीयत, अक्लि-अव्वल, अक्लि-कुल, रुहि-कुल, लौह-महफूज, उम्मुल्-किताव, हुक्कीक़ति मुहम्मदी, इत्यादि नाम से कहते हैं । ग्रीस देश के दार्शनिक, नूस, डीमियर्गास^२, आदि । ईसाई मिस्टिक और ग्नास्टिक^३ सम्प्रदाय के विद्वान्, होली गोस्ट, क्राइस्टास, ओवरसोल^४ आदि । पच्छिम के दार्शनिक, ऐनिमा मंडी, यूनिवर्सल रीजन, दी अत्कान्शस-वि-र-एण्ड-इमैजिनेशन, कास्मिक ऐडियेशन, मैस-माइंड, कलेक्टिव इंटेलिजेन्स, डिफ्यूज़्ड इंटेलिजेन्स,^५ प्रभृति नामो से ।

संस्कृत के कुछ नाम, इसी पदार्थ के, उद्धृत श्लोकों मे दिये हैं । इन के सिवा और भी बहुत हैं, सूक्ष्म गुणो, पक्षों, रूपों, लक्षणो के भेद से । अधिक प्रसिद्ध पौराणिक नाम, ब्रह्मा-विष्णु-शिव हैं, और दार्शनिक नाम महत्, बुद्धि, विश्वाऽविद्या रूपिणी माया, शक्ति, आदि । 'बृंहयति जगत् इति ब्रह्मा,' जगत् को जो 'बढ़ावै, फैलावै' । 'विसिनोति सर्वान् प्राणिनः, त्रिशति वा सर्वेषु प्राणिषु, इति विष्णुः,' जो सब के भीतर पैठ कर सब को एक दूसरे से बांधे रहे । 'शेते सर्वभूतेषु इति शिवः,' सब मे सोया हुआ है । 'वसति सर्वेषु, स्ववासनया वासयति सर्वमनांसि इति, वासुदेवः,' सब हृदयों मे वसा है, सब को अपनी वासना से वासित करता है । इसी से लोकमत, पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड-ओपिनियन^६, मे इतना बल है, कि बड़े-बड़े युद्ध-प्रिय मानव-हिंसक देश-विजेता सेनाधिप भी, उस को सशस्त्र सेनाओं से अधिक

१ Aspects

२ Nous, Demiurgos.

३ Mystics, Gnostics.

४ Holy Ghost, Christos, Oversoul.

५ Amina Mund', Universal Reason, The Unconscious, Unconscious-Will-and-Imagination, Cosmic Ideation, Mass-Mind, Collective Intelligence, Diffused Intelligence.

६ Public opinion, World opinion,

प्रबल मानते रहे हैं, और उस से डरते रहे हैं। जब वामुदेव-विश्वात्मा ओवरसील-ऐनिमामंडी-रूहिकुल की राय बदलती है तब बड़े-बड़े राष्ट्रों के रूप तत्काल बदल जाते हैं। सब शास्त्र, सब अनंत ज्ञान विज्ञान, इसी मे भरे पड़े हैं, इसी से निकलते हैं, और इसी मे फिर लीन हो जाते हैं। किसी मनुष्य का कोई नई बात पाना, नये शास्त्र का आरंभ और प्रवर्तन करना, नया आविष्कार, ईजाद, उपज्ञ, करना, मानो इसी समुद्र मे गोता लगा कर एक मोती ले आना है, उस छोटे अंश मे अपनी अकल को, बुद्धि को, अकलि-कुल से, महा बुद्धि से, अनंत बुद्धि से, महत्तरम महानात्मा से, मिला देना है।

स सर्वधीवृच्यनुभूतसर्वः ।

श्रद्धस्त्व ऽननुभूतोऽर्थो न मनः स्पष्टुमर्हति ॥ (भागवत)

विद्यते स च सर्वस्मिन्, सर्वं तस्मिंश्च विद्यते,
कृत्स्नं च विंदते ज्ञानं, तस्मात्संविग्महान् स्मृतः ।

वर्त्तमानानि अतीतानि तथा च ऽनागतानि अपि,

स्मरते सर्वकार्याणि, तेन ऽसौ स्मृतिरुच्यते ।

ज्ञानादीनि च रूपाणि क्रतुकर्म-फलानि च,

चिनोति यस्माद् भोगार्थं तेन ऽसौ चितिरुच्यते ।

(सर्वभूत-भवद्-भव्य-भाव-संचयनात्तथा) ।

द्वंद्वानां विपुलीभावाद् विपुलः चोच्यते बुधैः । (वायु पु०)

भूत, भवद्, भविष्य, सब ज्ञान, सब अनुभव, सब भाव, सब पदार्थ इसी मे हैं। सब का इस को सदा स्मरण रहता है, इस मे इस का नाम स्मृति है; सब का संचय है, इस लिये चिति ; इत्यादि। सूफियों ने भी कहा है।

जो इल्मो हिकमत का वो है दाना
तां इल्मो हिकमत के हम हैं मूजिद्;
हैं अपने सीने मे उस से ज़ायद्
जो वात चाएज़ किनाय मे है।
लौहि-महफ़ज़स्त दर मानी दिलत;
हर चि मी क़वाही शवद् जू हासिलत्।
दर हक़ीक़त खुद तु ई उम्मुल् किताब,
खुद जे खुद आयाति खुद रा बाज़याब।
आवाज़-इ खल्क नक्कार-इ खुदा।

अपने दिल में, समाज के हृदय में, बुद्धि में, सूत्रात्मा में, सब कुछ भरा है। जिस विषय को तीव्र आकांक्षा समाज में उपजती है, उस विषय का ज्ञान भी शीघ्र ही उपजता (उपज्ञात होता) है। ईजाद, उपज्ञा, को गहिरा स्मरण ही समझना चाहिये। न्याय-सूत्र में कहा है, “स्मरणं तु आत्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्”, परम-आत्मा ज्ञानमय है, उस का स्वभाव ही ज्ञानृत् सर्वज्ञत्व है, इसी लिये जोव-आत्मा को स्मरण होता है।

तो पौराणिक रूपक ठीक है कि ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न कर के उन को ज्ञान दिया, और उन्होंने ने राजाओं को सिखाया। आज भी यह रूपक प्रत्यक्ष चरितार्थ है। नयी ‘सांयटिफिक डिस्कवरी’,^१ वैज्ञानिक आविष्कार, विज्ञानाचार्य करने हैं: तदनुसार शासक वर्ग धर्म कानून बनाता है। इसी प्रकार से, पुराकाल में, जब आत्मविद्या की समाज में तीव्र आवश्यकता और इच्छा हुई तब वह प्रकटी, समाज के योग्यतम मनुष्यों की बुद्धि में उस ने अवतार लिया, और उस का उपयोग, प्रयोग, मनुष्यों के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अंगों के नियमन, शोधन, प्रसादन के लिये, किया गया।

ब्रह्म और धर्म । राजविद्या और राजधर्म

इतिहास-पुराणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह विद्या, भारतवर्ष की उत्कृष्टावस्था में, कभी भी केवल संन्यासोपयोगिनी ही नहीं, प्रत्युत समग्र सांसारिक व्यवहार की शोधिनी भी समझी गई। धर्म-जिज्ञासा, ब्रह्म-जिज्ञासा, दोनों ही दर्शन की विषय हैं। प्रसिद्ध छः दर्शनों में वैशेषिक आदिम, और वेदांत अंतिम, समझा जाता है। वैशेषिक में प्रायः बहिर्मुख दृष्टि के पदार्थों के विशेष विशेष धर्मों का विशेषतः, और मनुष्य के कर्तव्य कर्मविशेष रूपी धर्मों का सामान्यतः और आपाततः, विचार किया है। वेदांत में प्रायः अंतर्मुख और फिर सर्वतोमुख दृष्टि से ब्रह्म का दर्शन किया गया है, जिसी के स्व-भाव से सब धर्म निकलने हैं, जिसी की प्रकृति पर सब धर्म प्रतिष्ठित हैं, जिस ब्रह्मतरव का अर्थात् ज्ञान असंभभाव्य है, जिस ब्रह्म के अनुभव करने वाली अवस्था का एक नाम इसी हेतु से, योग दर्शन में, धर्ममेघ समाधि कहा है। ‘धर्मान्, संसारचक्रनियमान्, विधीन् मेहति, वर्षति, प्रकटी-करोति उत्पादयति च ज्ञापयति च, इति धर्ममेघः’। संसार-चक्र के नियम वा विधि रूपी धर्म^२ और

१ Scientific discovery.

२ Laws of Nature, Laws of World-Order.

उन का ज्ञान, जिस से उत्पन्न होते हैं, उस ब्रह्मावस्था का नाम धर्ममेघ और धर्ममेघ समाधि है ।

ब्रह्म और धर्म, वेदांत और मीमांसा, ज्ञान और कर्म, वेद और लोक (इतिहास-पुराण), शास्त्र और व्यवहार, सिद्धांत और प्रयोग, राजविद्या और राजधर्म, नय और चार, सायंस और ऐप्लिकेशन, थियरी और प्रैक्टिस, मेटाफिजिक्स और एथिक्स-डोमेस्टिक्स-पेडागोजिक्स-ईकोनामिक्स-सोसियोनामिक्स पालिटिक्स,^१ इत्म और अमल, का पद पद पर संबंध है । बिना एक के दूसरा सधता ही नहीं । मनु का आदेश है,

ध्यानिकं सर्वमेवैतद् यद् एतद्-अभिशाब्दितम्;
न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते ।
सैनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च,
सर्वलोकाधिपत्यं वा, वेदशास्त्रविदहति ।
एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः,
स विज्ञेयः परो धर्मां, न ऽज्ञानामुदितो ऽयुतैः ।

याज्ञवल्क्य ने भी कहा है,

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः, पर्यत् त्रैविद्यमेव वा ,
सा व्रूते यं स धर्मः स्यादेको वा ऽध्यात्मवित्तमः ।

वैयक्तिक और सामाजिक, वैयष्टिक और सामष्टिक, प्रात्येकिक और सामूहिक^२ मानव जीवन के किसी भी अंग का ठीक ठीक प्रवन्ध, ऐसा मनुष्य कैसे कर सकेगा, जिस को यह ज्ञान नहीं है कि मनुष्य क्या है, उस की आत्मा का स्वरूप क्या है, उस की प्रकृति, उस का स्वभाव, उस का चित्त, और चित्त की संस्क्रिया विक्रिया, क्या है, उस के शरीर की बनावट और धर्म और गुण दोन आरोग्य सारोग्य क्या है, उस के जीवन का तत्त्व क्या है, जीना मरना क्या है, जीवन के हेतु और उस के लक्षण क्या हैं—ऐसी बातों का जिस को ज्ञान है, जो अध्यात्मवित् है, उसी को धर्म के व्यवसान और धर्म के प्रवर्तन के प्रभावी और विशाल कार्य सोंपने चाहियें । एक भी मनुष्य, यदि सचमुच अध्यात्म-वित्तम है तो, जो निर्णय क' दे वह धर्म ठीक ही होगा । दस सहस्र भी मूर्ख मिल कर यदि कहें कि यह धर्म है तो वह धर्म नहीं

१ Science and application; theory and practice; metaphysics and ethics—domestics—pedagogics—economics—socio-nomics—politics.

२ Individual and Social, Single and Collective.

मानना चाहिये । भारतीय समाज का सब प्राचीन प्रबन्ध, इसी हेतु से अध्यात्मविद्या की नीवी पर, फ़िलसोफी और साइकालोजी ^१ की बुनियाद पर, बाँधा गया था ।

इस देश के प्राचीन विचार में धर्म और ब्रह्म का कैसा निकट संबंध था, कैसा इन के बीच में प्राण-संबंध, माना जाता था, इस का उदाहरण मनु के श्लोक में देख पड़ता है, यथा,

जायंते दुर्विवाहेषु ब्रह्म-धर्म-द्विषः सुताः । (३-४१)

अनमेल, बेजोड़, अनुचित, दुःशील, दुष्ट भाव से प्रेरित, दुर्विवाहों से, ब्रह्म और धर्म का, सज्ज्ञान और सदाचार का, द्रोह करने वाली सन्तान उत्पन्न होती है । यह एक गम्भीर बात अध्यात्मविद्या की, सैको-फ़िज़िक्स ^२ की, है । जो अध्यात्मविद्या, राजविद्या, दुःख के मूल का, आध्यात्मिक मानस दुःख का, मूलोच्छेद करने का उपाय बताती है, वह उस मूल दुःख के सांसारिक, आदिभौतिक, आधिदैविक, शाखा पल्लव रूप दुःखों को भी काटने, छँटने, कम करने का उपाय, निश्चयेन, राजधर्म के द्वारा, बताती है ।

राजधर्म के, जिसी के दूसरे नाम राजशास्त्र, राजनीति, दंडनीति, नीति शास्त्र, आदि हैं, ग्रन्थों में, धर्म-परिकल्पक ब्राह्मण और धर्म-प्रवर्तक क्षत्रिय अर्थात् शासक के लिए, आन्वीक्षिकी विद्या के ज्ञान की आवश्यकता सब से पहिले रक्खी गई है ।

मनु की, सब शासकों, राजाओं, अधिकारियों के लिये, आज्ञा है ।

तेभ्यो (वृद्धेभ्यो)ऽधि-

गच्छेद् विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ;

बहवोऽ विनयात् नष्टाः राजानः सपरिच्छदाः ।

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां, दंडनीतिं च शाश्वतीम्,

आन्वोक्षिकीं चात्मविद्यां ; वार्तारम्भांश्च लोकतः ।

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशं ;

जितेंद्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ।

(७-३९, ४०; ४३, ४४)

जिस को शासन का, प्रजा के पालन का, कार्य करना है, (और याद रखने की बात है कि सभी गृहस्थ, सभी व्यवहारी, अपने गृह और व्यवहारके मंडल के शासक

१ Philosophy and psychology,

२ Psycho-physics; higher eugenics.

राजा अधिकारी होते हैं), उस को सुविनीतात्मा होना चाहिये, और नित्य-नित्य वृद्धों से, विद्वानों से, अधिकाधिक विद्या और विनय सीखते रहना चाहिये^१ । बहुतेरे राजा, अपने परिच्छद परिवार सहित, अविनय के, उदंडता, उच्छृंखलता, स्वच्छंदता के कारण नष्ट हो गये । इस लिये वेदों के, विविध शास्त्रों के, जानने वालों से, त्रयी विद्या को, वेदों, वेदांगों, मीमांसा, धर्मशास्त्र, और पुराणों को; तथा शाश्वत काल में, सदा हित करने वाली दंडनीति को, तथा अन्वीक्षिकी को, सीखें^२ ; वार्त्ता-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र को, स्वयं साक्षात् लोक के व्यवहार को देख कर सीखें ; और अपनी इन्द्रियों को वश में रखने का यत्न दिन रात करता रहें । जिस की इन्द्रियों वश में हैं, वही प्रजा को भी अपने वश में रख सकता है ; जो स्वयं सन्मार्ग पर चलता है, वही उन को सन्मार्ग पर चला सकता है ; जो अपना सच्चा कल्याण करना जानता है, वही उन का सच्चा कल्याण कर सकता है । जो आत्मज्ञानी नहीं है वह इन्द्रिय-सेवी, मिथ्या स्वार्थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरदि से अंध हो कर, कूट नीति से,^३ धर्म के विरुद्ध दुर्नीति से, काम ले कर, पहिले प्रजा को पीड़ा देगा फिर आप स्वयं नष्ट हो जायगा ।

शुक्र प्रभृति दूसरे नीति शास्त्रकारों ने भी यही अर्थ कहा है,

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दंडनीतिश्च शाश्वती ।
विद्याश्चतस्रः एवैताः अभ्यसेन्नृपतिः सदा ।
आन्वीक्षिक्यां तर्कशास्त्रं वेदांताद्यं प्रतिष्ठितम् ।
आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्याद् ईक्षणात्सुखदुःखयोः;
ईक्षमाणस्तया तत्त्वं हर्षशोकौ व्युदस्यति ।

(शुक्रनीति, १-१५२)

राजा को, शासनाधिकारी को, जिस को मनुष्यों का पालन रक्षण करना है, इन्हीं चार विद्याओं का अभ्यास करना चाहिये । आन्वीक्षिकी का अर्थ है सत्कर्तव्य सदानुमान करने का शास्त्र, न्याय-शास्त्र, तथा वेदांत, आत्म-विद्या । यह नाम, आन्वीक्षिकी, इस विद्या का इस हेतु से पड़ा है कि इस से सुख और दुःख के स्वरूप

१ विशेषण नयनं, leading, guiding, training, in special ways ; discipline.

२ अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्रपुराणानि त्रयी इदं सर्वमुच्यते । (शुक्रनीति १—१५५)

३ Machiavellism, unprincipled and vicious policy.

और कारणों का अन्वीक्षण-परीक्षण किया जाता है और इस ईक्षण का, दर्शन का, सुख दुःख के तत्त्व की पहिचान का फल यह होता है कि हर्ष के औद्भत्य और शोक के विपाद का व्युदास निरास कर के, अधिकारी सज्जन, शांत स्वस्थ निष्पक्षपात चित्त से, अपना कर्त्तव्य कर सकता है और करता है ।

कौटल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है,

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दंडनीतिश्चेति विद्याः । सांख्यं योगो
लोकायतं च इत्यान्वीक्षिकी । बलाबले चैतासां (अन्यविद्यानां) हेतु-
भिरन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति, व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्था-
पयति, प्रज्ञा-वाक्य-वैशारद्यं च करोति ;

प्रदीपः सर्वविद्यानां, उपायः सर्वकर्मणाम्,
आश्रयः सर्वभरमाणां शश्वदान्वीक्षिकी मता ।

विद्या-विनय-हेतुरिन्द्रियजयः काम-क्रोध-लोभ-मान-मद-हर्षत्यागात्
कार्यः । कृत्स्नं हि शास्त्रमिन्द्रियजयः । तद्विरुद्धप्रवृत्तिः चातुरंतोऽपि
राजा सद्यो विनश्यति । (कौटल्य कृत अर्थशास्त्र, अधि० १, अ० २ ;
अ० ६) ।

राजा के सीखने की चार विद्याओं में आन्वीक्षिकी विद्या के अन्तर्गत सांख्य
योग और लोकायत अर्थात् चार्वाकमत भी है । लोकायत मत यह है कि लोक ही,
दृश्य ही, इन्द्रिय का विषय ही, मुख्य है, सब कुछ है । इस से आरंभ कर के जीव,
क्रम से, इस के अत्यन्त विपरीत, विवर्त, तथ्य को प्राप्त करता है, कि द्रष्टा ही,
ईक्षिता ही, चेतन, आत्मा, ‘मै’ ही, मुख्य है, सब कुछ है, और दृश्य ऐन्द्रिय लोक
सब इस के अधीन, इस के लिए, इसी का रचा हुआ, है । जब इस तथ्य को
अनुभव कर के ‘तथागत’ हो जाता है, तब आन्वीक्षिकी विद्या निष्परिपन्न होती है ।
और बुद्धि स्थिर होती है । इस विद्या से, अन्य सब अवांतर मुख-साधक दुःख-निवार-
क शास्त्रों विद्याओं का बलाबल, तारतम्य, जान पड़ता है, मनुष्य के लिये कौन
अधिक उपयोगी है कौन कम, किस का स्थान कहाँ है, किस का प्रयोग कहाँ पर कब
कैसे करना चाहिये, उन का परस्पर संबंध क्या है, इत्यादि । इन सब बातों का हेतु
के सहित अन्वीक्षण प्रतिपादन कर के यह विद्या लोक का उपकार करती है । यह
विद्या व्यसन में, आपत्ति में, क्षोभ और शोक उत्पन्न करने वाली अवस्था में, तथा
अभ्युदय में, अति हर्ष और उद्धतता उत्पन्न करने वाली दशा में, मनुष्य की बुद्धि को
स्थिर रखती है; तथा प्रज्ञा को, और बाणी को भी, विशारद निर्मल उज्ज्वल बनाती ।

है, जैसे शरद्ऋतु जल को; बाल्मिकि जी ने, आदिकाव्य रामायण में, शरत्काल के वर्णन में, उपमा दी है, “वेदातिनाभिव मनः प्रससाद चाम्भः”, शरद् ऋतु में नदियों का जल ऐसा निर्मल प्रसन्न प्रसाद-मय हो गया जैसा वेदान्तियों का मन। ऐसे हेतुओं से यह विद्या सब विद्याओं का प्रदीप है, सब पर प्रकाश, रौशनी डालने वाला है। इस के बिना उन का मर्म अँधेरे में छिपा रह जाता है। तथा, यह विद्या सब सत्कर्मों का प्रधान उपाय है, साधक है, और सब सद्धर्मों का सदा मुख्य आश्रय है; बिना इस की सनातन परमात्मा रूरी नीवी के, जड़ मूल बुनियाद के, सद्धर्म का भवन बन ही नहीं सकता; खड़ा ही नहीं रह सकता। सब विद्या और सब विनय का हेतु इन्द्रियजय है। सों काम-क्रोध-लोभ-मान-मद-हर्ष आदि के त्याग से ही सब सकता है। इस त्याग का और आन्वीक्षिकी विद्या का अन्योऽन्याश्रय है। इन्द्रियजय ऐसा आवश्यक है कि इस को यदि समग्र शास्त्र का, विशेषतः समग्र राजशास्त्र और अर्थशास्त्र का, सार कहें तो भी ठीक है। इस के विरुद्ध आचरण करने वाला, इन्द्रियों के वश में अपने को डाल देने वाला, राजा, चाहे चारों दिशा के समुद्रों तक की समस्त पृथिवी का भी मालिक, ‘चतुर्दधिमालामेखलायाः भुवो भर्ता’, भी क्यों न हो, सत्यः विनष्ट हो जाता है; यथा नहुप, रावण, दुर्योधन आदि।

कौटलीय अर्थ-शास्त्र का उक्त श्लोक, वात्स्यायन के रचे न्याय-भाष्य में भी, पहिले सूत्र के भाष्य में मिलता है, केवल इनने भेद से कि चतुर्थ पाद यों पढ़ा है, ‘विद्योद्देशे प्रकीर्तिता।’

समग्र भगवद्गीता स्वयं आत्मविद्या का सार है, और परम व्यावहारिक भी है; ‘तस्माद्युध्यस्व भारत; मामनुस्मर युध्य च; नष्टो मोहः, स्मृतिलब्धा, करिष्ये वचनं तव;’ यही उस के बीज और फल हैं—ऐसा तो प्रसिद्ध ही है। फिर भी विशेष रूप से उस में कहा है,

अध्यात्मविद्या विद्यानां, वादः प्रवदतामहम् ।
सर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।

‘तत्त्वबुभूषया वादः’, तत्त्व जानने की सच्ची इच्छा से जो उत्तर-प्रत्युत्तर किया जाय, ऐसा श्रेष्ठ वाद ‘मैं’ हूँ, जल्प वितंडा आदि नहीं हूँ। अर्थात् आत्मा की सत्ता, सत्यता, उसी उक्ति प्रत्युक्ति में है जो सत्य के जानने की सच्ची कामना से भावित प्रेरित है। और ऐसे वाद के द्वारा अध्यात्मविद्या सिद्ध होती है, जो ही विद्या, सब विद्याओं में, ‘मैं हूँ,’ अर्थात् इसी विद्या में मेरा, परमात्मा का, तात्त्विक स्वरूप देख

पड़ता है। वह स्वरूप क्या है ? तो समस्त अखण्ड सृष्टियों, संसारों, विद्वानों, सौरादि सम्प्रदायों, का आदि मध्य और अंत भी है; सब विद्वानों इसी में जनमते, ठहरते, लीन होते हैं; सब चेतना के भीतर ही हैं। तथा इस अध्यात्मविद्या के तत्व को जानने वाला मनुष्य दुःख में उद्विग्न नहीं होता, राग द्वेष भय आदि को दूर कर के स्थितधीः स्थितप्रज्ञ रहता है। कौटिल्य के शब्द गीता के इन्हीं शब्दों के अनुवाद हैं।

योग-वासिष्ठ शुद्ध वैदान्त का ग्रंथ रामज्ञा जाता है। वेदांती मंडल में उस के विषय में यहाँ तक प्रसिद्ध है, कि अन्य सब वैदान्त के प्रचलित ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र, भाष्य समेत, और ('वार्त्तिकान्ता ब्रह्मविद्या') गुरेद्वर-कृत बृहदारण्यक-वार्त्तिक सहित, सब साधनावस्था के ग्रंथ हैं, और योग-वासिष्ठ सिद्धावस्था का ग्रंथ है। सो उस योग-वासिष्ठ में, नीचे लिखे हुए, तथा उस के समान, श्लोक स्थान स्थान पर मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि वेदान्त शास्त्र केवल स्वतन्त्र-दर्शियों का मानस लूना-तंतु-जाल नहीं है, प्रत्युत नितान्त व्यावहारिक, व्यवहार का शोधक, शास्त्र है।

कर्कटी के उपाख्यान में कहा है,

राजा चादौ विवेकेन योजनीयः सुमंत्रिणा;

तेनार्यतामुपायाति; यथा राजा तथा प्रजाः ।

समस्तगुण जालानामध्यात्मज्ञानमुत्तमम् ;

तद्विद् राजा भवेद् राजा, तद्विन् मंत्री च मंत्रवित् ।

प्रभुत्वं समदर्शित्वं, तच्च स्याद् राजविद्यया;

तामेव यो न जानानि, नासौ मंत्री, न सोऽधिपः ।

(प्र० ३, अ० ७८)

यदि राजा को स्वयं विवेक न हो तो मंत्री का, मंत्र, सलाह, देने वाले का पहिला कर्तव्य यह है कि, राजा को विवेक सिखावै, तब राजा आर्य बनैगा ; और जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है। सब गुणों के समूहों में सब से उत्तम आत्म-ज्ञान है। उस का जानने वाला राजा, राजा ; और उस का जानने वाला मंत्री, मंत्री। प्रभुता का तत्व समदर्शिता। प्रभु को, न्यासक को, निष्पक्ष, समदर्शी, रागद्वेष से रहित होना चाहिये। जो समदर्शी है, उसी के प्रभुत्व को जनता हृदय से स्वीकार करती है, उसी का प्रभाव मानती है। वह समदर्शिता राजविद्या से, वेदान्त से, वेद के, ज्ञान के, अन्त से, इन्तिहा से, परा काष्ठा से, ही मिलती है। जो ऐसी राजविद्या को नहीं जानता वह न सच्चा राजा है, न मंत्री।

ईशोपनिषत् के प्रायः प्रत्येक श्लोक में ब्रह्म और धर्म, ज्ञान और कर्म, का समन्वय किया है। ईश उरनिषत् की विशेषता यह है कि यजुर्वेद के संहिता भाग का

अन्तिम, चालीसवाँ, अध्याय भी है, और उपनिषत् भी है ; एक और, मैत्रायणी उपनिषत् को छोड़ के, जो कृष्णयजुः की मैत्रायणी शाखा की संहिता का एक अध्याय है, अन्य कोई उपनिषत् किसी वेद के संहिता भाग मे अन्तर्गत नहीं है ।

इस प्रकार से सिद्ध होता है कि पश्चिम मे चाहे जो कुछ विचार इस विषय मे हो, कि फ़रसका निरा मन-बहलाव है, और फ़रसत वालों का बेकार बेसूद खेल है, पूर्व मे तो फ़िज़सोक्री, यथोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल^१, भारत के उच्चति काल मे समझी गई है ; और इस का मुख्य प्रयोजन मानस शांति, मानस दुःख की निवृत्ति हो कर, उसी का गौण, गुणभूत, और गुर्वर्थ प्रयोजन सांसारिक व्यवहार का संशोधन नियमन, और गृह-कार्य, समाज-कार्य, राज-कार्य, आदि का, तज्जित स्थिरबुद्धि से, संचालन और यथासम्भव व्यावहारिक दुःखों का निवर्तन और व्यावहारिक सुखों का वर्धन भी है ।

पश्चिम मे भी उक्त भाव, फ़िज़सोक्री के अनादर का, कुछ ही काल तक, बीच मे, और विशेष मंडलियों मे ही, रहा है । पुराने समय मे ऐसा नहीं था और अब फिर हवा बदल रही है । ग्रीस देश के प्लेटो नामक विद्वान् का मत पश्चिम देश के विद्वानो मे प्रसिद्ध है, शासक का फ़िज़सोक्री, दार्शनिक, भी होना चाहिये ।^२

इस मत की ओर आधुनिक विद्वान् भी झुक रहे हैं ; इस का उदाहरण देखिये ।

१ Philosophy ; theoretical ; practical.

२ E. G. Urwick, in the preface to his *The Message of Plato* (pub 1920) says he has used the present writer's *The Science of Social Organisation or The Laws of Manu* extensively in the earlier chapters. Plato himself says in *Republic* p. 198 (English translation by Jowett, pub. 1888):—"If in some foreign clime which is far away and beyond our ken, the practical Philosopher is, or has been, or shall be, compelled by a superior power to have the charge of the state, (there) this our constitution has been and is and will be."

प्लेटो के समय मे रोम, ग्रीस, मिस्र, अरब, ईरान और भारत मे, राजगार व्यापार के लिये, इतना परस्पर आना जाना था, कि प्रायः निश्चय समझना चाहिये कि प्लेटो को मनु के आध्यात्मिक वर्णाश्रम धर्म और राजप्रबन्ध की कुछ टूटी फूटी खबर मिली, और उसी के अनुसार, विकलित रूप से, शुद्ध और सकल नहीं, कुछ कल्पना अपने 'रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ मे उस ने लिख दी ।

पश्चिम में आत्मविद्या की ओर बढ़ता हुआ भुकाव

इंग्लिस्तान के एक प्रसिद्ध विज्ञान शास्त्री, जे० आर्थर टामसन ने जो लिखा है, उस का आशय यह है। 'केमिस्ट्री, जिस को अधिभूत शास्त्र^१ कह सकते हैं, फिजिक्स, जिस को अधिदेव शास्त्र^१ कह सकते हैं। और वायोलोजी, साइकालोजी,

१ "In this chapter we shall begin with Chemistry and Physics, in the hardly separable sciences of Matter and Energy, and work upwards through Biology, the Science of Organism, to Psychology and Sociology, the Science of Man. The first quarter of the twentieth century has been marked by a fresh enthusiasm for what might be called the scientific study of Man, and since Man is essentially a social organism this study has had, as one of its corollaries, a recognition of the necessity for Sociology, the crowning science. Just as there can be no true art of Medicine without foundations in Physiology, so there can be no true Politics, either national or international, until there are foundations in Sociology, securely laid and skilfully built on;" *These Eventful Years*, Vol II, pp. 423—446, ch. xvii, "What Science can do for Man," (pub 1923).

२ तत्त्वों, महाभूतों, 'एलिमेंट्स', का शास्त्र। साठ वर्ष पहिले तक यूरोप में साठ सत्तर तत्त्व माने जाते थे। रूसी केमिस्ट वैज्ञानिक मेण्डेलेयेफ की उपज्ञाओं के बाद यह विश्वास दिन दिन दृढ़ होता जाता है कि सब तत्त्व क्रमशः एक ही मूल प्रकृति की परिणाम रूप विकृतियाँ हैं। भारतीय दार्शनिक दृष्टि से, इन विकृतियों में, पंच ज्ञानेन्द्रियों के अनुसार, पाँच विकृतियाँ, अर्थात् पाँच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मुख्य हैं। क्यों पाँच ही ज्ञानेन्द्रिय, पाँच ही कर्मेन्द्रिय, पाँच ही तन्मात्र, पाँच ही महाभूत, इत्यादि हैं, इस विषय पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थों में विचार नहीं मिलता।

३ शक्तियों, प्राणों, देवों, का शास्त्र। पश्चिम में, इस शास्त्र में अब तक अधिकतर 'सौंड' अर्थात् शब्द शक्ति, 'लैट' अर्थात् उद्योतिः शक्ति, 'हीट' उष्णता, ताप, अथवा अग्नि शक्ति, 'इलेक्ट्रिसिटी' अर्थात् विद्युत् शक्ति, 'मैग्नेटिज़्म' अर्थात् आकर्षण शक्ति का अन्वेषण किया गया है। अब 'एक्स-रे' आदि का आविष्कार होने लगा है।

और सोशियोलोजी, तीन जीव-शास्त्र, जो अध्यात्म शास्त्र के अंग कहे जा सकते हैं, इन्हीं को शास्त्रों में प्रधान कहना चाहिये। इन में भी सोशियोलोजी, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, शिरोमणि है। व्यक्ति के, व्यष्टि के, अध्यात्म का विवरण, अन्तःकरण बहिःकरण का वर्णन, यदि साइकालोजी है, तो समाज की, मानवसमष्टि की, साइकालोजी ही सोशियोलोजी है। यदि एक प्रात्येकिक, वैयष्टिक, प्रातिस्विक, वैयक्तिक, 'पर्सनल', 'इन्डिविड्युअल', अध्यात्म-शास्त्र है, तो दूसरा सामूहिक, सामष्टिक, सार्वस्विक, जातीयक, 'कलेक्टिव', 'सोशल', अध्यात्म-शास्त्र है। और बिना सच्चे समाज-शास्त्र रूमी नीची के, सच्ची, सुफल, दृढ़ राजनीति की इमारत बन नहीं सकती। जैसे, बिना शारीर-स्थान के अर्थात् शरीर के सब अत्रयों के उत्तम ज्ञान के, सच्चा चिकित्सा-शास्त्र असंभाव्य है।'

इन्ही विद्वान् ने दूसरे ग्रंथ में इस आशय से लिखा है,^१

'यद्यपि उक्त पाँच मुख्य शास्त्रों में सोशियोलोजी, समाज शास्त्र, को प्रधान कहा, पर इन पाँचों के ऊपर मेटाफिजिक अर्थात् ब्रह्मविद्या, आत्म विद्या, का स्थान है क्योंकि इन पाँचों का समन्वय करना, ज्ञान समूह में, अर्थात् समग्र ज्ञान-पुरुष के

भारतीय ज्ञान इस विषय का सब लुप्त गुप्त हो रहा है। इङ्गित मात्र मिलते हैं, कि वेद ग्रंथों की शक्ति उन के शब्द और स्वर (सौंड) में बसती है, भूस्थानी देवता अग्नि (होड), अंतरिक्षस्थानी विद्युत् (इलेक्ट्रिसिटी), छुस्थानी सौर ज्योतिः (लैट) हैं; जैसे पाँच मुख्य इन्द्रियों के विषय-भूत तत्त्व और उन के गुण हैं, जैसे ही एक एक तत्त्व के साथ एक एक विशेष शक्ति का प्रकार (अभिमानी देवता, प्राण) होना चाहिये, और इन के अन्तर भेद बहुत हैं, यथा उन्चास भेद मरुत् (वायु) के, उन्चास अग्नि के; इत्यादि।

१ "The five great fundamental sciences are (1) Sociology, (2) Psychology (3) Biology—of the animate order, (4) physics, and (5) Chemistry—of the physical order. The aim of Science is *description of facts*; the aim of Philosophy, their *interpretation*. There is much need for Metaphysics to function as a sublime Logic, testing the completeness and consistency of scientific description. *Why* things happen, is no proper question for Science; its sole business is *how* they happen. *Why* is the business of Metaphysics. Science is for Life, not Life for Science"; *Introduction to Science* (H. U. L. Series), pp. 47, 106, 166-7, 251.

काय-व्यूह में, अंगत्वेन इन का यथा-स्थान समावेश करना, ^१ उन के तारतम्य, बलाबल, और उचित प्रयोग, का निर्णय करना, इन के अन्तर्गत वस्तुओं के वर्णनो की समीक्षा कर के, उन वर्णनो के परस्पर विरोधों को दूर करना और उन की त्रुटियों की पूर्ति करना—यह काम ब्रह्म विद्या ही कर सकती है ।

सायंस, विज्ञान, तो 'हाउ', 'कथम्', अर्थात् कैसे—इतना ही बतलाता है, वस्तु-स्थिति का वर्णन मात्र कर देता है । उस का अर्थ लगाना, अभिप्राय बताना, क्यों, 'ह्वाइ', का निर्णय करना, यह मेटाफिजिक्, प्रज्ञान, का काम है । अर्थ का, अभिप्राय का, प्रयोजन का, 'किमर्थ', 'कस्मात्' क्यों, किस लिये, किस के लिये— इन प्रश्नो का आधार तो चेतन 'लाइफ़' ^२ है । और सायंस-विज्ञान चेतन का किंकर है, चेतन सायंस-विज्ञान का किंकर नहीं ।

यूरोप के बड़े यशस्वी, जगद्विख्यात, विज्ञान और प्रज्ञान के आचार्य हर्बर्ट स्पेन्सर महोदय ने भी इसी आशय के वाक्य इन से पहिले कहे थे । ये सज्जन, ज्ञान के संग्रह की अनन्य भक्ति के कारण, उस के लिये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, तथा विविध प्रकार के अन्य त्याग और तपस्या के हेतु से, सच्चे ऋषि-कल्प हुए । इन्हीं ने लिखा है.

'अध्यात्म शास्त्र का अधिकार अन्य सब शास्त्रों से ऊँचा है । यह तो एक स्वलक्षण, विलक्षण, शास्त्र है, अद्वितीय है । इस के समान, इस का सजातीय, कोई दूसरा शास्त्र नहीं । यह दोहरा शास्त्र है । इस का संबंध ज्ञाता से भी और ज्ञेय से भी है, अचेतन शरीर से भी और चेतन शरीर से भी, विषय से भी, विषयी से भी । अन्य शास्त्रों का संबंध केवल विषयों से है, वे एकहरे शास्त्र हैं । यदि हम से पूछा जाय कि मानस पदार्थों का अनुवाद शारीर शब्दों में करना अच्छा है, या शारीर का मानस में, तो हम को दूसरा ही विकल्प, अर्थात् शारीर पदार्थों का मानस पदार्थों में अनुवाद करना ही, अधिक उचित जान पड़ेगा ।'^३

१ यथा—छंदः पादौ तु चेदस्य, हस्तः कल्पोऽथ पश्यते, इत्यादि ।

२ How ; Why ; Life ; Science ; Metaphysic.

३ ' The claims of Psychology are not smaller but greater than those of any other Science. It is a double science which, as a whole, is quite *sui generis*. Were we compelled to choose between the alternatives of translating (1) mental into physical, or (2) physical into mental, phenomena, the latter alternative would seem the more acceptable of the two ;' H. Spencer, *Principles of Psychology*, I, 141.

श्री टामसन के वाक्य में, शास्त्रों का राशीकरण पाँच मुख्य शास्त्रों में और छठे मेटाफिजिक में, कहा गया ; इस के आरम्भक प्रायः स्पेन्सर महोदय ही हैं । इन्हो ने मेटाफिजिक, तथा बायालोजी, साइकालोजी, और सोशियालोजी पर बड़े बड़े और सर्वमान्य अति प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं^१ । और इन की इच्छा केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐस्ट्रोनोमी (खगोल शास्त्र), और जीयालोजी^२ (भूगोल-भूगर्भ-शास्त्र) पर भी ग्रन्थ लिख कर चेतनाचेतन जगत् का सम्पूर्ण चित्र खींचने की थी । पर यह इच्छा पूरी न हो सकी । यदि भारतीय दार्शनिक और पौराणिक शब्दों में कहना हो तो यों कहेंगे, कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में, 'अबुद्धिपूर्वः सर्गोऽयम्'^३, क्रमशः पंच महाभूतों और उन की शक्तियों, गुणों, का तथा अवांतर भेदों का, आविर्भाव दिखाया जाता है ; फिर ऐस्ट्रोनोमी में महा विराट् का, ब्रह्म के अंडों, ब्रह्मांडों, से पूर्ण समस्त जगत् खगोल का वर्णन होता है ; फिर जीयालोजी में पृथ्वी-गोल रूपी मध्य विराट् का ; फिर अन्य तीन में क्षुद्र विराट् का ; तथा सोशियालोजी में 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' आदि मानव-समाजात्मक विराट् का, विविध-वर्ग-वर्णात्मक विराट् का, वर्णन होता है ; और ब्रह्म विद्या इन सब की संग्राहक व्यवस्थापक है । 'ब्रह्मविद्या सर्व-विद्या-प्रतिग्रा'^४ ।

गणित और प्रज्ञान

'मैथेमैटिक्स',^५ गणित, का सच्चा रहस्य तब खुलेगा जब वह ब्रह्म विद्या के

१ *First Principles; Principles of Biology, 2 vols; Principles or Psychology, 2 vols; Principles of Sociology, 3 vols; इन के सिवा Principles of Ethics, 2 vols, लिखा है, जिस को अंशतः First Principles अर्थात् Metaphysic का, और अंशतः Psychology तथा Sociology का, अंग समझा जा सकता है ।*

२ Chemistry; Physics; Astronomy; Geology.

३ अर्थात् Unconscious Inorganic Evolution.

४ अर्थात् Organic Evolution, of organisms or individualities of various scales—sidereal systems, solar systems, single heavenly orbs, (stars and planets etc) vital organisms dwelling on these orbs, (gods, angels, men, animals, vegetables, minerals etc) microscopic organisms living in and forming the cells and tissues of these vital organisms etc, *ad infinitum*.

५ Mathematics.

गुप्त लुप्त अंश के प्रकाश में जाँची और जानी जायगी। यथा, रेखागणित (उक्लैडिस) के पहिले साध्य का चित्र है—परस्पर गुये हुए दो वृत्त, और उन के बीच में एक समबाहु त्रिभुज। ऐसा चित्र आदि में ही क्यों दिया? क्योंकि, श्रीयंत्र आदि के ऐसा, यह यन्त्र बहुत गभीर अर्थ का द्योतक है। इस में आत्मविद्या का, वेदांत का, सार दिखा दिया है। दो 'वृत्त', आद्यन्तहीन, अनादि और अनन्त, पुरुष और प्रकृति, चेतन और जड़, द्रष्टा और दृश्य, आत्मा और अनात्मा हैं; अमेय सम्बन्ध से परस्पर बद्ध भी हैं, अलग भी हैं; इन के बीच, इस सम्बन्ध से, चित्त-देह-मय, तीन नुत्य बल वाले गुणों से बना, त्रिगुणात्मक जीव उत्पन्न होता है; इत्यादि।

भगवद्गीता का श्लोक है,

यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति,
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।

जगत् की, दृश्य पदार्थों की, विषयों की, असंख्य अनेकता को जब एकस्थ, एक में, द्रष्टा में, विषयी में, स्थित, प्रतिष्ठित, देख ले, और उस एक से इस अनेक के विस्तार के प्रकार को भी जब जान ले, तब जीव का ब्रह्म अर्थात् ज्ञान सम्पन्न होता है; तब जीव, ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न, प्रज्ञान और विज्ञान दोनों से पूर्ण होता है, तथा स्वयं ब्रह्म पदार्थ, ब्रह्ममय, हो जाता है। इस सम्पूर्ण ज्ञान का पहिला अर्थ तो प्रज्ञान, मेटाफिजिक, फिलॉसोफी, है; दूसरा अंश, विज्ञान, सायंस है। पहिला शांति शास्त्र, मोक्ष शास्त्र है; दूसरा शक्ति शास्त्र, योग शास्त्र, है। इस शक्ति शास्त्र का मर्म, गणित शास्त्र जान पड़ता है। योग शास्त्र, शक्ति शास्त्र, का अति अल्पांश रूप, व्यावहारिक प्रक्रिया शास्त्र, विज्ञान, प्रचलित है; उस में संख्या, अनुपात, मात्रा (जो सब गणित का अंग है) अत्यन्त आवश्यक है। यदि रसायन-कीमिया में, एंजिनियरिंग-कर्मांत में, मंडिसिन-चिकित्सा में, प्रयोजनीय द्रव्यों की संख्या, मात्रा, अनुपात पर ध्यान न रक्खा जाय तो कार्य त्रिगड़ जाय। इस लिये गणित को, एक रीति से, प्रज्ञान और विज्ञान को, जीव और देह को, परस्पर बाँधने की रचना, रम्यी, समझना चाहिये। पर इस 'सायंस आक नम्बर्स'^१, यथातथ 'सांख्य' (संख्या, सम्यक् ख्यान), के रहस्य का ज्ञान अभी लौकिक मानव जगत् को नहीं मिला है। 'ब्रह्मा' के 'वेद' में गूढ़ है। हो सकता है कि उस वेद के तात्त्विक ज्ञाता, 'वेद-द्रष्टा', 'मंत्र-द्रष्टा', और मंत्र-कृत् ऋषियों को, तपः-सिद्धों को ही, और साम्प्रत मानव जातियों की काम क्रोध लोभादि से अंध प्रकृति को देखते हुए,

१ Numbers; proportions; degrees and quantities.

२ Science of numbers,

वे उन रहस्यों को इन की बुद्धि में आने देना उचित नहीं समझते। जितना जान गये हैं उसी से प्रबल जातियों के प्रबल वर्ग, दुर्बलों की कोटियों का विनाशन और यमयातन कर रहे हैं। इस लिए ऐसी तीव्र उग्र शक्ति के देने वाले ज्ञान का तब तक प्रचार न होना ही अच्छा है जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं हैं राग-द्वेष के विषय में पशुओं से भी अधिक पतित हो रहे हैं^१। अस्तु। प्रसंगवशात्, शास्त्रों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में गणित शास्त्र की और उस के स्थान की चर्चा आ गई।

अध्यात्म विद्या की शाखा-प्रशाखा

प्रस्तुत विषय यह है कि पश्चिम में भी अध्यात्म विद्या का आदर होने लगा है। अर्थात्, यों तो इस विषय पर ग्रंथ यूरोप में भी बहुतेरे, प्रत्येक शताब्दी में, लिखे जाते ही रहे हैं, और उन का अध्ययन अध्यापन भी होता ही रहा है, पर अब विशेष कर के उन वैज्ञानिक मंडलियों में भी जिन में इस का तिरस्कार हो चला था, कि यह अनुपयोगी जल्प विवाद मात्र का भंडार है, इस की व्यावहारिक उपयोगिता में विश्वास, और इस की शाखा प्रशाखाओं का अन्वेषण, उन का अध्ययन, और मानस विकारों की चिकित्सा में, तथा व्यापारों में (जिन में इस के प्रयोग की संभावना भी नहीं की जाती थी), इस के प्रयोग का पक्षपात, दिन दिन बढ़ रहा है।

इस का एक सौधा प्रमाण यह है, कि इधर तीस चालीस वर्ष के भीतर, साइकालोजी आफ़ सेक्स (स्त्री-पुं-भेद, काम, मैथुन्य, की अध्यात्म विद्या) साइकालोजी आफ़ रिलिजन (उपासना की), साइकालोजी आफ़ आर्ट या ईस्थेटिक्स, (ललित कला की) साइकालोजी आफ़ इंडस्ट्री (व्यापार की), साइकालोजी इन पालिटिक्स, (शासन नांति की), साइकालोजी आफ़ एविडेन्स (साक्षिता की), एक्सपेरिमेंटल साइकालोजी (अंतःकरण वहिःकरण के संबन्ध की परीक्षा के लिये 'योग्या' अर्थात् आइमाइश की) साइकालोजी आफ़ एड्युकेशन (शिक्षा की), साइकालोजी आफ़ टाइम (काल, समय, की), साइकालोजी आफ़ रीजनिङ् (तर्क, अनुमान, की), साइकालोजी आफ़ लाफ़्टर (हास की), साइकालोजी आफ़ इमोशन (क्षोभ, संरम्भ, राग-द्वेष की), साइकालोजी आफ़ इन्मीनेट्री (उन्माद की), साइकालोजी आफ़ कैरेक्टर (स्वभाव, प्रकृति, की) सोशल साइकालोजी (समाज की), फिज़ासौफ़ी आफ़ म्युज़िक (संगीत की), साइकालोजी आफ़ कलर (रंग की), साइकालोजी आफ़ लैंग्वेज (भाषा की), चाइल्ड-साइकालोजी (बालकां की), ऐनिमल साइका-

१ "Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise",

लोजी (पशुओं की), साइकालोजी आफ् कन्वर्शन (हृदय-विवर्त, भाव-परिवर्त, की), साइकालोजी आफ् दी सोशल इन्सेक्ट्स (संघजीवी कीट, यथा पिपीलिका, मधुमक्षिका, आदि की), साइकालोजी आफ् पाथोलोजी (मानस रोग चिकित्सा), साइकालोजी आफ् रिवोल्यूशन (राष्ट्र-विप्लव की), साइकालोजी आफ् दी क्राँड (जन-संकुल की), साइकालोजी आफ् लीडरशिप (नेतृत्व की), साइको-पेनालिसिस (मानस रोग निदान), साइको-फिज़िक्स (चित्त-देह संबंध), साइकिपेट्री (विकृत चित्त की वृत्तियों),^१ इत्यादि नामों की सैकड़ों अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक, विचारोद्बोधक, तथा चिन्ताजनक, भ्रमकारक, और भयावह भी, पुस्तकें छपी हैं।

इन नामों से ही विदित हो जाता है कि मानव जीवन के सभी अंगों पर साइकालोजी का प्रभाव परिचम में माना जाने लगा है। अंग्रेजी कवि की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है,

मानव के अध्ययन की उचित विषय है आप।^२

‘ना दाइ सेऱफ्,’ अर्थात् अने को जानो, यह ग्रीस देश के ‘सप्तर्षियों’^३ में से, जिन का काल ईसा से छः सात सौ वर्ष पूर्व माना जाता है, एक, काइलोन, का प्रवाद था। और हाल में ‘ना दाइ सेऱफ्’ नाम से एक ग्रंथ इटली देश के एक विद्वान् ने लिखा है, जिस का अनुवाद अंग्रेजी ‘लाइब्ररी आफ् फ़िलॉसॉफी’ नाम की ग्रंथ माला में छपा है।

आत्म-विद्या और चित्त-विद्या ।

इस स्थान पर यह कह देना चाहिये कि परिचम में अब कुछ दिनों से मेटा फिज़िक्स का साइकालोजी में अलग करने का काल चल पड़ी है। यह रविश एक

१ Psychology of Sex; Psychology of Religion; P. of Art or Aesthetics; P. of Industry; P. in Politics; P. of Evidence; Experimental Psychology; P. of Education; P. of Time; P. of Reasoning; P. of Laughter; P. of Emotion; P. of Insanity; P. of Character; Social Psychology; Philosophy of Music; P. of Colour; P. of Language; Child-Psychology; Animal Psychology; Psychology of Conversion; P. of the Social Insects; Psycho-pathology; Psychology of Revolution; P. of the Crowd; P. of Leadership; Psycho-analysis; Psycho-Physics; Psychiatry; etc.

२ “The proper study of mankind is Man.”

३ “Know thy-Self”; The Seven Sages of Greece.

दृष्टि से ठीक भी है। 'अणुरपि विशेषः अध्यवसायकरः', सूक्ष्म सूक्ष्म विशेषों का विवेक करने से ज्ञान का विस्तार, और निश्चय भी, बढ़ता है। विशेष और व्यक्त, सामान्य और अव्यक्त, प्रायः पर्यायवत् हैं। जितनी अधिक विशेषता, उतनी अधिक व्यक्ति, 'इंडिविड्युएलिटी, पार्टिक्युलैरिटी, सिंग्युलैरिटी, स्पेशलिटी'^१। जितनी अधिक समानता, उतनी अधिक अव्यक्ति, 'युनिवर्सैलिटी, जेनेरालिटी'^२। पर, 'अति सर्वत्र वर्जयेत्', इस का भी ध्यान रखना चाहिये। इतना विवेक करने का यत्न न करना चाहिये, कि विविक्तों में अनुस्यूत, अविवेकी, सब पदार्थों के अमेद्य सम्बन्ध का हेतु, एकता का सूत्र ही टूट जाय। टूट सकता ही नहीं। एकता और अनेकता, सामान्य और विशेष, जाति और व्यक्ति, पृथक् नहीं किये जा सकते; इन का समवाय-सम्बन्ध है।

अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत !,
अव्यक्तनिधनान्येव, तत्र का परिदेवना^३ ?

(भगवद्गीता)

सर्वदा सर्वमाशानां सामान्यं वृद्धिकारणम्,
ज्ञानहेतुः विशेषश्च, प्रवृत्तिरुभयस्य तु।
सामान्यमैकत्वम्, विशेषस्तु पृथक्त्वकृत्,
तुभ्यार्थना तु सामान्यं, विशेषस्तु विपर्ययः।

(चरक, अ० १)

सब भूतों, सब पदार्थों, का मध्य मात्र व्यक्त है, ज़ाहिर है; आदि अन्त अव्यक्त हैं, बातें हैं। सामान्य पर अधिक ध्यान देने से सब भावों की वृद्धि होती है; विशेष से ह्यम; सामान्य से एकता, विशेष से पार्थक्य। जिन्स पर, तजनीस पर, जोर देने से हम जिन्सियत जोर पकड़ती है, इत्तिहाद, इत्तिक्राक, इत्तिसाल, यगानगी, दिल में पैवस्त होती है; शहस पर, तशख्वास पर, गौर करने से शक्तिसयत बढ़ती है, खुभियत, गौरियत, बेगानगी, इम्तियाज, इन्फिराक, की तरफ दिल रुजू

१ Individuality, Particularity Singularity, Speciality.

२ Universality, Generality,

३ "Who knows ? From the Great Deep to the Great Deep he goes!" Tennyson. The Unmanifest, Indefinite, Unconscious, is on both sides of the Definite, Conscious, Manifest.

होता है। मैं फुलों शरस हूँ—एक मूठी हाइ माँस से वस्ल हुआ, बाक़ी सब आदमियों में फूटल हुआ; मैं फुलों कौम या मजहब का हूँ—उस कौम या मजहब वाले सब आदमियों से मेल हुआ, बाक़ी सब कौमों मजहबों से तनाब; मैं इन्सान हूँ—सब इन्सानो से वहदत हो गई मगर रौर-इन्गानो से नौरियन रही; मैं चेतन हूँ—सब चेतन जीव मेरे ही, मैं ही, हो गये।

जगत् में इन दोनो भावों की प्रवृत्ति सदा होती रहती है, इन का भी अच्छेय अभेद द्वंद्व है। मेटाफिज़िक, ब्रह्मवेद्या, का तो बड़ा काम ही यह है कि इस सर्वव्यापी, सर्वसंप्रही, सर्वसंबंधकारी सूत्र को दृढ़ करे, सिद्ध करे, चित्त में वैद्य दे, किं

सर्वं सर्वेण सम्बद्धं, नैव भेदाऽस्मिन् कुत्रचित् ।

‘मैटल और फिज़िकल फ़नामेना’ का,^१ बौद्ध और भौतिक विकारों का, चित्त-वृत्तियों और शरीरावस्थाओं का, परस्परानुवाद करना, इस के सर्वप्रह के कार्यों में एक कार्य है।

यथैव भेदोऽस्ति न कर्मदेहयास्तथैव भेदोऽस्ति न देहचित्तयोः;
 यथैव भेदाऽस्ति न देहचित्तयोस्तथैव भेदोऽस्ति न चित्तजीवयोः;
 यथैव भेदाऽस्ति न चित्तजीवयोस्तथैव भेदोऽस्ति न जीवब्रह्मणोः;
 यथैव भेदोऽस्ति न जीवब्रह्मणोस्तथैव भेदाऽस्ति न ब्रह्मकर्मणोः ।
 (योग वासिष्ठ)

कर्म और देह में भेद नहीं, देह और चित्त में भेद नहीं, चित्त और जीव में भेद नहीं, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं, ब्रह्म और कर्ममय संसरण-समष्टि में भेद नहीं। समुद्र और बीच तरङ्ग लहरी बुद्बुद स्पंद में भेद नहीं। ब्रह्म-सूत्र पर जो भाष्य शंकराचार्य ने रचा उस का नाम शारीरक भाष्य रखा है। ‘शरीरे भवः, शरीरेण व्यज्यते, इति शारीरः, शरीरवान् ब्रह्म’। ‘अणोरणीयान्, महतो महीयान्’, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अनंत अस्पृश्य जंगम्यमान जगत् पदार्थों का रूप धरे, अमूर्त होते हुए भी मूर्त ब्रह्म परमात्मा के विषय में जो भाषण किया जाय वह शारीरक भाष्य। क्यों कि अमूर्त ब्रह्म का व्याख्यान तो मौन से ही होता है।

गुरोस्तु मौनं व्याख्यान, शिष्यास्तु उच्छिन्नसंशयाः ।

निष्कर्ष यह कि मेटाफिज़िक और साइकालोजी में विवेक करते हुए भी उन के घनिष्ठ संबंध को सदा याद रखना चाहिये। स्यात् अच्छा हो यदि यह संकेत स्थिर

१ Mental and physical phenomena.

कर लिया जाय कि ब्रह्मविद्या का अंग्रेजी पर्याय मेटाफिज़िक, और अध्यात्मविद्या का साइकालोजी है; तथा आत्मविद्या शब्द दोनों का संग्राहक माना जाय। ग्रीक भाषा में 'मेटा' का अर्थ 'परे' है, और 'फिज़िका' का द्रव्य, 'मात्रा, स्थूलेंद्रियों का समस्त विषय'; जो ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष में परे हैं, अर्थात् परम-आत्मा, ब्रह्म, उस की विद्या ब्रह्म विद्या, 'मेटाफिज़िक'। 'साइकौ' का अर्थ 'चित्त, मनस्, जीव', और 'लोगोस' का अर्थ 'शब्द, व्याख्यान, शास्त्र'; जीव का, चित्त का, अंतःकरण का शास्त्र अध्यात्मविद्या, 'साइकालोजी'। गीता में कहा है, 'स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते'; इस का अर्थ एक यह भी हो सकता है कि आत्मा का जो त्रिगुणात्मक स्वभाव है, जिसी को प्रकृति, जीव, चित्त, अंतःकरण आदि नामों से, सूक्ष्म सूक्ष्म भेदों से, पुकारते हैं, वही अध्यात्म है; उस की विद्या अध्यात्मविद्या है। समष्ट्यवस्था का नाम ब्रह्म, व्यष्ट्यवस्था का नाम ब्रह्मा, एक ब्रह्म-अंड का अधिकारी। अव्यक्त आकार का नाम चित्, चित्ति, चेतन, चैतन्य, व्यक्त रूप का नाम चित्त। मार्तण्डिक, 'यूनिवर्सल', दशा का नाम परमात्मा, प्रातिखिक, 'इन्डिविज्युअल', दशा का नाम जीवात्मा। आत्मा शब्द परम का भी, चरम का भी, दोनों का संग्राहक।

आत्मविद्या के अवांतर विभाग

ऐसी सूक्ष्म विवेक की दृष्टि में अब फ़िलासोफी में, पश्चिम में, कई पृथक् पृथक् अंग माने जाने लगे हैं। (१) 'मेटाफिज़िक अथवा फ़िलासोफी प्रापर, (२) साइकालोजी, (३) लाजिक, (४) एथिक्स, (५) ईस्थेटिक्स प्रभृति। कुछ दशाब्दी पूर्व, 'हिस्टरी आफ़ फ़िलासोफी' भी इन्हीं के साथ एक और अंग समझा जाता था, और इस विषय के ग्रन्थों में अन्य सब अंगों के विकास और विकासकों का इतिवृत्त लिखा जाता था। पर अब अलग-अलग 'हिस्टरी आफ़ एथिक्स, हिस्टरी आफ़ लाजिक, हिस्टरी आफ़ ईस्थेटिक्स, और हिस्टरी आफ़ साइकालोजी' पर ग्रन्थ लिखे और छापे जाने लगे हैं। गीता में कहा है, 'नास्त्यन्तो विस्तरस्य म', अर्थात् मेरी, 'मैं' की, मुझ परमात्मा की, विभूतियों का, विशेषों का, विस्तर ('डीटेरस') का, अन्त नहीं है; कहीं तक खाजोगे; मुख्य-मुख्य सामान्यों से, अनुगमो, निगमो, नियमो, लक्षणो से, सब विशेषों, विस्तरों, का ग्रहण कर के सन्तोष करो। यही अर्थ मनु ने भी दूसरे प्रसंग में कहा है, 'विस्तरं तु न कारयेत्'।

स्थूल रीति से कह सकते हैं कि सब से अधिक व्यापक अनुगमो के, जगद्व्यापी नियमो के, संग्रह को, शास्त्र को, 'मेटाफिज़िक या फ़िलासोफी प्रापर' 'दि सायंस आफ़ बीइङ्, ऑर रियालिटी, ऑर ट्रूथ', कहते हैं। अंतःकरण की, चित्त की,

बनावट और वृत्तियों के शास्त्र को 'साइकालोजी, दी सार्यस आफ् माइण्ड' । अत्रांत सत्य तर्क और अनुमान के प्रकार के शास्त्र को 'लाजिक, दी सार्यस आफ् रीज-निङ्' । सद् आचार के शास्त्र को 'एथिक्स, या मारल्स, दी सार्यस आफ् कांडक्ट' । उत्तम ललित कलाओं और उत्कृष्ट ऐंद्रिय मुखों के शास्त्र को 'ईस्थेटिक्स, दी सार्यस आफ् फ़ाइन आर्ट ऐंड रिफ़ाइण्ड सेन्सुअस प्लेज़र'^१ । इन सब का कैसा घनिष्ठ संबंध है, यह उन के लक्षणों के सूचक नामों से ही विदित हो जाता है । इतना और ध्यान कर लिया जाय तो भारतीय दर्शनो का, विशेष कर षडदर्शनो का, और यूरोपीय दर्शनो का, समन्वय देख पड़ने लगेगा—यथा अन्तःकरण और बहिष्करण का अविच्छेद्य सम्बन्ध है ; अतः 'साइकालोजी और फ़िज़ियालोजी', चित्त शास्त्र और शरीर शास्त्र, नितरां अलग नहीं किये जा सकने, बेवळ अपेक्षया, वैशेष्यात् . अलग किये जाते हैं । तथा 'फ़िज़ियालोजी का बायालोजी' (जन्तु शास्त्र) मे, उस का 'केमिस्ट्री' (रसायन अथवा महाभूत शास्त्र) से, उस का 'फ़िज़िक्स' (अधिदेव शास्त्र) से, अटूट संबंध है । इस लिये सभी शास्त्रों के विषय सभी शास्त्रो मे, न्यूनाधिक, उपनिपतित हैं, और सभी का सभी से संबंध है । जैसा मुश्रुत मे कहा ही है ।

अन्यशास्त्रविषयोपपन्नानां चार्थानामिह उपनिपतितानाम् अर्थ-
वशात् तद्विद्येभ्य एव व्याख्यानमनुश्रोतव्यं ; कस्मान् , न होकस्मिन्
शास्त्रे शक्यः सर्वशास्त्राणामवरोधः कर्तुम् ।

एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् ;
तस्माद् बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयान् चिक्रिम्कः ।

(सूत्रस्थान, अ० ५)

किसी भी शास्त्र मे, जब दूसरे शास्त्रों के विशेष विषय, प्रसंगवश से, आ जाते हैं, क्योंकि सब का सम्बन्ध सामान्यतः सब से है, तब उन-उन शास्त्रों के विशेषज्ञों से उन-उन विषयों को जान लेना चाहिये । एक ही ग्रंथ मे सब शास्त्रों के विषय विस्तार से नहीं बन्द किये जा सकते हैं, और विना बहुश्रुत हुए कोई भी शास्त्र ठीक ठीक नहीं जाना जाता । यहाँ तक कि 'एकमेव शास्त्रं जानानः न किंचिदपि

१ Metaphysic or Philosophy proper, the Science of Being or Reality, or Truth; Psychology. the Science of Mind; Logic, the Science of Reasoning or Thinking; Ethics, or Morals, the Science of Conduct; Æsthetics, the Science of Fine Art and Refined Sensuous pleasure.

शास्त्रं जानाति', एक ही शास्त्र को जानने वाला कुछ भी शास्त्र नहीं जानता। अँगरेजी में भी कहावत है कि सुशिक्षितता, शिष्टता, कल्चर, का अर्थ यह है कि किसी एक विषय का सब कुछ और सब अन्य विषयों का कुछ-कुछ जाने। दर्शन शास्त्र का प्रधान गुण यह है कि इस में सभी शास्त्रों के मूल अनुगमो, सिद्धांतों, का शिक्षण और परीक्षण देख पड़ता है^१। जैसा ऊपर कहा है, एक कोटि पर चित्त अन्तःकरण बहिष्करण आदि, दूसरी कोटि पर महाभूत और उन के गुण; एक ओर 'साइकालोजी-फिसियालोजी', दूसरी ओर 'बेमिस्ट्री-फिज़िक्स'; दोनों का संग्रह करने वाली 'मेटाफिज़िक्स'। वही योग वासिष्ठ की बात, जीव और कर्म दोनों का संग्रह ब्रह्म परमात्मा में।

यदि सामूहिक रूप से सब को दर्शन शास्त्र कहें तो ग्रंथों के विशेष विषयों की दृष्टि से, ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, परा विद्या, का पर्याय अंग्रजी भाषा में 'मेटाफिज़िक्स' हो सकता है। तथा अध्यात्मविद्या, चित्त विद्या, अन्तःकरण शास्त्र का 'साइकालोजी'; तर्क शास्त्र अथवा न्याय का 'लॉजिक्स'; आचार शास्त्र वा धर्म मीमांसा का 'एथिक्स'; ऋत्विज शास्त्र का 'ईस्थेटिक्स'।^२

वेद-पुरुष के अंगोंपाङ्ग

कुछ दशान्दियों तक यूरोप में विशेष विशेष शास्त्रों के विकासकों में वैयक्तिक बुद्धिमत्ता के अभिमान से, अहंयुता से, तथा देशीय जातीय अभिमान से^३ यह भाव

१ To know every thing of something and something of every thing is culture.

२ इसी से 'फिलॉसोफी आफ लॉ' (धर्म-कानून), 'फिलॉसोफी आफ आर्ट' (ललित कला), 'फिलॉसोफी आफ हिस्ट्री' (इतिहास), इत्यादि नाम से भी ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं।

३ अब हिंदी साहित्य में 'मनोविज्ञान' नाम 'साइकालोजी' के लिये लिखा जाने लगा है। बुरा नहीं है, शब्दतः अर्थतः ठीक भी हैं, पर 'शास्त्र' या 'विद्या' शब्द से अन्त लेनेवाला नाम भारतीय परिपाटी और संस्कृत भाषा की शैली के अधिक अनुकूल होता है। ऊपर इस शास्त्र के लिये अध्यात्मविद्या नाम लिखा गया है और आत्मविद्या वा ब्रह्मविद्या 'मेटाफिज़िक्स' के अर्थ में। प्रायः प्रचलित संस्कृत ग्रंथों में अध्यात्मविद्या और आत्मविद्या में विवेक नहीं किया जाता, दोनों का अर्थ ब्रह्मविद्या समझा जाता है, क्योंकि दोनों के विषय मिले हैं।

४ Scientific Chauvinism, यह एक आंग्ल वैज्ञानिक का ही शब्द है।

कुछ कुछ था, कि मेरा शास्त्र सत्य और उत्तम तथा अन्य शास्त्र वृथा और मिथ्या^१। संग्रह पर आग्रह नहीं, विग्रह पर बहुत; समन्वय का भाव नहीं, विपर्यय का बहुत; सम्मेलन, आश्चेषण, संयोजन, मंडन, रंजन की इच्छा नहीं, दृष्टि नहीं, विभेदन, विश्लेषण, वियोजन, खंडन, भंजन की बहुत; इत्तिहाद, इत्तेसाल, इन्तिबाक की ख्वाहिश नहीं, नीयत नहीं, इन्फ़राक, इन्फ़साल, इम्तियाज की बहुत। पर अब ज्ञान के विस्तार के साथ साथ इस का प्रतिपक्षी भाव भी फैलता जाता है, कि ‘दो सायंसज और मेनी, सायंस इज वन्’^२, विशेष विशेष शास्त्र चाहे अनेक हों पर शास्त्रसामान्य एक ही है, अर्थात् सब शास्त्र एक ही महाशास्त्र के, वेद के, अज्ञोपांग शाखा प्रशाखा हैं। पूर्वाध्याय मे सांख्य मत के संबंध में जैसा कहा, ‘एकमेव दर्शनम् ख्यातिरेव दर्शनम्’। प्रत्यक्ष है, जब प्रकृति, नेचर, एक है, तो उस का वर्णक शास्त्र भी एक ही होगा। संसार के एक एक विशेष अंश, अंग, पदार्थ, पार्श्व, अवस्था को अलग अलग ले कर, उन का वर्णन अलग अलग ग्रंथों मे कर देने से, प्रकृति म, और उस के शास्त्र मे, आभ्यंतर आत्यंतिक भेद तो उत्पन्न हो नहीं जायगा; केवल ‘वैशेष्यात्तु तद्वादस्तदादः’ यही ब्रह्म-सूत्र पुनरपि चरितार्थ और उदाहृत होगा। किसी विशेष अंश पर विशेष दृष्टि होने से विशेष नाम पड़ जाता है। जैसे, जिस वस्तु से लिख रहा हूँ कई द्रव्यों से बनी है, पर नाम उस का लेखनी पड़ा है। क्योंकि उस के मुख्य प्रयोजन और कार्य ‘लिखने’ पर ही दृष्टि है। अन्यथा, सब शास्त्र एक ही शास्त्र के अङ्ग है।^३

भारत की तो पुरानी प्रथा है, ‘एक एव पुरा वेदः’ और सब विद्या उसी के उपवेद और अज्ञोपांग हैं। इस को दिखाने के लिए समग्र ज्ञान-शरीर का रूपक भी बांध दिया है।

१ जैसा भारत में, शैव, शाक्त, वैष्णव आदि, द्वैती, अद्वैती, विशिष्टाद्वैती, शुद्धाद्वैती, द्वैताद्वैती आदि, नैय्यायिक, मीमांसक, वेदान्ती, पांचरात्र आदि, मे देख पड़ता है।

२ Though sciences are many, Science is one. ‘समन्वय’ नाम ग्रंथ मे विविध विषयों पर विभिन्न मतों के विरोध का परिहार करने का यत्न मैं ने किया है।

३ इस विषय पर, ‘पुरुषार्थ’ नाम के ग्रंथ के प्रथम अध्याय मे विस्तार से विचार करने का यत्न किया है।

छन्दः पादौ तु वेदस्य. हस्तः कल्पोऽथ पट्यते,
मुखं व्याकरणं प्रोक्तं, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते,
शिक्षा च नासिका तस्य, ज्योतिषं नयनं स्मृतम्.

इस में कुछ और पाद जोड़ दिये जायें तो तस्वीर स्यात् पूरी हो जाय, यथा,

आयुर्वेदोऽस्य नाभिस्तु, गांधर्वं कंठ ईयते,
धनुर्वेदस्तु बाहुः स्याद्, अर्थशास्त्रं तथोदरम्,
शिल्पमूरुः, तथा मध्यं कामशास्त्रं तु कथ्यते,
आधिभौतिकशास्त्राणि देहनिर्मातृघातवः,
तथाऽधिदैविकान्यस्य प्राण-स्पन्दनहेतवः,
हृद् राजधर्मः सर्वेषां धारकं प्रेरकं तथा,
अध्यात्मशास्त्रं मर्धा चाप्यखिलानां नियामकम् ।

जिस रीति से फ़िलासोफी के भीतर पांच शास्त्रों का विवेक पाश्चात्य विचार में किया है, ठीक उस रीति से भारतीय विचार में नहीं किया है। पॉरस्स्य दर्शन शास्त्र में सब प्रायः एक साथ बंधे मिलते हैं। तौ भी प्राधान्यतः 'केमिस्ट्री' और 'फ़िज़िक्स' के दार्शनिक अंश का विशेष रूप से चर्चा वैशेषिक सूत्रों में; 'लॉजिक' की न्याय सूत्रों में; 'साइकालॉजी' का सांख्य और योग सूत्रों में; 'एथिक्स' की पूर्व (धर्म) मीमांसा में; 'मेटाफ़िज़िक्स' की उत्तर (ब्रह्मा) मीमांसा में, की है। 'ईस्थेटिक' का विषय साहित्य शास्त्र और कामशास्त्र में रख दिया गया है। 'मेटाफ़िज़िक्स' को पहले पच्छिम में 'आंटालॉजी' भी कहा करते थे, पर अब इस शब्द का व्यवहार कम हो गया है। जैसा पहिले कहा, 'मेटा' शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा में पीछे, परे, का है और 'फ़िज़िका', प्रकृति दृश्य। जो दृश्य प्रकृति से अतीत है, परे है, उस के प्रतिपादक शास्त्र का नाम 'मेटाफ़िज़िक्स'। ब्रह्मविद्या का यह पर्याय ठीक ही है। पश्चिम में सार्यंस अर्थात् शास्त्र पदार्थ के प्रायः दो लक्षण प्रथित हैं; एक तो, 'सायंस इज् आर्गेंनाइज्ड् सिस्टेमाटाइज्ड् नाजेज्', ज्ञान के खंडों का, खंड-ज्ञानों का, परस्पर संप्रथित कार्य-कारण की परम्परा के सूत्र से सम्बद्ध व्यूह—यह शास्त्र है; दूसरा, 'सायंस इज् दी

१ Science is organised, systematised, knoweedge; 'प्रथितः, ग्रन्थः', कारण और कार्य के सम्बन्ध रूरी, हेतु और फल के सम्बन्ध रूरी, सूत्र से विचारों का ग्रन्थन, तथा लिखित पत्रों का सूत्र से ग्रन्थ, जिस में किया जाय, वह ग्रन्थ ।

सीइड् आफ सिमिलारिटी इन् डाइवर्सिटी'^१, विविध पदार्थों में, वैदर्य के साथ सादर्य वैधर्म्य के साथ साधर्म्य, व्यक्ति के साथ जाति, विशेष के साथ सामान्य, को देखना—यह शास्त्र है। यह कथा यदि अधिभौतिक शास्त्रों की है, जो परिमित, सादि, सान्त, काल-देश-निवृत्तावच्छिन्न, नश्वर पदार्थों की चर्चा करते हैं, 'दी सार्यसेज आफ् दी फ़ाइनाइट'^२ हैं, तो अध्यात्मिक शास्त्र का, जो अनादि अनंत अपरिमित देश-कालावस्थाऽतीत नित्य पदार्थ का प्रतिपादन करता है, लक्षण यों करना उचित होगा कि, वह 'कम्प्लीटली यूनिफ़ाइड् नालेज' और 'सीइड् आफ् यूनिटी इन् मल्टि-प्लिसिटी'^३ है, अर्थात् समस्त ज्ञानों का एक सूत्र में संग्रथन, एक व्यूह में व्यूहन, अथ च सब अनेकों में एकता का दर्शन, है। इसी अर्थ को भगवद्गीता का पूर्वोद्धृत श्लोक प्रकट करता है, अर्थात् भूतों के गणनातीत पृथक्त्व को एकस्थ, और उसी एक से संब्यातीत पृथग् भूतों का विस्तार, जब जीव पहचानता है तब ब्रह्म सम्पन्न हो जाता है।

ऐसे त्रिवारों की ज्यों-ज्यों यूरोप में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों फ़िलासोफी और सायंस में जो संबंध का सर्वथा विच्छेद होने लग गया था, वह क्रमशः मिटता जाता है, और इन का परस्पर संबंध अधिकाधिक माना जाने लगा है। ढाई तीन सौ वर्ष पहिले, न्यूटन, लामार्क, अदि विद्वानों ने, अपने गणित, ज्योतिष, जन्तु शास्त्र आदि के ग्रंथों को 'नेचुरल फ़िलासोफी' 'जुओलोजिकल फ़िलासोफी'^४ के नाम से पुकारा, और तीस चालीस वर्ष पहिले तक 'नेचुरल फ़िलासोफी' नाम का एक ग्रंथ, फ़्रांसीसी विद्वान् डेशानल का, उन विषयों पर जिन के लिये अब 'फ़िज़िक्स' शब्द कहा जाता है, विद्यालयों में पढ़ाया जाता था,। अब ऐसे शास्त्रों के लिये 'सायंस' शब्द प्रयोग किया जाता है जिस शब्द का प्रत्यक्ष रूप तथा मूल, लैटिन भाषा का धातु, संस्कृत शास् संस्, से मिलता है। और साथ ही साथ 'फ़िलासोफी' का लक्षण, उस की परिभाषा, ऐसे शब्दों में की जाने लगी है, यथा, शास्त्रों का शास्त्र,

१ Science is the seeing of Similarity in Diversity.

साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानात् । वैशेषिक सूत्र, १-१-४.

२ The Sciences of the Finite.

३ Completely unified knowledge ; the seeing of Unity in Multiplicity.

४ Natural philosophy; Zoological philosophy.

सर्वसंग्राहक शास्त्र, सर्वव्यापक शास्त्र, सर्व-समन्वय, सर्वशास्त्रसार, व्यापकतम शास्त्र, और विशेष कर मानव जीवन संबंधी प्रश्नों का शास्त्र इत्यादि ।^१

मुख्य और गौण प्रयोजनों का संबंध

ऐसे विचारों से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि दर्शन के उप-प्रयोजन क्या हैं, और उन का प्रधान प्रयोजन से संबंध क्या है ।

दुःख का समूल नाश कैसे हो, परमानंद कैसे मिले, इस की खोज में दुःख और सुख के स्वरूप का, और उन के कारण का, पता लगाना पड़ता है । आत्म-वशता ही सुख और परवशता ही दुःख, यह जानना । परवशता का हेतु क्या है ? द्रष्टा का, आत्मा का, दृश्य से, प्रकृति से, देह से, वासना कृत अज्ञान-कृत संयोग । यह संयोग कैसे मिटे ? द्रष्टा और दृश्य का ठीक ठीक तात्त्विक स्वरूप जानने से । दृश्य के अन्वीक्षण में अनित्य पदार्थ सम्बन्धी सब शास्त्र, जिन का सामूहिक सामान्य नाम अपरा विद्या है, आ गये । इन सब की जड़ गहिरा जा कर परा विद्या में ही मिलती है । कोई भी शास्त्र लीजिये । रेखा गणित का प्रारंभ इस परिभाषा में होता है कि बिंदु वह पदार्थ है जिस का स्थान तो है किंतु परिमाण नहीं । ऐसा पदार्थ कभी किसी ने चर्मचक्षु से तो देखा नहीं । इस का तत्त्व क्या है, इस का पता रेखा गणित से नहीं लगेगा, किन्तु अन्वीक्षिकी से ; जीव, अहं, मैं, ही ऐसा पदार्थ है जिस का स्थान तो है, जहाँ ही 'मैं हूँ' वहाँ ही है, लेकिन इस 'मैं' का परिमाण नहीं ही नापा जा सकता । अंक गणित का आरंभ 'एक' संख्या से है; कभी किसी ने शुद्ध 'एक' को देखा नहीं । यह मकान जिस के भीतर बैठ कर लिख रहा हूँ, एक तो है, पर साथ ही अनेक भी हैं, लाखों ईंट, मैकड़ों पत्थर, बीसियों दरवाजों खिरकी, बीसियों लोहे की धरनें, बगैरा बगैरा मिल कर बना है । तो इस को एक कहना ठीक है या अनेक ? इस का तत्त्व, कि संख्या क्या पदार्थ है, अंक गणित नहीं बनाता, दर्शन शास्त्र बताता है ; अहं, मैं, ही तो सदा एक है, अद्वैत है, ला-मानी है ; अनहं, एतत्, यह ही अनेक है । शक्ति गणित, 'डाइना-

२ The Science of Sciences; the Sum of all Sciences; Universal Science; Synthesis of all Sciences; Quintessence of all Sciences; Science of the widest problems in all fields, and of those which affect Mankind most closely: Alexander Herzberg, *The Psychology of Philosophers*, pp. 9, 10, 11, 12, 13, (pub. 1929).

मिक्स^१, का मुख्य पदार्थ शक्ति है, पर शक्ति क्या है, क्यों है, कैसे है, इस का हाल वह शास्त्र स्वयं कुछ नहीं बताता, आत्मविद्या बताती है कि 'इच्छा' ही 'शक्ति' है। रसायन शास्त्र 'केमिस्ट्री'^२, के मूल पदार्थ परमाणु, अणु, द्व्यणुक, त्रसरेणु, आदि हैं, पर अणु क्या है, क्यों है, कैसे है, इस का हाल ब्रह्मविद्या से ही पूछना पड़ता है। जंतु शास्त्र, शरीर शास्त्र, 'बायालोजी, फिसियालोजी'^३ मे प्राण पदार्थ क्या है, क्यों इतने जीव जन्तुओं के भेद होते हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर परा विद्या मे ही है। सृष्टि मे आरोह-अवारोह, विकास-संकोच, मानव जाति के इतिहास मे जातियों का उदय-अस्त, मनुष्य जीवन मे जन्म-वृद्धि-हास-मरण, क्यों होते हैं, इस का उत्तर अध्यात्मविद्या से ही मिलता है। नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र मे, पुण्य पाप का वर्णन है, पर क्यों पुण्य का फल सुख और पाप का दुःख, यह ब्रह्मविद्या ही कहती है। चित्तशास्त्र मे यह वर्णन तो किया जाता है कि चित्त की वृत्तियाँ ऐसी ऐसी होती हैं, पर क्यों ज्ञान-इच्छा-क्रिया होती हैं, क्यों राग-द्वेष होते हैं, क्यों सुख-दुःख होते हैं, इस का उत्तर आत्म-विद्या से ही मिलता है। अनुमान का रूप और प्रकार तो न्याय बताता है, पर व्याप्तिग्रह क्यों होता है, इस के रहस्य का पता वेदांत से ही चलता है। काव्य स-हित्य मे रस पदार्थ, अलंकार पदार्थ, आनन्द पदार्थ का तत्त्व क्या है, यह आत्म विद्या ही बतलाती है।

ज्योतिष मे, बासूटो मनुष्य के और वैदिक ऋषि के प्रश्न का उत्तर, कि किसने इन तारों को आकाश मे चपकाया, प्रज्ञान से ही मिलता है, विज्ञान से नहीं। बासूटो मनुष्य का अनुभव हम लोग देख चुके हैं; अपने मन मे उठते हुए प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण वह विषाद मे पड़ गया; उस को अपनी निर्बलता का अनुभव हाने लगा। अंधकार मे भय होता है, न जाने क्या जोखिम छिपी हो। जिसी अंश का ज्ञान कहीं, उसी अंश मे विवशता, परतंत्रता, भय। बिना सम्पूर्ण के ज्ञान के किसी एक अंश का भी ठीक ज्ञान नहीं, और बिना सब अंशों के ज्ञान के सम्पूर्ण का ज्ञान नहीं; ऐसा अन्योऽन्याश्रय पग विद्या और अपरा विद्या का, दी सायंस आफ दी इनफिनिट और दी सायंसेज़ आफ दी फ़ाइनाइट^४ का, है। जैसे अनन्त मे सभी सान्त अन्तर्गत है, वैसे ही परा विद्या मे सभी अपरा विद्या अंतर्भूत हैं। 'कारणं कारणानां' का प्रतिपादक शास्त्र भी 'शास्त्रं शास्त्राणां', 'अध्यात्म-विद्या विद्यानाम्', है। इस एक के जानने से सब कुछ, मूलतः, तत्त्वतः, जाना जाता है, जैसा उपनिषद् के ऋषि ने कहा। साथ ही इसी के यह भी है, कि जब

१ Dynamics. २ Chemistry. ३ Biology, Physiology.

४ The Science of the Infinite; the Sciences of the Finite.

अन्य सब कुछ, सामान्यतः; जान ले, तभी इस एक के जानने का अधिकारी भी, 'ज्ञातुं इच्छुः' भी और 'ज्ञातुं शक्तः' भी होता है। यह अन्वयोऽन्याश्रय है। इस ग्रन्थ के आदि में उपनिषत् की कथा कही है, कि समग्र अपरा विद्या जान कर तब नारद ने सनत्कुमार से परा विद्या सीखा। एक से अनेक जाना जाता है और अनेक से एक। कसत दर बहदत और बहदत दर कसत, दोनो का तअर्हक हो तब मारिफत, इर्फान, हक, मुकम्मल हो, ब्रह्म सम्पन्न हो। इसी लिये गीता में अर्जुन को केवल इतना समझा देने के लिये कि 'युध्यस्व', कृष्ण को, 'तस्मात्' सिद्ध करने के लिये सभी शास्त्रों की बातें संक्षेप में कहना पड़ गया। तुम्हारा कर्तव्य धर्म यह है; क्योंकि मानव समाज में तुम्हारा स्थान और दूसरों के साथ आदेश-प्रदेय संबंध, परस्पर कर्तव्य सम्बन्ध, ऐसा है; क्यों कि साम्प्रत मानव समाज, पुरुष की प्रकृति स्वर्थात् स्वभाव से प्रभूत त्रिगुणों के अनुसार कर्म का विभाग करने से, चातुर्वर्ण्यात्मक और चातुराश्रम्यात्मक है और तुम अमुक वर्ण और आश्रम में हो; क्यों कि यह मानव समाज, सृष्टि के क्रम में, पुराण इतिहास में वर्णित व्यवस्था से, ऐसी ऐसी मन्वन्तर और वंशानुचरित की भूमि, कक्षा, काष्ठा, 'स्टेज आफ इवोल्यूशन')^१ पर पहुँचा है; क्योंकि सृष्टि का स्वरूप ऐसा ऐसा संचर-प्रति-संचर, प्रसन्न प्रतिप्रसन्न, के आकार-प्रकार का है; क्योंकि परम आत्मा, परम पुरुष, की प्रकृति का रूप ही ऐसा है। बिना जड़ मूल तक, आखिरी तह तक, पहुँचे, बिना 'गोइङ् टु दी रूट अफ़ दी मैटर', बिना 'करणं कारणानां' के जाने, कुछ भी स्थिर रूप से जाना नहीं जाता, निश्चित नहीं होता। किसी एक भी जुड़न का मकसद जानने के लिये कुछ का मतलब जानना लज्जिमी है; ऐसे ही कुछ का मतलब समझने के लिये हर एक जुड़न का मकसद जानना ज़रूरी है।^३

निष्कर्ष यह है कि दर्शन शास्त्र, आत्मविद्या, अध्यात्मविद्या, आन्वीक्षिकी, सब शास्त्रों का शास्त्र, सब विद्याओं का प्रदीप, सब व्यावहारिक संस्कारों का भी उग्राय, दुष्कर्मों का अपाय, और नैष्कर्म्य अर्थान् अकर्म-प्रेप्सु कर्म का साधक, और इसी कारण से सब सद्धर्मों का आश्रय, और अंततः समूल दुःख से मोक्ष देने वाली है; क्योंकि सब पदार्थों के मूल हेतु को, आत्मा के स्वभाव को, पुरुष की प्रकृति को, बताती है, और

१ Stage of evolution. २ Going to the root of the matter.

इस पृष्ठ पर सूचित विषयों का विस्तार अंग्रेज़ी भाषा में लिखे मेरे ग्रंथों में किया है; विशेष कर, The Science of Peace, The Science of the Emotions, The Science of Social Organisation में; संक्षेप से, हिन्दी भाषा में लिखे 'समन्वय' में, तथा अंग्रेज़ी में The Science of the Self में।

आत्मा का, जीवात्मा का, परमात्मा का, तथा दोनो की एकता का, तौहीद का, दर्शन कराती है ।

**प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणां,
आश्रयः सर्वधर्माणां, शब्द आन्वीक्षिकी मता ।
ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव, विश्वस्य कर्त्ता, भुवनस्य गोप्ता,
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिग्राम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।**

दे विद्ये वेदितव्ये, परा चैव अपरा च । तत्र ऽपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः
सामवेदो ऽथर्ववेदः शिक्षा क्लरो व्वाकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति ।
अथ परा यया तद्अक्षरमधिगम्यते । (यस्मिन्) विज्ञाते सर्वमिद
विज्ञातं भवति । (मुंडक-उपनिषत्)

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेद उभयं स ह
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा, विद्ययाऽमृतम् अश्नुते । (ईश)
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थम् अनुपश्यति,
तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।
नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां, परंतप !,
एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया,
प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ !, नास्त्यंतो विस्तरस्य मे । (गीता)

आत्मा और अनात्मा और उन के (निषेधात्मक, ‘न इति’, ‘न इति’)
सम्बन्ध के सम्यग्दर्शन से, सम्यक्ज्ञान से, ही, चारो पुरुषार्थ उचित रीति से सम्पन्न
हो सकते हैं । धर्म-अर्थ-काम, तीन पुरुषार्थ सांसारिक प्रवृत्ति मार्ग के; मोक्ष, परम
पुरुषार्थ, संसारातीत निवृत्ति मार्ग का । ऋषिऋण-पितृऋण-देवऋण, तीन ऋणो को,
क्रमशः तीन आश्रमो मे, ब्रह्मचर्य-गार्हस्थ्य-वानप्रस्थ्य मे, अध्ययन-अपत्य-गलन-दान-
यजन के द्वारा चुका कर, और साथ साथ धर्म-अर्थ-काम को साध कर, चौथे आश्रम,
संन्यास, मे, माक्ष को सिद्ध करै । अन्यथा, बिना ऋण चुकाये, मोक्ष की इच्छा करने
से, अधिक बधन मे पड़ता है; ऊपर उठने के स्थान मे नीचे गिरता है । चौथे आश्रम
मे आत्मा की सर्वव्यापकता ठीक ठीक पहिचानी जाती है । ऐसे सम्यग्दर्शन से सब
स्वार्थी वासना और कर्म क्षीण हो जाते हैं, और मनुष्य, आत्मा को सब मे, और
सब को आत्मा मे, पहिचान कर, सच्चे स्वाराज्य को पाता है ।

**ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्;
अनपाकृत्य तान्येव, मोक्षमिच्छन् ब्रजत्यधः ।**

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामशकृतात्मभिः,
 ध्यानयोगेन सम्पश्येद् गतिम् अस्य अंतरात्मनः ।
 विप्रयोगं प्रियैश्चैव, संयोगं तथा ऽप्रियैः,
 चित्तं ये च गतिं सूक्ष्मामात्मनः सर्वदेहिषु ।
 सभ्यदर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते;
 दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ।
 सर्वभूतेषु चात्मानं; सर्वभूतानि चात्मनि;
 समं सपयन्नात्मया जी स्वाराज्यमधिगच्छति । (म १)

तीसरा अध्याय

दर्शन की सामाजिक विश्वजनीनता

सांसारिक-दुःख-बाधन और सांसारिक-सुख-साधन

(कम्युनिस्ट) साम्यवाद और (साइको-आनालिटिक)

कामीयतावाद का अध्यात्मवाद से परिमार्जन

यह पहिले कहा जा चुका है कि वेदांत शास्त्र, खाली और बेकार वक्त का खेल नहीं है; केवल विरक्त सन्यासी, त्यागी, तारिकुद्दुनियाँ, गोशा नशीन, फकीर ही हे काम की चीज नहीं है; केवल ब्रह्मनंद का, लज्जतुल इलाहिया का, ही साधक नहीं है; बल्कि दुनियावी मामिलात मे भी निहायत ज़हरी मदद देता है; दुनिया प्रीर आक्रवत, इहलोक और परलोग, दोनो के बनाने का उपाय बतलाता है ; इन्सान की मानस और शारीर (रूहानी और जिस्मानी) जिन्दगी की सब तकलीफों को दूर करने, सब मुनासिब आरामो को हासिल करने, सब मामलों को हल करने, सब प्रश्नो का उत्तर देने का रास्ता दिखाता है ।

इस मजमून (विषय) पर तफसील (विस्तार) से लिखने का मौक़ा (अवसर) यहाँ नहीं है । थोड़े मे सिर्फ़ इशारा (सूचना) कर देना काफ़ी (पर्याप्त) होगा ।

पुरुष अर्थात् जीवात्मा-परमात्मा की प्रकृते, (इन्सान, यानी रूह-और रूहुल्-इह, की फ़ितरत), मे तीन गुण (सिक़त) हैं—सरस्व, रजस्, तमस् (इल्म, मुज्द, शुहूद) । इन्हीं के रूपांतर नामांतर (दूसरी शक़ल और नाम) ज्ञान-केश-इच्छा (इल्म फ़ौल-ख़वाहिश) हैं । इन तीन से तीन फ़ितरतें (प्रकृतियाँ) भादमियों मे देख पड़ती हैं, और एक चौथी फ़ितरत वह जिस मे तीन मे से कोई एक फ़ितरत ख़ास तौर से नुमाया (विकसित, व्यक्त) नहीं हुई है । इन चार इन्सानी क़स्मो, तबीयतों, की बिना (नीवी, बुनियाद) पर चार गुणो, पेशों, की व्यवस्था तन्ज़ीम) भारतवर्ष मे की गई । जैसा गीत मे कहा है,

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः;

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ।

इन चार वर्णों के नाम, संस्कृत मे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र कहते हैं। ब्रह्म, वेद, ज्ञान, का धारण करने वाला, ज्ञानप्रधान जीव, ब्राह्मण; क्षत से, चोट से, दुर्बलों का त्राण, रक्षा, करने वाला, क्रियाप्रधान जीव, क्षत्रिय; विशति भूमि, विशः च धारयति, भूमि की खेती करने कराने वाला और धन का रखने वाला, इच्छा-प्रधान जीव, वैश्य; आशु द्रवति, बड़ों की आज्ञा से, दौड़ कर दुरत काम कर देने वाला, अव्यक्तबुद्धि जीव, शूद्र। स्यात् अच्छा हो कि नये नामों का अधिक प्रयोग किया जाय, यथा, ज्ञानी, शूद्र, दानी, सहायक; ज्ञाता, त्राता, दाता, सहेता; शिक्षक, रक्षक, पोषक, सेवक; शास्त्री, शस्त्री, धनी, श्रमी; या ऐसे हो कोई और अर्थपूर्ण (मानिदार) नाम, प्रत्येक मनुष्य की विशेष प्रकृति के द्योतक (जाहिर करने वाले) अरबी फ़ारसी मे, आलिम, आमिल, ताजिर, मजदूर, या हकीम, हाकिम, मालदार, मिहनत-कश, वगैरह। नये नामों की इस लिये ज़रूरत है कि, पुराने नाम निहायत बः मानी (अर्थ-गर्भ) होते हुए भी, अब बेमानी (अर्थ-शून्य), बल्कि बदमानी (अनर्थ-पूर्ण), हो रहे हैं। चारों तरफ़ जीर्णोद्धार और नवीकरण (मरम्मत व तजद्दुद) की ज़रूरत है।

ऐसे ही, मनुष्य की आयु (उमर) के चार विभाग (हिस्से) निसर्गतः (कुद्रतन्) हांते हैं। पहिले मे, अपनी योग्यता (लियाकत) के अनुसार (मुताबिक) ज्ञान और सदाचार (इल्म व तहज़ीब) सीखना चाहिए। तन और मन को बलवान् मजबूत बनाना चाहिए। दूसरे मे, गृहस्थी (खाना-दारी) और रोज़गार (जीविका कर्म) करना चाहिए। तीसरे मे, रोज़गार से कनारा-कशी और बिला मुआविज़ा, बेग़रज (निष्काम, बिना फलाकांक्षा), खिदमते ख़ल्क (लोकसेवा) करना चाहिए; अन्तकाल तक हिस्सी, लोनी बना रहना नहीं चाहिए। चौथे मे, जब जिस्म और दमाग़ दोनों बहुत थकें, तब सर्वथा (बिल्कुल) संन्यासी फ़कीर हो कर परमात्मा के ध्यान मे, सब का भला मनाने मे, और केवल शारीर कर्म मे (ऐन जुहुरी जिस्मानी हाजात के रफ़ा मे) सारा समय बिताना चाहिए, जब तक शरीर के बन्धन (असीरी) से मोक्ष (नजात) न पावै। इस व्यवस्था (नज़म) को चतुराश्रम-व्यवस्था कहते हैं।

इन चार वर्णों और चार आश्रमों मे, सब मनुष्यों के सब कर्म-धर्म, अधिकार-कर्तव्य, हुकूक़ फ़ायज़, काम दाम, मिहनत-आराम, अध्यात्म विद्या (इल्म रूह) के सिद्धांत (उसूल) के अनुसार (मुताबिक) प्राचीन समय मे, भारत (हिन्दु-

१ 'मानव-धर्म-सारः' नाम की, संस्कृत श्लोकों मे लिखी, मेरी पुस्तक मे इस विषय पर विस्तार से लिखा गया है।

स्तान) में, बाँट दिये गए थे । और ऐसा कर देने से वह सब प्रश्न (सवाल, मसले) शिक्षा, रक्षा, भिक्षा (तालीम, तहफफुज, तआम) के सम्बन्ध (तअल्लुक) में, उत्तीर्ण (हल) हो जाते थे, जो आज सारे मानव संसार (इन्सानी दुनियाँ) को ब्याकुल और उद्विग्न कर रहे हैं; और सिर्फ़ इस वजह (हेतु) से हैरान व परीशान कर रहे हैं कि अध्यात्म विद्या के उन सिद्धान्तों को विद्वानों और शासकों ने, हकीमों और हाकिमों ने, शास्त्रियों और शास्त्रियो ने, आलिमों और आमिलों ने, भुला दिया है, और उन से काम नहीं लेते, बल्कि दुनियावी हिर्ष व तमा के खुद गुलाम हो कर उन उसूल के खिलाफ़ काम करते हैं, और अनाम (साधारण जनता) को भारी ईजा और नुक़सान (पीडा और हानि) पहुँचा रहे हैं, और उन को अपना गुलाम बना रहे हैं ।

आजकाल पश्चिम (मग़्रिब) में दो विचारधाराओं (खयाल के दरियाओं) का प्रवाह (बहाव) बहुत बलवान् (जोरदार) हो रहा है, इस लिये उन की चर्चा (जिक) यहाँ कर देना, और उन की कमी बेशी, गुण-दोष, ऐब-व-हुनर, नुक़स-व-ख़ूबी, की जाँच, सरसरी तौर पर (आयाततः), वदांत की दृष्टि (निगाह) से कर देना, मुनासिब (उचित) जान पड़ता है । एक खयाल का सिलसिला, मार्क्स और उन के अनुयायियों का है, जिस को सोशलिज़्म-कम्युनिज़्म, समाजवाद-साम्य-वाद कहते हैं, और जिस में अवांतर मतभेद बहुत है; दूसरी विचारधारा, फ़्राइड और उन के पैरवों की है, जिस को सैको-आनालिसिस कहते हैं, जिस में भी जिम्नी इख्तिलाफ़ात बहुत हैं । इन दोनों की ओर जनता की प्रवृत्ति (रुझान) इस लिये है, कि मार्क्स आदि के विचार यह आशा दिलाते हैं कि, यदि इस प्रकार से समाज का प्रबन्ध (बन्दोबस्त) किया जाय तो सब आदमियों को आवश्यक अन्न वस्त्र और परिग्रह (ज़रूरी खाना कपड़ा व माल-मत्ता) गार्हस्थ्य जीवन और रोज़गारी काम मिल सकता है ; और फ़्राइड वगैरह के खयाल यह उम्मीद दिलाते हैं कि अगर ये तरीक़े बरतें जायें, तो दाम्पत्य-सम्बन्धी, मैथुन्य-विषयक, कामीय (शहवत या इस्क के मुतअल्लिक) इच्छा के व्याघात (रुवाहिशों की शिकस्त) से जो दुःख और रोग पैदा होते हैं वह पैदा न हों, या दूर हो जायें, या कम से कम हल्के हो जायें । 'साइको-आनालिसिस' शब्द का, व्युत्पत्ति से अर्थ, यौगिक अर्थ, धात्वर्थ (मसदरी मानी) तौ 'चित्त-वृत्ति-विवेचन' (इम्तियाज़ि-हरक़ाति-तबअ) है । पर इस के उपज्ञाता (मूजिद) फ़्राइड ने जो रूप इस को दिया है, जैसा ऊपर कहा, उस के विचार (लिहाज़) से, 'कामीयवाद' शब्द भी इस के लिये, हिन्दुस्तानी भाषा में, अनुचित (गैर मौजू) न होगा ।

स्पष्ट (ज़ाहिर) है कि आदमी की तीन एषणा, वासना, तृष्णा (हिर्स, तमअ)

मुख्य (खास, अन्न) हैं, लोकैषणा वा आहारेच्छा, वित्तैषणा वा धनेच्छा, दार-सुतैषणा वा रतीच्छा, (ज़मीन की ख्वाहिश, जिस से गिज़ा हासिल होती है, ज़र की, ज़न की) । इन्सानी जिन्दगी की जितनी कठिनाइयाँ (मुश्कलें) हैं, वह सब इन्हीं तीन के सम्बन्ध में पैदा होती हैं । गूहन, गोपन, छिपाव, रहस्य (पोशीदगी, एखुफा, राज़दारी, 'सीक्रीटिव्नेस्') इन्हीं के सम्बन्ध में होता है । इन को सहल (सरल) करने का उपाय जो बतावै, उस की ओर खामख्वाह लोग झुकेंगे ।

लेकिन इन दोनों दलों (तबकों) ने ऊपर कही इन्सान की चार फ़ित्तरतों और इत्सो को नहीं जाना माना है ; अपने अपने 'स्कीम', 'सिस्टेम', नज़म, व्यवस्था में उन का लिहाज़ नहीं किया है ; न जिन्दगी के चार हिस्सों से ही काम लिया है ; इस का नतीजा यह हुआ कि दोनों में से हर एक के अन्दर बहुत विवाद, तनाज़ा, खद्दा हो गया है ; और दोनों के दो मूजिदों ने, उपज्ञाताओं ने, यानी मार्क्स और फ़्राइड ने, जो उम्मीदें बाँधी थीं वह पूरी नहीं हो रही हैं । प्रत्युत (बर अक्स) इस के, भारत में हज़ारों वर्षों से चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य की व्यवस्था चली आ रही है, क्योंकि इन के आध्यात्मिक सिद्धांतों की नीवी पर अब भी कुछ न कुछ ध्यान बना है, यद्यपि (अगरचि) वह ध्यान बहुत अस्त व्यस्त (मुन्तशिर) हो गया है, और इस हेतु (वजह) से भारी दोष, दुर्दशा, परवशता (सुन्नस, फ़ज़ीहत, गुलामी) यहाँ उत्पन्न हो गई हैं । यदि उन सिद्धान्तों पर उचित रीति से ध्यान दिया जाय, और सात्त्विक राजस-तामस प्रकृतियों के भेद (तम्रीक तमीज़) के अनुसार, तीन प्रकार के आहार (गिज़ा) का (जो गीता में कहे हैं), चार तरह की जीविकाओं (मआशों) का (जो मनुस्मृति में कही हैं), तथा आठ प्रकार के विवाहों (निकाहों, इज़दिवजों) का (जो भी मनुस्मृति में कहे हैं), प्रबन्ध किया जाय, और विशेष दशाओं (खास सर्तों) में, कामशास्त्र में, और आयुर्वेद में (जो भी वेद के अंग हैं) कहे हुए उपायों से काम लिया जाय, तो अन्न वन्न सम्बन्धी, परिग्रह सम्बन्धी, तथा कामवासना सम्बन्धी, सभी क्लेशों (दिक्कतों) की चिकित्सा (इलाज) ठीक ठीक जहाँ तक मनुष्य का वश (इन्सान का क़ाबू) चल सकता है, हो जाय ।^१

फ्राइड आदि का शुरू में कहना था कि, नाड़ी सम्प्रदाय (नर्वस सिस्टेम) के बहुतरे बिकार (न्यूरोसिस) किसी न किसी प्रकार के काम-सन्ताप से उत्पन्न होते

१ इन विषयों पर, संस्कृत 'मानव-धर्म-सारः' में, तथा कई अंग्रेज़ी ग्रन्थों में, विस्तार से लिखने का प्रयत्न मैं ने किया है ।

हैं ; रोगी उस कारण (सबब) को अपनी संज्ञा (होश, 'कान्शासनेस') से दबा, हटा, भुला देता है, क्योंकि उन की स्मृति (याद) पीड़ा-जनक (तकलीफ़दिह) होती है ; बीमारी के कारण को कुछ दूसरा ही समझने मानने लगता है, पर यदि चिकित्सक (तबीब) भिन्न भाव से, बरस दो बरस तक उस से रोज़ाना बात करता रहै, पारस्परिक श्रद्धा और स्नेह (बाहमी एतबार व मुहब्बत)^१ उत्पन्न (पैदा)

१ इस सम्बन्ध मे 'साइको आनालिसिस' के शास्त्रियों ने transference, संक्रमण, और perfect candour, पूर्ण प्रख्यापन, (सब बात, खुल के, बिना छिपाये कह देना) perfect trust, पूर्ण विश्वास, शब्दों का प्रयोग किया है ।

"In the course of analytical treatment...the patient unconsciously transmits, to the analyst-physican, the emotions he has felt in times past for this or that person. The analyst becomes in turn the father, the sister, the lover, the nurse ; and on the him is projected the patient's corresponding mood of rebellion, irritation, unsatisfied desire, jealousy, child-like dependence and the like. This is the transference, to the analyst, of unsatisfied emotion left over from some earlier experience ; and present-day methods of analysis are largely concerned with analysing and making conscious the transference itself"; Coster, *Yoga and Western Psychology*, p. 60; see also Freud, *An Autobiographical Study*, p. 75, and *Introductory Lectures or Psycho-analysis*, pp. 360, 374.

चित्त-वृत्ति विवेचक, मनोविश्लेषक, (गवेषक, परीक्षक) चिकित्सा के दौरान (प्रवाह) मे, रोगी, अपने उन भावों (संवेगों, आवेगों, संरभों, आवेशों, क्षोभों) का, जो उस के चित्त मे, किसी अन्य पुरुष वा स्त्री के सम्बन्ध मे उठे रहे हों (और अब दबा दिये गये हैं), चिकित्सक की ओर संक्रमण प्रवाहण कर देता है ; और अबुद्धि पूर्वक करता है ; अर्थात् उस को यह ज्ञान, यह बोध, यह समझ, नहीं होती, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ । चिकित्सक ही को वह पिता, या बहिन, या वल्लभ, या धाय, के रूप मे पारी पारी से देखता है, और उस के ही ऊपर, विद्रोह, वा चिढ़चिढ़ाहट, अतृप्त कामना, ईर्ष्या, बालकवत् परार्थीनता व दीनता, आदि के भाव निकालता है । पूर्वानुभूत , किन्तु अतृप्त, वासनाओं, आवेशों, का, अपने उचित स्वाभाविक विषयों से हट कर,

करें, और विविध रीतियों (खास तरीकों) से (जिस 'टेक्नीक' को फ्राइड ने ईजाद किया है) उस भूली दबी स्मृति को फिर से उद्बुद्ध करें, जगावें

दूसरे पर, अर्थात् चिकित्सक पर प्रवाहण, यह है। और, आज काल, 'चित्त चिकित्सकों' की प्रक्रिया का मुख्य अंश यही है कि इन सभी बासनाओं को उभार, जगावें, बाहर लाव, और तब रोगी को समझा कर उस से स्मरण करावें, कि किस अवसर पर किस के सम्बन्ध में, उस के चित्त में वह भाव उदित हुआ था, और उस की तृप्ति नहीं हुई इसी से उस ने अपना अस्ली रूप छिपा कर रोग का रूपा धारण कर लिया। ऐसा ज्ञान अपनी चित्त-वृत्ति का आत्मज्ञान, हो जाते ही, होश आ जाते ही, रोग दूर हो जाता है।

गुरु-शिष्य भाव में ये सब भाव अन्तर्गत हैं। इस भाव के गुण भी और दोष भी जानकारों को मालूम हैं।

प्रायशो गुरवो, लोके, शिष्य-चित्तऽपहारकाः ;

विरलाः गुरुवरते ये शिष्य-सन्ताप-हारकाः ।

फारसी में भी कहा है,

चूँ बसा इब्लीस् आदमू रूय अस्त,

पस ब हर दस्ते न बायद् दाद दस्त ।

सथा, त्वमेव माता च, पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च, सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या, द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव ।

प्रायः अब इसी हेतु से, 'साइको-आनालिसिस' के सभी अर्वांतर भेदों के विश्वासी और प्रकारों के अभ्यासी, समझने और कहने लग गये हैं कि psycho-analytic treatment at its best is a process of re-education, मानस-चिकित्सा का उत्तम रूप 'पुनः संस्कार' है, जिस से रोगी का चित्त मानो नया हो जाता है, 'प्रणवी-भवति', उस की दृष्टि नई हो जाती है, और इस लिए सारी दुनिया उस के लिये नई हो जाती है। इस प्रकार का द्वितीय जन्म, जीर्ण शीर्ण का परा काष्ठा का प्रणवी-करण, विषादी का प्रसादी-करण, मर्त्य का अमर-करण, अ-स्व-स्थ पर-स्थ का स्व-स्थ करण, परवश का आत्मवश-करण, जीवात्मा का परमात्मा करण, सच्चे ब्यालु सद्गुरु के द्वारा सच्चे धृद्बालु सच्चिष्य के चित्त के 'पुनः संस्करण' से ही होता है। तभी 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा', यह बात सत्य होती है।

असम्प्रज्ञातावस्था (बेहोशी, ला-मालूम, की हालत) से सम्प्रज्ञातावस्था (होश, मालूम की हालत) में लावै, और उस छिपी कामवासना (शहवत) की पूर्ति, शब्दों के द्वारा वर्णन कर देने से ही, करा दे, तो वह रोग भिट जाता है । लेकिन अब 'न्युरोसिस' की इस प्रकार की चिकित्सा (इलाज) करने वाले को अनुभव (तन्नवा) अधिकाधिक (ज़्यादा ज़्यादा) होता जाता है कि ऐसी चिकित्सा में कई बड़े अपरिहार्य दोष (लाइलाज खराबियाँ) हैं ; जो अपनी या दूसरे की, उत्पन्न कामवासना (नाजायज़ शहवत) और उस की वजह से अपने को पहुँची हुई तकलीफ़, सद्मा, शर्म, समाज के भय से, या किसी दूसरे हेतु से, दबाई और भुलाई गई थी, वह जब चिकित्सा की सहायता, (मदद) से निर्भय (बेखौफ़) हो कर जागी, तब मनुष्य को, स्त्री वा पुरुष को उच्छृङ्खल बना कर, समाज विरोधी कुत्सित मार्गों (जमाअत के मुखालिफ़ मातृब राहों) में ले जाती है, यद्यपि वह विशेष 'न्युरोसिस' रोग दूर हो जाता है ; और यदि उन कुत्सित मार्गों में, समाज के भय से, या अन्य हेतु से, मनुष्य न जा सका, और वाशना को उन मार्गों से तृप्त न कर सका, न उस के भीतर खुद इतना आत्मबल (रूहानी क़वत) और धर्म-भाव (अक़ले सलीम, नेक-नीयत) उत्पन्न हुआ, कि वह आप ही उस दुर्वासना को चित्त से वृद्धिपूर्वक दूर कर दे ; तो अन्य घोर विकार उत्पन्न होते हैं—इत्यादि ।

फ़ाइल आदि की गवेषणा (तफ़तीश) और लेखों से, निश्चयेन (यक्तीनन्), बहुत सी ऐसी बातों की मालूमात (ज्ञान) साम्प्रत काल (इस जमाने) में पुनर्नव (ताज़ा) हुई, और जनता (अवाम) में बढ़ी और फैली, जिन पर पहिले बहुत कुछ पर्दा डाला रहता था, और जो मालूमात थोड़े से अनुभवियों (तन्नवाकारों), शास्त्रियों (आलिमों), और वैयों, मुआलिजों, को, दर-पर्दा (गोपनीय भाव से) रहस्य (राज़) के तौर पर, पुस्तक दर पुस्तक, प्रायः (अक्सर) विदित (मालूम) हुआ करती थी, और वह भी असम्बद्ध रूप (बे-सिलसिला, ला-नज़म, शक़) से । इस प्रकार के ज्ञान के पूर्वापर सम्बद्ध (मुसल्सल) शास्त्र के रूप में प्रसार होने से, निश्चयेन कुछ लाभ (फ़ायदा) है । पर शास्त्र सम्पूर्ण नहीं, सर्वांगशुद्ध सर्वांग-सम्पन्न (सहीह व मुकम्मल) नहीं, शास्त्राभास (नक़ली इल्म) की ही अवस्था (हालत) में है, तब उस से अगर कुछ लाभ है तो हानि (नुक़सान) का भी भय (खौफ़) है ।

ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रंजयति ।

नीम हकीम, खतरइ जान

फ़ाइड आदि के त्रिचारों में जो कुछ तथ्य (सचाई) का अंश (जुड़व) है, वह अध्यात्म विद्या और योग शास्त्र के भूले हुए कुछ अंशों का पुनरुज्जीवन है; उस से कई सांकेतिक शब्दों, सूत्रों, वाक्यों, और श्लोकों का अर्थ उजागर (रौशन) होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है; बल्कि यह भी कह सकते हैं कि उन में नये नये अर्थ देख पड़ने लगते हैं; इस लिये उस का विवेक पूर्वक स्वागत उचित है । तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये उस का तार्किक और पूर्ण रूप सब आत्मविद्या से ही मिल सकता है । काम वासना के विप्रलम्भ से दस दशा जो उत्पन्न होती हैं, जिन में सम्प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, और मरण तक शामिल हैं, उन की चर्चा साहित्य शास्त्र में (जो भी समग्र वेद का अंग है) की है । भर्तृहरि ने भी कहा है,

ते कामेन निहत्य निर्दयतरं नगनीकृताः, मुण्डिताः,
केचित् पंचशिखीकृताश्च, जटिलाः, कापालिकाश्चापरे ।

कामदेव की निर्दय मार से घायल (जख्मी), बेचारे, तरह तरह के फ़कीरी पन्थों में शामिल हो कर, कोई तो नग्न (बरहना) फिरते हैं, कोई सिर मुंडाये रहते हैं, कोई पाँच शिखा रख लेते हैं, कोई जटा बढ़ा लेते हैं, कोई कपाल लिये फिरते हैं; यह सब निशान कामदेव की मार के ही है ।

स्वयं वेद का वाक्य है—‘काममय एवायं पुरुषः’ । फ़ाइड आदि ने जो सामग्री बड़े परिश्रम से एकत्र की है, उन से, ऐसी प्राचीन उक्तियों के कई अंशों की अच्छी ब्याख्या होती है । पर सब अंशों का, और गंभीर तत्त्व का, उन को पता नहीं है । स्त्री-पुरुष का भेद ही क्यों है, इस का अन्वेषण उन्होंने नहीं किया । काम (इस्क, शहवत) का तत्त्व क्या है; काम का रूप एक ही है, या कई, और कौन मुख्य रूप हैं, और क्यों; इस का निर्णय उन्होंने नहीं किया । किसी रोगी पुरुष वा स्त्री के चित्त में लुप्त स्मृति के जगाने का फल अच्छा, किसी में बुरा, क्यों होता है; एक ही प्रकार के काम के व्याघात से, भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार के रोग क्यों होते

१ Absent-minded and aberrant talk ; lunacy, hysteria, delusions, hallucinations, illusions ; physical diseases of various sorts ; swoon, syncope, paralysis ; death. ‘पुरुषार्थ’ नाम के मेरे हिन्दी ग्रन्थ के ‘कामाध्यात्म’ नामक चतुर्थ अध्याय में इन सब विषयों पर बहुत विस्तार से विचार किया है ।

है; भिन्न प्रकृतियाँ क्यों हैं, और कै हैं; इन बातों को नहीं निश्चय किया। विस्मृति से विशेष प्रकार के रोग क्यों होते हैं, स्मृति से क्यों अच्छे हो जाते हैं, इस का तत्त्व नहीं पहिचाना। यह सब तत्त्व आत्मविद्या से विदित होता है^२।

मूल विस्मृति (फ़रामोशी) यह है कि आत्मा अपने को भूल जाय; परमात्मा अपने को शरीर मे बद्ध जीवात्मा समझने लगे; यह भूल ही, यह अविद्या, अज्ञान, ही, काम, वासना, तृष्णा, अस्मिता, का बीज है। उस अस्मिता (खुदी) के तीन क्रम (दर्जे) हैं; अहं स्याम् (लौकैषणा, 'मैं बना रहूँ,') अहं बहु स्याम् (विर्त्तैषणा, 'मैं बहुत बड़ा होऊँ'), अहं बहुधा स्याम् (दार-सुतैषणा, 'मैं बहुतों पर प्रभाववान्, बहुरूपी होऊँ, धरने ऐसे बहुतों को पैदा करूँ, और वे मेरी भक्ति करें और आज्ञा मानें)। दार-सुतैषणा, मैथुन्य काम, यह काम की घोरतम अवस्था, परा काष्ठा, है।

सर्वेषां (सांसारिकाणां) आनन्दानां उपस्थ पवैकायनम्^३ ।

(बृहद् उपनिषद्)

जैसे आँसू सब दृश्य रूपों का केन्द्र है, वैसे ही प्रजनन इन्द्रिय सब सांसारिक आनन्दों का एकायन केन्द्र है। फ़ाइड ने इस तथ्य का आभास 'प्लेज़र-प्रिंसिपल'^४ के नाम से पाया और दिखाया है। पर,

यश्च अकामहृतः एष एव परम आनन्दः, एको द्रष्टा अद्वैतो भवति, एतस्यैव आनन्दस्य ऽन्यानि भूतानि मात्रां उपजीवन्ति । (बृहद् उपनिषद्)

इस 'अद्वैत' अहन्ता के, इस 'ल-तथीक,' 'ल-सानी,' खुदाई के, इस 'मा-सिवा अल्लाह' की, 'मेरे सिवा और कोई कुछ कहीं है ही नहीं', ल इन्तिहा खुदी के, परम आनन्द को, जिस का छाया मात्र सब द्वैतभाव की अस्मिता के आनन्द हैं, उन्होंने ने स्वप्न मे भी, दूर से भी, नहीं देखा; इस ओर ध्यान ही नहीं दिया।

२ इन बातों पर प्राचीन आत्मविद्या के विचार, मैं ने, अपने लिखे अन्य कई ग्रन्थों मे दिखाने का यत्न किया है। मार्क्स आदि की विचार-धारा की विशेष समीक्षा परीक्षा Ancient vs. Modern Scientific Socialism नामक ग्रन्थ मे की है। तथा फ़ाइड आदि को, Ancient Psycho-synthesis vs. Modern Psycho-analysis नाम की पुस्तक मे, जो अभी छपी नहीं है; इस विषय पर दिसम्बर १९३६ ई० मे, काशी मे, 'थियोसाफ़िकल सोसाइटी' के वार्षिक अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन मे दो व्याख्यान किये थे, जिन का संक्षेप, मासिक 'थियोसोफ़िस्ट' के तीन अंकों मे, १९३७ ई० मे छपा। उसी का उपबर्हण रूप, यह पुस्तक होगी।

जिस वस्तु को फ्राइड ने 'रियालिटी प्रिन्सिपल' ^१ का अति कृत्रिम (मस्नूई) और भ्रमावह (गलत) नाम दिया है, जिस से अर्थ प्रकट (मुनकशिफ) होने के बदले (एवज) छिप जाता है, उस के अस्ल को, तत्त्व को, उपनिषदों में 'भय' नाम से दिखाया कहा है। संसार द्रंद्रमय है, 'कुल्ले शयीन् जौजेन्' व जिदैन्, सब वस्तु परस्पर विरुद्ध जोड़ा-जोड़ा हैं; आनंद का विरोधी भय है; दोनो ही तुल्य रूप से 'रीयल', वास्तविक, हैं, या दोनो ही 'अनरीयल', मिथ्या, हैं ;

'तस्य भयाद्वायुर्वाति, तस्य भयात् सूर्यस्तपति',

एक तरफ; दूसरी तरफ ,

आनंदाद् होव जातानि जीवंति, आनन्दे प्रयन्त्यभिसंविशन्ति;

उसी के खौफ़ से हवा चलती रहती है, और सूरज तपता रहता है, ओर उसी के 'सुरूरे जावेदानी, 'शादमानी', 'मस्ती', आनन्द से सब आलम, सब रूहें, सब जानै, पैदा होती हैं, और उसी में जा सोती हैं। दोनो की, खौफ और मसरत की, भय और आनंद की, दवामी तहरीक (सतत प्रेरणा) से संसार चक्र (चर्खि दहर) घूम रहा है।

इस चक्र के दुःख से आदमी छुटकारा चाहै तो उस को इस के मुख के भी छोड़ देने पर कमर बाँधना होगा, और यह याद करना पड़ेगा कि 'मैं तो हाड़ मांस नहीं', 'मैं आत्मविश्वास ही'।

विशेष प्रकार के नाड़ी रोग, न्यूरोसिस, खास किस्म की याद जगाने से दूर हो जाते हैं, यह ठीक है; लेकिन अक्सर नहीं भी होते, क्योंकि स्वादु (खुश-जायका) भोज्य पदार्थों (खाने काबिल चीजों) की याद करने से ही भूख नहीं मिटती; 'मन मोदक नहीं भूख बुताई', बल्कि कभी तो और जोर पकड़ती है; और बीमारी के फिर से उभरने का डर भी सर्वथा (कुल्लन्) नहीं मिटता। इस लिए जो मनुष्य 'स्मृति-लाभ' (याद की बाज-याबी) के गुणो (नफ़ों) को ठीक-ठीक जानना और अनुभव करना चाहै, दुःख के जड़ मूल का ऐकान्तिक आत्यंतिक (कतई व दवामी) नाश (दफ़ा, ईज़ाल) चाहै, उस को आत्मविद्या की ही शरण लेना (इल्म-रूह, इलाही-यात, तसब्बुफ़, पर ही तवक्कुल करना) पड़ेगा, और नीचे लिखे श्लोकों पर ध्यान देना होगा, जिन के ही अर्थ के व्याख्यान का अति दुर्बल प्रयत्न इस ग्रंथ में यहाँ तक किया गया है।

^१ Pleasure-Principle; Reality-Principle; Freud, *Introductory Lectures on Psycho Analysis*, p 299, (pub. 1933),

नष्टो मोहः, स्मृतिर्लब्धा^१, त्वत्प्रसादान्मया, ऽच्युत !,
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव । (गीता)
भिद्यते हृदयग्रंथिः^२, छिद्यते सर्वसंशयाः^३,
क्षीयंते च ऽस्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे । (मुंडकोपनिषत्)
यदा सर्वे प्रभिद्यंते हृदयस्येह ग्रंथयः^४,
यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामाः^५ येऽस्य हृदि श्रिताः,
अथ मर्त्योऽस्मृतो भवति, अत्र ब्रह्म समश्नुते । (कठोपनिषत्)
वासनाक्षय-विज्ञान-मनोनाशैः, महामते !,
विभेद्यंते, विराभ्यस्तैः, हृदयग्रथयो^६ दृढाः । (मुक्तिकोपनिषत्)
ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषूपजायते,
संगात्संजायते कामः, कामात्क्रोधो ऽभिजायते ।
क्रोधाद् भवति संमोहः^७, समोहात् स्मृतिविभ्रमः^८ ।
स्मृतिभ्रंशाद् "बुद्धिनाशो", बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ।
रागद्वेषवियुक्तैस्तु, विषयान् इन्द्रियैश्चरन्,
आत्मवश्यैः, अमेयात्मा, प्रसादं^९ अधिगच्छति ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्वतिष्ठते^{१०} । (गीता)
यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटाः^{११},
दुरधिगमोऽसतां हृदि गतो, ऽस्मृत^{१२} कंठमणिः ।
असुतृपयोगिनां उभयतोऽपि भयं, भगवन् !,
अनगतान्तकाद्, अनधिरूढपदाद् भवतः । (भागवत)
उद्धरेदात्मना ऽत्माना न ऽत्मानं अवसादयेत्^{१३};
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुः आत्मनः ।
आढ्योऽभिजनवान् आस्य कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया^{१४}
ईश्वरोऽहं^{१५} अहं भोगी—इत्यज्ञानविमोहिता
आत्मसंभाविताः^{१६}, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः,
प्रसक्ताः कामभोगेषु, पतंति नरकेऽशुचौ । (गीता)

१ Recovery of memory. २ Complexes. ३ Doubts. ४ Sub-conscious desires. ५ Delusions, hallucinations, illusions. ६ Confusion of memory. ७ Loss of understanding. ८ Placidity, lucidity. ९ Steady understanding. १० Forgotten, repressed, sub-conscious memory, ११ आत्मावसाद-ग्रंथिः, Inferiority complex. १२ आत्मसम्भावन-ग्रंथिः, Superiority complex, १३ Megalo-mania.

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः^{१५} । तस्मै मृदितकषायाय तमसस्फारं दर्शयति भगवान् सनत् कुमारः । ॐ ।

थोड़े में इन श्लोकों का आशय यह है । आत्मा की स्मृति ज्यों ज्यों उज्ज्वल होती है, त्यों त्यों मोह नष्ट होता है; सब सन्देह दूर हो जाते हैं ; हृदय में विरकाल से गँठी, अस्मिता, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या आदि की गांठें कट जाती हैं; मर्त्य मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात् निश्चय से जान जाता है कि मैं अमर हूँ, क्योंकि वस्तुतः अमर तो सदा से है, नई अमरता उस को नहीं मिलती, भूली हुई अमरता का केवल पुनः स्मरण हो जाता है । विशिष्ट उत्तम ज्ञान, और वासना का क्षय, और भेदभावात्मक मन का नाश—यह तीन साथ साथ चलते हैं, यही हृदय की गांठों का कटना, उलझनों का सुलझाव, है । विषयों का ध्यान करने से उन में आसक्ति, उस से काम, उस से क्रोध, उस से स्मृति का भ्रंश, उस से बुद्धिनाश, उस से आत्मनाश होता है । राग-द्वेष ज्यों ज्यों कम होते हैं, त्यों त्यों चित्त में प्रसाद होता है, बुद्धि स्थिर होती है, दुःख मिटते हैं । यतियों का परम कर्तव्य है कि काम-वासना की जटाओं को, हृदय की गांठों को, आत्म-विद्या के अभ्यास से काटें; आत्मा की स्मृति का, आत्मा के ज्ञान का, लाभ करें; सब प्रकार के भयों से, अन्तक यम के मृत्यु के भय से भी, स्वयं मुक्त हों और दूसरों को मुक्त करावें । आत्मा का अवसाद भी, आत्मा की अहंकारात्मक संभावना भी, दोनों ही पतन के हेतु हैं; दोनों से बचना चाहिये । आहार की शुद्धि से सत्त्व की शुद्धि, उस से स्मृति का लाभ, उस से सब हृदय की सब ग्रंथियों का मोक्षण होता है । तब राग-द्वेष से मुक्त जीव को भगवान् सनत् कुमार, जो परमात्मा की विभूति ही हैं, सब हृदयों में स्थित हैं, तमस् के परे आत्म-ज्योति का दर्शन कराते हैं ॥ ॐ ॥

१५ Solving, re-solving, dissolving, of complexes: loosening, untying, of heart-knots; 'Setting free of the soul'.

चौथा अध्याय

‘दर्शन’-शब्द; ‘दर्शन’-वस्तु; ‘दर्शन’-प्रयोग

ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्,
तत् त्वं, पूषन् !, अपावृणु, सत्यधर्माय ‘दृष्टये’ ॐ
(ईशोपनिषत्)

‘सोने के पात्र से सत्य का मुख ढँका है। हे पूषन् !, सब जगत् का पोषण करने वाले परमात्मन् !, अन्तरात्मन् ! उस ढरुने को हटाइये, कि सत्य अर्थात् ब्रह्म का, परमात्मा का, आप का, और सनातन ब्रह्म परमात्मा पर प्रतिष्ठित धर्म का, कर्त्तव्य का, आत्मज्ञानानुकूल, आत्मविद्यासम्मत, कर्त्तव्य धर्म का, दर्शन हम को हो !’

‘दर्शन’-शब्द

‘दर्शन’ शब्द का प्रयोग, प्रस्तुत अर्थ में, यथा ‘षड्दर्शन’, ‘सर्व-दर्शन-संग्रह’, कब से आरंभ हुआ, इस का निश्चय करना कठिन है। ईशोपनिषत् का जो श्लोक ऊपर उद्धृत किया है, उस में ‘दृष्टये’ शब्द आया है। प्रसिद्ध है कि ईशोपनिषत्, शुक्ल-यजुर्वेद संहिता का अंतिम, अर्थात् चालीसवाँ, अध्याय है। स्यात् ‘दृश्’ शब्द का इस अर्थ में प्रयोग यही पहिला हो।

‘दर्शन’ की शक्ति का लाभ करने के ‘रहस्य’ योगमार्गीय उपाय

इस औपनिषदी ऋचा का अर्थ ‘रहस्य’ है—ऐसा अभ्यासी विरक्तों से सुनने में आया है। ‘मुंडक’ उपनिषत् में कहा है कि, “शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णं”, जिन्होंने ‘शिरोव्रत’ का विधि से अभ्यास किया है वे ही सत्य-दर्शन, आत्म-दर्शन, ब्रह्म-दर्शन, तथा सनातन आत्मा पर प्रतिष्ठित सत्य सनातन धर्म का दर्शन, करने की शक्ति पाते हैं। ‘शिरोव्रत’ का वर्णन देवी भागवत के ग्यारहवें स्कंध में किया है। यम-नियमादि से शरीर और चित्त को पवित्र कर के, एक प्रकार के विशेष ध्यान

द्वारा, सिर के, मस्तिष्क के, भीतर वर्तमान 'चक्रों', 'पद्मों', 'पीठों', 'कन्दों' ('लता-यफ़ि सित्ता') का उज्जीवन, उत्तेजन, संचालन करने का अभ्यास करना—यह 'शिरोव्रत' जान पड़ता है। अंग्रेज़ी में इन 'कन्दों' ('ग्लैंडज़', 'प्लेक्सलेज़', 'गॉंग्लिया') को 'पिटुइटरी गांडी' 'पाइनीयल ग्लैंड', आदि के नाम से कहते हैं^१। 'पाइनीयल ग्लैंड' में कुछ पीले अणु रहते हैं; स्यात् इस लिये 'हिरण्य' कहा है; इस को संस्कृत में 'देवाक्ष' 'दिव्यचक्षु' 'तृतीय नेत्र' आदि भी कहते हैं^२। अपवित्र अशुद्ध मन और देह से अभ्यास करने से घोर आधि-व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं। वेदों के अन्य मन्त्र ऐसे 'रहस्यों' का इशारा करते हैं। यथा,

ऋत्रो अक्षरे परमे व्योमन् ; तस्मिन् देवा अधिविश्वे निपेदुः ;
यस्तन्न वेद किमुवा करिष्यति ? य इद्धि दुस्तत्त इमे समासते ।

शंकराचार्य ने इस का अर्थ श्वेताश्वरोपनिषत् के भाष्य में इतना ही किया है कि आकाश-सदृश अक्षर परम ब्रह्म में, सब देव आश्रित हो कर अधिष्ठित हैं; उस परमात्मा को जो नहीं जानता, वह ऋचाओं से क्या करेगा? जो उसे जानते हैं, वे ये ऋतार्थ हो कर बैठे हैं।' पर अभ्यासियों से सुनने में आया है कि 'व्योम' शब्द का अर्थ, ऐमे प्रसंगों में, प्रायः शिरःकपालांतर्गत आकाश होता है; तथा 'ऋचः' 'देवाः', आदि का अर्थ मस्तिष्क और पृष्ठवंश में स्थित विविध ज्ञान-कर्मेन्द्रियादि से सम्बन्ध रखने वाली विविध नाडियों और नाडिग्रंथियों, चक्रों, का होता है। इन के पोषण और उपोद्बलन से सूक्ष्म पदार्थों के 'दर्शन', दिव्य भावों के 'ज्ञान', की शक्ति बढ़ती है।

'दर्शन'-वस्तु

आत्म-'दर्शन', आत्म-'ज्ञान', ही भगवद्गीता के 'गुह्य' 'गुह्याद् गुह्यतर', 'गुह्यतम', 'परम गुह्य', 'सर्वगुह्यतम', 'शास्त्र' का, वेद वेदांत का, मुख्य इष्ट और अभिप्रेत है।

मां विधत्ते, ऽभिधत्ते मां, विकल्प्य ऽपोह्यते त्वहम् ;
पतावान् सर्ववेदार्थः ; शब्दः, आस्थाय मां, भिदाम्
मायामात्रमनूद्य, ऽन्ते प्रतिपिध्य, प्रसीदति । (भागवत)

१ Glands, plexuses, ganglia; pituitary body, pineal gland.

२ H. P. Blavatsky, *The Secret Doctrine*, (Adyar edn.) Vol 5, pp. 480, et seq., में इन चक्रों के विषय में, पाठकों को, यदि वे खोज करें, तो कुछ इशारें मिल सकते हैं।

‘मां’ अर्थात् आत्मा, परमात्मा, को ही, तरह तरह से कहना : ‘अहम्’ पदार्थ, ‘आत्मा’-पदार्थ, ‘परमात्मा’-पदार्थ, के विषय में, विविध प्रकार के (विकल्पो कृत्यासौ) को उठा कर उन का अपोहन, खडन, निरसन, प्रतिषेध, (इनक्रिता) करना ; ‘मां’ परमात्मा को ही, सब शब्दों से, तर्कों से, आस्थित, प्रतिष्ठित करना और सब भेदों को ‘मायामात्र’, धोखा, (जाल, फ़ित्ना), ही सिद्ध करना; यही समग्र वेद का, समस्त विद्या का, अर्थ है, उद्देश्य है. एकमात्र अभीष्ट लक्ष्य है ।

‘दर्शन’-शब्द का व्यवहार अन्य ग्रन्थों और अर्थों में

अग्नि उपनिषत्, ‘ईश’, में प्रयुक्त होने के बाद, अन्य उपनिषदों में बहुतायत से ‘दृश्’ धातु से बने शब्दों का, आत्म-दर्शन’ के अर्थ में, प्रयोग हुआ है । यथा,

‘आत्मा वा ऽरे ‘द्रष्टव्यः’ श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः’, ‘नऽन्यद् आत्मनोऽपश्यत्’, ‘आत्मन्येवात्मानं पश्यति, सर्वमात्मानं पश्यति’, ‘आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्’, ‘आत्मनो वाऽरे दर्शनेन सर्वं विदितम्’ (बृ०) ; ‘ब्रह्म ततं अपश्यत् (ऐ०) ; ‘यत्र नान्यत् पश्यति स भूमा’, ‘तमसः पारं दर्शयति’ (छां०) ‘अभेददर्शनं ज्ञानं’ (स्कं०) ; ‘यदा ऽत्मना ऽत्मानं पश्यति’, ‘ब्रह्म तमसः पारमपश्यत्’, ‘स्वे महिम्नि निष्ठमानं पश्यति’ (मैत्री०) ; ‘तस्मिन् दृष्टे परावरे’, ‘ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः’, ‘तं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः’ (कठ०) ; ‘दृश्यते त्वग्रथया बुद्ध्या’, ‘विनश्यत्स्वविनश्यतं पश्यति स पश्यति’ (गीता०); ‘आत्मानं पश्यावः’ (छा०) । इति प्रभृति ।

प्रसिद्ध छः ‘दर्शनों’ में, पतंजलि के रचे ‘योगसूत्रों’ पर, व्यास नामक विद्वान् के बनाये भाष्य में सांख्य के प्रवक्ता अति प्राचीन पंचशिखाचार्य के एक सूत्र का उद्धरण किया है, ‘एकमेव दर्शनम्, ख्यातिरेव दर्शनम्’ । इस सूत्र का अर्थ अन्य प्रकारों से पुराने टीकाकारों ने किया है ; स्यात् यों करना भी अनुचित न हो कि ‘पुरुष और प्रकृति की विवेक ख्याति, प्रकृति-पुरुष-ऽन्यता ख्याति, आत्मा और अनात्मा, अहम् और इदम् (वा एतन्) की परम्पर अन्यता को ख्याति अर्थात् ज्ञान—यही एकमात्र सच्चा अन्तिम ज्ञान है ।’

प्रचलित 'मनुस्मृति' नामक ग्रंथ में भी, जो यद्यपि मूल 'वृद्धमनु' नहीं कहा जा सकता तो भी बहुत प्राचीन है, 'दर्शन' शब्द आत्मज्ञान के ही अर्थ में मिलता है । यथा,

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः
 अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् ।
 सर्वेषामपि चैतेपात्मज्ञानं परं स्मृतम्,
 तद्द्वयग्रथं सर्वविद्यानां, प्राप्यते ह्यमृतं ततः ।
 सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्म निबध्यते ;
 दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ।

सब धर्मों, कर्मों, विद्याओं से बढ़ कर आत्मज्ञान, सम्यग्दर्शन, है ; उस से अमरता, दुःखों से मुक्ति, मिलती है । याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसी अर्थ का अनुवाद किया है ।

इज्या-ऽाचार-दम-ऽहिंसा-दान-स्वाध्याय-कर्मणाम्
 अयं तु परमो धर्मो यद्योगेन ऽत्मदर्शनम् ।

योग कर के आत्मा का दर्शन करना, अपने सच्चे स्वरूप को पहिचानना (प्रत्यभिज्ञान करना) — यही परम धर्म है ।

बुद्धदेव के कहे हुए आर्य मार्ग के आठ 'सम्यक्' अंगों में 'सम्यग्-दृष्टि' सब से पहिले है । जैन सम्प्रदाय के 'तत्त्वाधिगम-सूत्र' का पहिला सूत्र 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः' है । इस को उमास्वाती (वा स्वामी) ने प्रायः सत्रह अठारह सौ वर्ष पूर्व रचा ।

आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, ही मुख्य दर्शन है । मानव जाति के वर्तमान युग में, ज्ञानेन्द्रियों में सब से अधिक बलवान् और उपयोगी 'अक्षि' 'चक्षु', 'नेत्र' 'नयन' हो रहा है । 'देख' लेना ही ज्ञान का सब से अधिक विशद विस्पष्ट प्रकार माना जाता है ; 'जो सुनते थे सो देख लिया', 'श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः', ऐसे सच्चे विद्वान् जो 'सुनी बात को प्रति-अक्ष, आँख के सामने, कर दिखावें । सूफ़ी लोग भी फ़ारसी भाषा में, आत्म-दर्शन को 'दीदार' कहते हैं । अंग्रजी 'मिस्टिक' लोग भी उस को 'डिज्जिन आक गाड' कहते हैं । आँख ही मनुष्य को रास्ता दिखाती है, उस को ले चलती है, 'नेता' 'नायक' का काम करती है, इस लिए 'नेत्र' 'नयन' कहलाती है ।

‘वाद’, ‘मत’, ‘बुद्धि’, ‘दृष्टि’ ‘राय’

विचार की शैली, विचार का प्रकार, मत, ‘वाद’, के अर्थ में गीता में ‘दृष्टि’ शब्द मिलता है ।

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरं ;
अपरस्परसंभूतं , किमन्यत् कामहैतुकम् ।
एतां ‘दृष्टिं’ अवष्टभ्य, नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो ऽहिताः ।

बुद्धि थोड़ी ; राग-द्वेष (खरम-शहत) बहुत ; दृष्टि, राय, यह है कि दुनिया अचानक पैदा हो गई है. इस का बनाने वाला सम्हालने वाला कोई ईश्वर पदार्थ नहीं; ऐसी दृष्टि वाले लोग, अपने उग्र, निर्दय, घोर, क्रूर कर्मों से, जगत् का विनाश करने में, धार्मिक मर्यादा का भंग करने में ही, प्रवृत्त होते रहते हैं ।

न्याय-सूत्र के वात्स्यायन भाष्य में भी ‘प्रावादुकानां दृष्टयः’, मिलता है । किन्ही प्रतिभों में ‘प्रावादुकानां प्रवादाः’, ऐसा भी पाठ है । आशय दोनों शब्दों का वही है । स्पष्ट अर्थ में थोड़ा अंतर कह सकते हैं । ‘दृष्टि’, ‘दर्शन’ का अर्थ है देखना, निगाह, राय, मत । ‘वाद’ ‘प्रवाद’ का अर्थ है कहना, राय का जाहिर करना । ‘उन की राय यह है’ ‘उन का कहना यह है’ । ‘दर्शन’ स्वगत, अपने लिये ; ‘वाद’ ‘प्रवाद’, उस दर्शन का विख्यापन, प्रवचन , दूसरे के लिये ।

जगह बदली, निगाह बदली’

‘प्रस्थानभेदाद् दर्शनभेदः’, यह कहावत प्रसिद्ध है । शिवमहिमस्तुति का श्लोक है,

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।

प्रस्थान बदला, दृष्टि बदली । जगह बदली, निगाह बदली । हालत बदली, राय बदली । अंग्रेजी में भी यही कहावत है ।

‘ऐज़ दि स्टैंडपॉइंट, सच् दि व्यू; ओपिनियन चेञ्जेज़ विद् सिचुएशन ।’

१ As the standpoint or viewpoint, point of view, angle of vision, such the view; opinion changes with situation. ‘प्रस्थान’ का अर्थात् ‘बदला’ भी है; जिसे रास्ते से, चले, वैसे दृश्य देख पड़ते

महाभारत में (सौप्तिक पर्व में) श्लोक है ।

अन्यथा यौवने मर्त्यां बुद्ध्या भवति मोहितः,
मध्ये ऽन्यथा, जरायां तु सो ऽन्यां रोचयते मतिं ।
तस्यैव तु मनुष्यस्य सा-सा बुद्धिस्तदा तदा,
कालयोगे विपर्यासं प्राप्य ऽन्योन्यं विपद्यति ।

जवानी में बुद्धि, मति, एक होती है ; मध्यवयस् में दूसरी; बुढ़ापे में तीसरी ।
पिछली बुद्धि पहिली बुद्धि को दबा देती है । इस प्रकार से राय या मत के अर्थ में,
'बुद्धि' शब्द का भी प्रयोग होता है ।

'दर्शन' शब्द का रूढ़ अर्थ

तौ भी, अब रूढ़ि ऐसी हो रही है कि इस देश में संस्कृत जानने वालों की मंडली में 'दर्शन' शब्द से मुख्यतया छः दर्शन और साधारणतः प्रायः सोलह दर्शन कहे जाते हैं, जिन का वर्णन माधवाचार्य के सर्व-दर्शन-संग्रह नामक ग्रंथ में किया है । चार्वाक, बौद्ध, आर्हत (जैन), रामानुजीय, पूर्णप्रज्ञ (माध्व), नकुली-शपाशुपत, शैव, प्रत्यभिज्ञा (कादमीर-शैव), रसेश्वर (आवधूतिक सिद्धपारद-रस) औल्लङ्घ्य काणाद वैशेषिक), अक्षपाद (गौतमीय न्याय), जैमिनीय (पूर्व मीमांसा), पाणिनीय (वैयाकरण), सांख्य (कापिल), पातंजल (योग) शांकर (अद्वैत वेदांत) । मधुसूदन सरस्वती ने, महिम-स्तुति की टीका में, प्रस्थानभेद नामक प्रकरण में, छः आस्तिक, और छः नास्तिक दर्शन गिनाये हैं; अर्थात् (१) न्याय, वैशेषिक, कर्ममीमांसा, शारीर (ब्रह्म) मीमांसा, सांख्य, योग; (२) सौगत (बौद्ध) दर्शन के चार भेद, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक; और चार्वाक और दिग्म्बर (जैन) ।

हैं; पर लक्ष्य, पहुँचने की अंतिम स्थान, ब मार्गों का यही एक ही है । अंग्रेज़ी में 'प्रस्थान भेद' के विषे 'Different starting-points', 'various points of departure' कहते हैं ।

१ अब हिन्दी में तीन ग्रन्थ बहुत अच्छे बन गये हैं, (१) राहुल सांस्कृत्यायन विरचित 'दर्शन का दिग्दर्शन', जिस में पाश्चात्य दर्शनो का भी संक्षेप से इतिहास दिया है ; (२) देशराज कृत 'भारतीय दर्शन का इतिहास' (३) बलदेव उपाध्याय रचित 'भारतीय दर्शन' । इन में माधवाचार्य के 'सर्व-

'वाद', 'इज़्म'

'वाद' शब्द में सैकड़ों प्रकार अंतर्गत हैं। किसी भी शब्द के साथ 'वाद' शब्द लगा देने से एक प्रकार का 'वाद', एक विशेष मत, सकेतित हो जाता है; जैसे आजकाल अंग्रेजी में 'इज़्म' शब्द जोड़ देने से। एक एक दर्शन में बहुत बहुत वादों के भेद अन्तर्गत हो रहे हैं; अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, भेदवाद, अभेदवाद, आरंभवाद, परिणामवाद, विकारवाद, विवर्तवाद, अध्यासवाद, आभासवाद, मायावाद, शून्यवाद, ईश्वरवाद, अनिद्वग्ववाद, दृष्टिसृष्टि-वाद, क्षणिक-विज्ञानवाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, उच्छेदवाद, अनुच्छेदवाद, प्रभृति। अंग्रेजी में इन के समान मोनिज़्म, ज्युएलिज़्म, थीज़्म, पैन्थीज़्म, ट्रान्सफार्मैशनिज़्म, रीयलिज़्म, आइडियालिज़्म, एवोल्यूशनिज़्म, एब्सोल्यूटिज़्म आदि हैं। बुद्धदेव के 'ब्रह्मजाल सूत्र' में बासठ वाद गिनाये हैं। सैकड़ों गिनाये जा सकते हैं। 'मुंडे मुंडे मतिभिन्ना'। आजकाल नये नये वाद बनते जाते हैं, यथा—व्यक्तिवाद, समाजवाद, जातिवाद, व्यष्टिवाद, समष्टिवाद, वर्गवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, पूँजीवाद, धर्मवाद, लोकतंत्रवाद, प्रभृति। अंग्रेजी में इन के मूल शब्द, जिन के ये अनुवाद हैं, इण्डिविज्युलिज़्म, सोशलिज़्म, फ़ैशिज़्म, नैशनलिज़्म, कलेक्टिविज़्म, कम्युनिज़्म, इम्पीरियलिज़्म, कैपिटलिज़्म, प्रालिटेरियनिज़्म, डेमोक्रेटिज़्म हैं। प्रत्येक वाद के मूल में एक 'दर्शन' 'फ़िलोसोफी' 'मत' 'बुद्धि' 'राय' 'दृष्टि' लगी है। संस्कृत के प्रसिद्ध दर्शन ग्रंथों में, यथा वेदांत-विषयक बादरायण के ब्रह्मसूत्रों पर शंकर के शारीरक-भाष्य, रामानुज के श्री-भाष्य, वाचस्पति मिश्र की भामती, श्रीहर्ष के खंडनखड्खाद्य-चित्तसुखाचार्य की चित्सुखी, मधुसूदन सरस्वती की अद्वैतसिद्धि और संक्षेपशारीरक-टीका, अप्पय्य दीक्षित के सिद्धान्तलेश, मे; एवं, न्याय-विषयक, गौतम के न्याय सूत्रों पर वात्स्यायन भाष्य, उस पर उद्द्योतकर का वार्त्तिक, उस पर वाचस्पति की टीका; तथा न्यून्याय-विषयक, गंगेश कृत तत्त्वचिंतामणि, उस पर मथुरानाथी, गादाधारी, जागदीशी आदि टीका; एवं मीमांसा-विषयक जैमिनिहृत पूर्व-मीमांसा-सूत्रों पर शाबर भाष्य, उस पर कुमारिल के श्लोकवार्त्तिक और तंत्रवार्त्तिक और उप टीका, पीछे खंडदेव की भाट्टदीपिका, आदि सैकड़ों ग्रंथों में प्रति पद, पूर्व पक्षों और उत्तर पक्षों की भरमार है। प्रत्येक 'पक्ष' को 'वाद' 'दृष्टि' कह सकते हैं।

दर्शन संग्रह' तथा हरिभद्र के 'पड्दर्शन समुच्चय' से बहुत अधिक सामग्री है। ठीक ही है, गणधव और हरिभद्र के समय में छापाखाना नहीं था, न इतने छोपे ग्रंथ उथलस्य थे, जिन में से बहुतरे तो लुप्त हो रहे थे, अब मिले और छापे गये हैं।

‘वाद’ ‘विवाद’ ‘सम्वाद’

वादों के साथ ‘विवाद’ भी बढ़ते जाते हैं । अनंत कलह और संघर्ष मचा हुआ है । वाग्युद्ध के कोलाहल से कान बधिर और बुद्धियाँ व्याकुल हो रही हैं । किसी विचार मे स्थिरता, बद्धमूलता, नहीं देख पड़ती । कलियुग का अर्थ प्रत्यक्ष हो रहा है । ‘सम्वाद’, समन्वय, संमर्श, सामरस्य, एकवाक्यता, का यत्न, और उस की आशा, दिन दिन कम होती जाती है । विरोध-परिहार के स्थान मे विरोध-संचार-प्रचार ही अधिक हो रहा है; मनुष्य-मात्र के जीवन के सभी अंगों, अंशों, पहलुओं मे। स्यात् अंतर्गत्मा, सूत्रात्मा, जगदात्मा को, यह सबक, यह शिक्षा, मानव लोक को नये सिर से सिखाने की जरूरत जान पड़ती है, कि—

विपदः संतु नः शश्वत् तत्र तत्र, जगद्गुरो !,

भवतो ‘दर्शनं’ यत् स्याद् अपुनर्भव-‘दर्शनम्’ । (भागवत)

‘सिर पर विपत्ति पड़े बिना, परमात्मा के दर्शन की इच्छा नहीं होती, और दर्शन नहीं होता; इसलिये, हे भगवन्!, हे जगद्गुरो !, हम पर विपत्तियाँ डालिये, कि हम आप की खोज करें, आप को पावें, देखें, और पुनर्जन्म को न देखें ।’

वादों का समन्वय, और विवादों के स्थान मे सम्वाद तभी हो सकता है, जब ‘राग-द्वेष’, और उन का मूल, ‘अस्मिता’, अहंकार, ‘अहमहमिका’, ‘हमहमा’, ‘कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया’, ‘हम तु मन दीगरे नीस्त’, भेद-बुद्धि, स्पर्धा, ईर्ष्या, संघर्ष, के जगद्द्रव्याप्त भाव मे कमी हो, और आत्मदर्शन की ओर मनुष्य झुकें ।’

सद् किताबो सद् बरक् द् दर् नार् कुन्,

जानो दिल् रा जानिबे दिलदार कुन् । (मौलाना रूमी)

‘सैकड़ों पन्नों की इन मोटी मोटी सैकड़ों किताबों को, जिन मे केवल कठहुज्जत भरी है, आग मे डालो; और अपने दिल, अपनी सारी जान, को, दिलदार, परमात्मा, सर्वव्यापी अंतरात्मा, की ओर झुकाओ; तभी शांति, स्नेह, प्रेम, तबियत मे मिठास, जिदगी मे कोमलता, पाओगे ।’

१ अध्यात्म-विद्या द्वारा, सब वादों, विवादों, मतों, दृष्टियों का विरोध-परिहार, सब का समन्वय, कैसे होता है—यह मैंने “समन्वय” नामक अपने हिन्दी ग्रन्थ मे दिखाने का यत्न किया है । तथा, विशेष कर सर्व-धर्म-समन्वय, सब धर्म-सम्बन्धी मतों, सम्प्रदायों की एकता दिखाने का यत्न अंग्रज़ी The Essential Unity of All Religions मे ।

**शास्त्राणि अभ्यस्य मेधावी, ज्ञानविज्ञानतत्परः,
पलालमिव धान्यार्थी, त्यजेच्छास्त्राणि अशेषतः। (पंचदशी)**

‘धान्य (धान) ले लो, पयाल को छोड़ दो; मुख्य अर्थ को, ज्ञान-विज्ञान के सार को, ले लो, पोथियों और कठहुज्जतों को दूर करो ।’

लेकिन, ‘पढ़े पंडित नहीं होता, पढ़े (सिर पर मुसीबत पड़ने से) पंडित होता है’, दुनिया ठीक ठीक, अपरोक्ष, समझ में आती है। इस समय, ईसा की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध, विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वीतल के सभी देशों में, सभी मानव जातियों की, जो परस्पर घोर कलि और कलह की अवस्था हो रही है, उस से यही अनुमान होता है कि सन् १९१४-१८ ई० और १९३९-४५ के विद्व युद्ध से मानव जाति के दुष्ट मानस भावों का विरेचन पर्याप्त नहीं हुआ; पुनरपि घोर ‘महाभारत’ और ‘यादव-संहार’ होगा; और तभी पुनः अध्यात्म-शास्त्र के तत्त्वों तथ्यों की ओर मनुष्य झुकेंगे, और उन के अनुसार छिन्न-भिन्न, जीर्ण-शीर्ण, दीन-हीन-शीण मानव समाज के पुनर्निर्माण का यत्न, वर्णाश्रम धर्म की विधि से, करेंगे; जैसा, महाभारत युद्ध के पीछे, भीष्म से उपदेश ले कर, युधिष्ठिर ने किया ।^१

**तत्त्वबुभुत्सया वादः, विजिगीषया जल्पः,
चिखण्डयिषया वितंडा । (न्याय-भाष्य)
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् । (गीता)**

गीता में कहा है कि ‘सब विद्याओं में श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है’। न्यायशास्त्र में प्रसिद्ध है कि, तत्त्व के निर्णय के लिये जो बातचीत, बहस, की जाय, वह ‘वाद’

१ १९४५ में यूरोप में और १९४६ में एशिया में नाम मात्र को युद्ध समाप्त हुआ; असल में, बिना अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के, खाना-कपड़ा-ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं के अभाव से, जन संहार जारी ही है। एवं चीन, फ्रिलिस्तीन, इन्डोनीशिया में, रक्तपात हो ही रहा है। और भारत में, जहाँ अब तक यूरोप के ऐसा रक्तपात नहीं हुआ था, यद्यपि आवश्यकियों के अभाव से और महा-भारियों से वैसे ही बहुसंख्यक मनुष्य मरे जैसे यूरोप में युद्ध से, वहाँ अब, १५ अगस्त, १९४७ से रुद्र-काली का घोर तांडव आरम्भ हो गया है; उस तिथि को भारत के दो टुकड़े, पाकिस्तान और हिन्दुस्थान, किये जाने की घोषणा के बाद से, दारुण नर संहार हो रहा है, और लाखों स्त्री, पुरुष, बच्चों, हिन्दू पहिले और पीछे मुसलमान भी, मारे जा रहे हैं ।

कहलाता है; जो केवल वाग्बुद्ध में अपने पक्ष का जय, और दूसरे का पराजय, करने की इच्छा से हो, वह 'जल्प'; और जिस में अपने मत का प्रतिपादन न हो, केवल दूसरे का खंडन, वह 'वितंडा'। इस लिये वार्तालाप के प्रकारों में उत्तम प्रकार 'वाद' है। यहाँ 'वाद' शब्द का अर्थ शंका-समाधानरूपक, उत्तर-प्रत्युत्तररूपक, 'बहस' है, 'मत' नहीं। अहमहमिका (हमहमा, खुदी, खुदनुमाई) का जोर जब तक है, 'मेरी ही राय सहीह, दूसरों की राय गलत', 'कबूल करो कि तुम हारे, मैं जीता,' तब तक जल्प, वितंडा, कलह हुआत, फ़साद, जंग और जिहाल, का ही जोर रहेगा, विवाद में ही रस मिलेगा, वाद और सम्वाद की ओर लोग मन न देंगे। तथा अधिभूत विद्याओं की, 'नफ़सानियत' की, क़दर बहुत होगी, और अध्यात्म विद्या का, 'रूहानियत' का, आदर कम होगा।

इसी कठ-हुज्जत से घबरा कर महिम्नस्तुतिकार बेचारा कहता है—

ध्रुवं कश्चित् सर्वं, सकलं अपरस्तु अध्रुवमिदं,
परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये,
समस्ते ऽप्येतस्मिन्, पुरमथन !, तैर्विस्मित इव,
स्तुवन् जिह्मेमि त्वां, न खलु ननु घृष्टा मुखरता ।

'कोई कहता है कि यह सब सत्य है, ध्रुव है, कोई कहता है कि यह सब असत्य है, अध्रुव है, कोई कुछ, कोई कुछ; अनंत प्रकार की अस्त-व्यस्त बातों का कोलाहल मचा हुआ है। हे परमात्मन् !, तीनों पुर के मथने वाले !, (स्थूल, सूक्ष्म, कारण) तीनों शरीरों का, तथा जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का, अनुभव करने और उन से परे रहने वाले !, उन का निषेध और नाश करने वाले !, इस सब का कोलाहल के बीच में चकित और त्रस्त हो कर मुझे आप की स्तुति में भी मुह से शब्द निकालते लज्जा होती है, और कुछ भी कहना घृष्टता, ढिठाई, जान पड़ती है !'

परन्तु, मनुष्य की प्रकृति ही 'अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश', से बनी है। जैसे क्रिया-प्रधान शर, साहसी जीवों को भुजा से या 'अस्त्र-शस्त्रों' से युद्ध करने में 'रण-रस' मिलता है, वैसे ज्ञान-प्रधान, वाग्बुद्ध, विद्वान्, शास्त्री जीवों को 'शास्त्रों' से, 'शास्त्रार्थ' विचार के बहाने जिद्दा से, मत्प्रयुद्ध करने में 'अहंकार' का वीर-रस मिलता है। यूरोप देश में भी 'ओडियम् थियोलॉजिकम्' प्रसिद्ध है। मध्यकालीन भारत की कहानियों में माधव-रचित 'शंकरदिग्वजय' में कहा है कि जब

शंकराचार्य अपना शारीरिक भाष्य ले कर काशी आये, तब ब्रह्मसूत्र के कर्ता बादरायण व्यास, एक वृद्ध पण्डित का वेश बना कर उन से किसी गली में मिले ; और वेदान्त-विषयक प्रसंग छेड़ा । फिर क्या था,

दिनाष्टकं वाक्कलहो जजृम्भे ।

आठ दिन रात, गंगा के तट पर, खड़े खड़े ही हुज्जत जारी रही ।

शंकर का, मंडन मिश्र और उन की पत्नी परम विदुषी श्री शारदा देवी से, जो शास्त्रार्थ हुआ, उस की भी कहानी उसी ग्रन्थ में कही है । आठ दिन तक तो ब्रह्मा के अवतार मंडन मिश्र से वाग्गुद्ध हुआ । जब वे हार गये, तब सत्रह दिन तक सरस्वती की अवतार शारदा देवी से बहस हुई ।

अथ सा कथा प्रवृत्ते स्म तयोः, अतिजल्पतोः सममनल्पधियोः,
मति-चातुरी-रचित-शब्दशरी-श्रुति-विस्मयीकृत-विचक्षणयोः ।
न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरराम, नैयमिककालमृते,
मतिवैभवाद्अविरतं वदतोर्दिवसाश्च सप्तदश चात्यगमन् ।

‘शब्दों की ऐसी शरीर लगी, जैसे वर्षा में आकाश से जल की धाराओं की ; सुनने वालों के कान उन की ध्वनि से, और मन अचरज से, भर गये; नियम के कृत्यों के समय को छोड़ कर, हुज्जत बन्द ही न होती थी, न दिन में, न रात ही में; सत्रह दिन बीत गये ।’ कवि ने यह स्पष्ट कर के नहीं लिखा कि खाने के लिये कथा रुकती थी या नहीं ; क्योंकि यह तो ‘नियम’ का ‘कृत्य’ नहीं है ; शौच, स्नान, संध्याबंदन, आदि तो नियत हैं, अग्रिहार्य हैं ; पर उपवास तो किये जा सकते हैं ! अस्तु । कथा से यह तो सिद्ध हुआ कि मंडन मिश्र का कहना ही बया है, वेदान्त-प्रतिपादक शंकराचार्य भी वाग्गुद्ध के कम शौक्तीन न थे । नव्य न्याय और नव्य व्याकरण वालों ने इस कठहुज्जत के कौशल से, निश्चयेन प्राचीनों को परास्त कर दिया है ; जो साध्य है उस को भूल गये हैं ; साधन में ही मग्न हो रहे हैं ; इन के कारण, साधन भी ‘साधन’ नहीं रहा, सर्वथा ‘बाधन’ हो गया । आजकाल, ‘पंडित’ लोग, ‘वेदांत-केसरी’, ‘तर्क-पंचानन’, ‘सर्वविद्यार्णव’, ‘वाचस्पत्यसार्वभौम’, ‘सर्वतंत्र-स्वतंत्र’, ‘प्रतिवादि-भयंकर’, आदि पदवियों से अपने को विभूषित करते हैं, आम्रह से, हर्ष से, रस से । ऋषियों ने ऐसी पदवियाँ अपने को नहीं दीं । कहाँ आत्मदर्शन का परम सौम्य भाव, कहाँ हिंस्र पशु केसरी, पंचानन, अर्थात् सिंह का भाव । भारतीय जीवन के सभी अंगों में ऐसी ही विपरीत, विपर्यस्त, बुद्धि का राज्य देख पड़ता है ।

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते, तमसाऽवृता,
सर्वार्थान् विपरीतांश्च, बुद्धिस्सा, पार्थ !, तामसी । (गीता)

‘धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, जो माने, और सभी बातों को उल्टा कर के जो समझे, वह बुद्धि तामसी है ।’

भारतवर्ष में बहुतेरे दर्शन होते हुए भी, अंततो गत्वा, सिद्धांत यही है, कि आत्मदर्शन, अध्यात्मविद्या, ब्रह्मविद्या, वेद का, ज्ञान का, अंत है, ईतिहा, ज्ञातमा, परा काष्ठा है। इस में सब विद्या, सब ज्ञान, अंतर्भूत हैं। इस में सब ‘वादों’ का ‘सम्वाद’ हो सकता है, और हो जाता है; क्योंकि परमात्मा की प्रकृति ही ‘द्वन्द्वमयी’, ‘विरोधमयी’, ‘विरुद्धपदार्थमयी’, ‘सर्वविरुद्धधर्माणामाश्रयः’, अथ च ‘द्वन्द्व-पदार्थ-निषेधमयी’ है।

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । (उ०)

यदाभूतपृथग्भावं एकस्थमनुपश्यति ,

तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा । (गीता)

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा; गुह्यतमं ज्ञानं विज्ञानसहितं ; पाप्मानं

ज्ञानविज्ञाननाशनम् । (गी०)

एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति ।

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।

भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यते सर्वसंशयाः,

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे । (उ०)

‘ब्रह्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठा, नीची, नीच है। जब जीवात्मा संसार के असंख्य नाना पदार्थों को, एक परमात्मा में स्थित, प्रतिष्ठित; और उस एक से इन सब का विस्तार देख लेता है; तब उस का ब्रह्म अर्थात् ज्ञान सम्पन्न परिपूर्ण हो जाता है; और वह स्वयम् ब्रह्ममय हो जाता है। सब विस्तार को एक मूल में बंधे देखना—यह ‘क्रियासोफी’ है, ज्ञान, प्रज्ञान, है; एक मूल से सब के विस्तार को देखना, विशेष के साथ जानना, यह ‘सायंस’ है विज्ञान है।’ उस एक के जानने से सब वस्तु जानी जाती है। उसी आत्मा का दर्शन करना चाहिये। उस का दर्शन हो जाने पर हृदय की गोंठ कट जाती है, संशय दूर हो जाते हैं, कर्म क्षीण हो जाते हैं।

‘दर्शन’ का प्रयोग। व्यवहार में

यह सिद्धांत हो कर भी, पुनः इस संशय में पड़ गया, कि आत्मदर्शन का

प्रयोजन, उस का फल, क्या है; केवल आत्मदर्शी जीवात्मा की प्रातिस्विक, प्रात्ये-
किक, 'ईडिबिड्यूअलिस्ट',^१ शख्सी, इन्फिरादी, शांति और व्यवहार-त्याग, प्रयत्न-
त्याग, कर्मत्याग, संबंधत्याग; अथवा सार्वजनिक, सार्वस्विक, सार्विक, 'कलेक्टिविस्ट'
'सोशलिस्ट',^२ इज्माई, मुस्तरका, विश्वजनीन, सर्वजनीन, सुख समृद्धि के लिये,
आत्मदर्शी का निरंतर प्रयत्न और व्यवहार-संशोधन । बुद्धदेव के बाद इसी मतभेद
से हीनयान और महायान सम्प्रदायों के भेद बौद्धों में हो गये । तथा शंक्राचार्य के
बाद, हीनयान के समान आशय का, अर्थात् लोक-सेवा रूप व्यवहार के त्याग के भाव
का, ज्ञोर, 'दश-नामी' सन्यासियों वेदातियों में अत्रिक हुआ; और रामानुजाचार्य ने
महायान के सदृश लोक-सेवा लोक-सहायता के भाव को जगाया ।

आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, का प्रयोग स्वार्थ ही है, अथवा परार्थ भी है, यह इस
समय भारतवर्ष में बहुत विचारने की बात है । भागवत में, तथा अन्य पुराणों में,
इस का निर्णय विस्पष्ट किया है, और आर्य-सिद्धान्त यही जान पड़ता है, कि आत्म-
ज्ञान लोक-व्यवहार के शोधन के लिये परमोपयोगी है, और इस शोधन के लिये
उस का सतत उपयोग होना ही चाहिये ।

गुण और दोष तो द्वन्द्वमय संसार में सदा एक दूसरे से बंधे हैं ।

सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः । (गीता)

नात्यन्तं गुणवत् किंचिन् नात्यन्तं दोषवत्तथा (म० भा०)

यह भाव ठीक है कि

यतो यतो निवर्त्तते, ततस्ततो विमुच्यते ।

'जिधर जिधर से जीव हटता है, जिस का जिस का त्याग करता है, उस उस से
मुक्त होता है ।' कैसे कहें कि ठीक नहीं है ।

'सन्यास' का दुःप्रयोग

पर इस में दोष यह देख पड़ता है कि सच्चे विरक्त, संसार से सचमुच छुट-
कारा पाने की इच्छा करने वाले, सांसारिक वस्तुओं और व्यावहारों का निश्छल
मिष्कपट भाव से 'सन्यास' करने वाले, छोड़ देने वाले, बहुत कम देख पड़ते हैं ।
वैश्याय के बहाने शारीर स्वार्थ के साधने वाले, मिथ्याचारी, 'सन्यासी' का नाम

१ Individualist.

२ Collectivist ; socialist.

और वेश धारण किये, गृहस्थों के समान सब प्रकार के धन सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार करते हुए, मनुष्य देश में बहुत बढ़ गये हैं। मनुष्य गणना से, प्रायः तीस, पैंतीस, स्यात् पचास, लाख तक धादमी, इस अभागे देश में, बैरागी, उदासी, सन्यासी, तकियादार, मुतबल्ली, फ़कीर, औलिया, पंथी, ‘साधू’, संत महंत, का नाम और वेश बनाये हुये, काषाय और ‘दलक’, अलफ़ी और खिर्का, कंथा और गूदड़ी, की आड़ में, (जैसे यूरोप देश में ‘मंक’ ‘नन’ ‘एबट’ ‘एबेस’ ‘फ़ादर-सुपीरियर’ आदि),^१ मठधारी, मंडलीक, सजादा-नशीन, स्वामी, गोस्वामी, पीट्रेवर, बने हुए, जवाहिर और गहने पहिन्ते, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, और अब मोटरों पर सवार होते, राजाई और नवाबी टाठ से रहते, ऐश और आराम के दिन बिताते हैं। कभी कभी तो घोर पाप और जुर्म कर डालते हैं; और गृहस्थों के अन्य असह्य बोज़ों के ऊपर, राज-कर के भार आदि के ऊपर, अपना बोज़ और अधिक लाद रहे हैं। तुलसीदास जी लिख गये हैं, “तपसी धनवन्त, दरिद्र गृही, कलि कौतुक बात न जात कही।”

मंदिरों का दुरुपयोग

दूसरी ओर यह देख पड़ता है कि लोक-सेवा, लोक-सहायता. ईश्वर-भक्ति और परस्पर-भक्ति, सतसंग, इतिहास-पुराण-कथा, सदुपदेश, सर्वजनीन प्रेम के प्रचार के लिये बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी संस्था. बड़ी बड़ी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, बनाई जाती हैं, और वे भी, थोड़े ही दिनों में, अपने सर्व-सत्ताक (‘पब्लिक प्रापर्टी’) के रूप को छोड़ कर एक-सत्ताक (‘प्राइवेट प्रापर्टी, इंडिविड्युअल या पर्सनल प्रापर्टी’)^२ का रूप धारण कर लेती हैं। एक दल, एक गुट, एक चकक, एक पेटक, एक कुल, एक व्यक्ति, की निजी जायदाद हो जाती हैं। कुछ साम्प्रदायिक संस्था तो ऐसी हैं, जिन में से एक एक में, हजार हजार, दो दो हजार रुपया तक, प्रतिदिन, ‘भोग-राग’ में ही खर्च हो जाता है। थोड़े से आदमियों को, स्यात् कुछ हजारों को सुखाद भोजन का सुविधा होता है, पर करोड़ों गरीबों का बोज़ घटने के बदले बहुत बढ़ता है। यदि इन संस्थाओं की लाखों रुपये सालाना की आमदनियाँ सच्चे आत्मदर्शन, अध्यात्मविद्या, आन्वीक्षिकी विद्या के अनुसार, जनता की उचित वेद-वेदांग-इतिहास-पुराण-ज्ञान-विज्ञान के विविध शास्त्रों की शिक्षा तथा चिकित्सा और विविध ललित कलाओं और उपयोगी शिल्पों की उन्नति आदि के कार्य में लगाई जायँ, तो आज भारतवर्ष का रूप ही दूसरा हो जाय। कई मन्दिर ऐसे हैं,

१ Monk, nun, abbot, abbess, father superior.

२ Public property, private property, individual or personal property.

विशेष कर दक्षिण में, जिन में से एक एक की आमदनी आठ आठ, दस दस, पंद्रह पंद्रह लाख रुपये साल तक की कही जाती है। बिहार और उड़ीसा की महंती गहियों की संकलित, मजमूई, आमदनी, प्रायः एक करोड़ रुपये सालाना कही जाती है। कोई प्रांत, कोई सूबा, नहीं, जिस में हिंदू धर्मत्र देवत्र संस्थाओं और मुसलमानी वक्फों की आमदनी, पचासों लाख रुपयों की मोज़ान को न पहुँचती हो। यदि इस सब 'लक्ष्मी' का, उत्तम, शुद्ध, ब्रह्ममय और धर्ममय आत्मदर्शन के अनुसार सत्प्रयोग, सदुपयोग, किया जाय, और इन सब संस्थाओं के 'साधु', सच्चे 'साधु' (साधोति शुभान् कामान् सर्वेषाम् इति साधुः) और विद्वान् शिक्षक, सच्चे आलिम और पीर हो जायें तो सब 'युनिवर्सिटियों', 'स्कूल कालेजों'^१ पाठशालाओं, मद्रसों, का काम उत्तम रीति से इन्हीं से निबहै; और इहलोक-परलोक-साधक, दुनिया और आक़बत दोनों को बनाने वाली, अभ्युदय-निःश्रेयस-कारक, ज्ञान-वर्धक, रक्षा-वर्धक, स्वास्थ्य-वर्धक, कृषि-गारक्ष-वार्ता-वाणिज्य-शिल्प-पोषक, उद्योग-व्यवसाय-व्यापार-व्यवहार-शोधक और प्रोत्साहक शिक्षा का प्रसार सारे देश में हो।

आत्मज्ञानी ही व्यवहार कार्य अच्छा कर सकता है

सांख्य का रूपक है; पुरुष के आँख हैं, पैर नहीं; प्रकृति के पैर हैं, आँख नहीं; एक लँगड़ा है, दूसरी अन्धी; दोनों के साथ होने से, दोनों का काम चलता है। ब्रह्म और धर्म, ज्ञान और कर्म, शास्त्र और व्यवहार, नय और चार, नीति और प्रयोग, 'थियरी' और 'प्राक्टिस', 'सायंस' और 'ऐप्लिकेशन',^२ इत्म और अमल, का यही परस्पर सम्बन्ध है। इसी लिये मनु की आज्ञा है;

सैनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च,
सर्वलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविदहति। (मनु)

सेनापति का कार्य, राजा का कार्य, दंडनेता, न्यायपति, प्राड्विवाक, 'जज', 'मजिस्ट्रेट'^३ का काम, अथ किम् सर्वलोक के अधिपति का, सम्राट्, चक्रवर्ती, सार्वभौम का कार्य, उसी को सौंपना चाहिये, जो वेद के शास्त्र को, वेद के अन्त में, वेदांत में, अर्थात् उपनिषदों में, कहे हुए, वेद के अंतिम रहस्य को जानता है।

१ Universities, schools, colleges.

२ Theory, practica, science, application.

३ Judge, magistrate.

‘प्रयोग’ ही ‘प्रयोजन’

‘प्रयोजन’ और ‘प्रयोग’ शब्द एक ही ‘युज्’ धातु से बने हैं। सत्ज्ञान का ‘प्रयोजन’, उस के संग्रह और प्रचार करने, सीखने सिखाने का प्रेरक हेतु यही है कि उस का सत् ‘प्रयोग’ किया जाय ; उस के अनुसार चारो पुरुषार्थ साधे जायें ।

पुराणो से निश्चयेन जान पड़ता है कि आर्यभाव, आत्मविद्या के विषय में, यही था कि जब तक शरीर नितान्त थक कर जवाब न दे दे तब तक वानप्रस्थावस्था में भी, जीवन-मुक्त का भी, कर्तव्य था कि लोक-संग्रह, लोक-व्यवहार, लोक-मर्यादा, के शोबन रक्षण में यथाशक्ति, यथासम्भव, यथाऽवश्यक, सहायता करता रहे ।

व्यास जी के विषय में कहा है—

प्रायशो मुनयो लोके स्वार्थैकांतोद्यमा हि ते,
द्वैपायनस्तु भगवान् सर्वभूतहिते रतः ।

प्रह्लाद का वचन है—

प्रायेण; देव !, मुनयः स्वविमुक्तिकामाः
स्वार्थं चरन्ति विजने, न परार्थनिष्ठाः ;
नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षे एकः,
नान्यं त्वद् अस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये । (भागवत)

ऋषि मुनि लोग प्रायः ‘स्वार्थ’ से अपनी ही मुक्ति के लिये, एकांत में, निर्जन, विजन, में रह कर, ऐकांतिक यत्न करते हैं ; किन्तु भगवान् कृष्ण-द्वैपायन व्यास, निरन्तर सर्वभूत के हित की चिंता में लगे रहे, और उन की शिक्षा के लिये, अति सरस, रोचक, शिक्षक ग्रंथ लिखते रहे । हे देव !, प्रायः मुनि जन स्वार्थ साधने की ही फ़िक्र करते हैं ; पर मैं इन सब कृपा के योग्य संसारी जीवों को, जो अंधेरे में भटक रहे हैं, छोड़ कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूँ ; और आप के सिवा किसी दूसरे में इन को तारने का सामर्थ्य नहीं ; सो ऐसा उपाय बताइये जिस से ये सब भी मेरे साथ मुक्त हों ।

मनुस्मृति सनातन-वैदिक-आर्य-मानव-बौद्ध (बुद्धि-संगत) धर्म की नीवी है । उस के श्लोकों से साक्षात् सिद्ध होता है कि, वेदांत-शास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, को, प्राचीन काल में, ऋषि विद्वान् लोग, मानव धर्म का मूल और

प्रवर्तक, नियामक, निर्णायक मानते थे। आदि में ही, ऋषियों ने भगवान् मनु से प्रार्थना किया,

भगवन् सर्ववर्णानां यथावद् अनुपूर्वशः ,
अंतरप्रभावाणां च धर्मान् नो वक्तुमर्हसि ।
त्वमेवैकोऽस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंध्रुवः
अचित्यस्याप्रमेयस्य कार्यं त्वार्थवित्प्रभो ।

(“अंतरप्रभावाणां च” के स्थान में “सर्वेषामाश्रमाणां च” भी पाठ देख पड़ता है, और अधिक उपयुक्त, प्रसङ्गोचित, न्यायप्राप्त है ।)

भगवन् ! सब मुख्य वर्णों के, और प्रत्येक वर्ण के अन्तर्गत वर्णों के, तथा सब आश्रमों के, धर्मों को, आप हमें बताइये; क्योंकि परमात्मा ब्रह्म से स्वयं उपजे स्वयंभू ब्रह्मा का विधि-विधान हम लोगों के लिये अचित्य अप्रमेय है; ध्यानमय, ध्यानात्मक, मानस सृष्टि के तत्त्व को, अस्तित्व को, कार्य को, उस के अर्थ, मन्त्रसद, मतलब, प्रयोजन को, आप ही जानते हो; इस लिये आप ही इन धर्मों को बता सकते हो ।’

जो आत्मा और संसार के सच्चे स्वरूप को और प्रयोजन को नहीं जानता, वह धर्म का, कर्तव्य का, निर्णय नहीं कर सकता। हम क्या हैं, कहाँ आये, कहाँ जायेंगे, जीना, मरना, सुख, दुःख, जीने का लक्ष्य, क्या है, क्यों है—जो मनुष्य इन बातों को नहीं जानता, वह कैसे निर्णय कर सकता है कि मनुष्य का कर्तव्य धर्म क्या है ?

मनुस्मृति में और भी कहा है—

ध्यानिकं सर्वमेवैतद् यद् ‘एतद्’-अभिश्चिदितम् ।
न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपादनुते ।
अक्षेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः,
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः,
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः,
कृतबुद्धि कर्त्तारः, कर्त्तुषु ब्रह्मवेदिनः ।
सरहस्योऽधिगंतव्यो वेदः कृत्स्नो द्विजन्मना ।

‘जो अध्यात्म-शास्त्र को नहीं जानता, वह किसी क्रिया को उचित रीति से सफल नहीं कर सकता। जो परमात्मा जीवात्मा के स्वरूप को नहीं पहिचानता, मनुष्य की

प्रकृति को, उस के अतःकरण की वृत्तियों और विकारों को, रागद्वेषादि के तांडव को नहीं समझता, वह सार्वजनिक, विद्वजनीन, कार्य, राजकार्य आदि, कैसे उचित रूप से कर सकता है ? पदे पदे भूल करेगा । ज्ञानियों में वही श्रेष्ठ हैं जो अपने ज्ञान के आधार पर सद्व्यवसाय, सद्व्यवहार, करते हैं; बुद्धिमानों में वे श्रेष्ठ हैं जो सत्कर्म-परायण कर्ता हैं, जो कर्तव्य कर्म से जान नहीं चुराते, मुह नहीं मोड़ते; और कर्ताओं में वे श्रेष्ठ हैं जो ब्रह्मवेदी ब्रह्मज्ञानी हैं ; क्योंकि वे ही ठीक ठीक कर्तव्य और अकर्तव्य का, धार्मिक और अधार्मिक कर्म का, सात्त्विक और तद्विपरीत कर्म का, विवेक कर सकते हैं ।' गीता में बतलाया है कि सात्त्विक बुद्धि वही है जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य-अकार्य भय-अभय, बंध-मोक्ष के स्वरूप को ठीक ठीक पहिचानती है, अर्थात् आत्मज्ञानवती है, वेद के रहस्य को जानती है ।

धर्म-परिषत् में, अर्थात् जो सभा धर्म का व्यवस्थापन, परिकल्पन, व्यवसान, आम्नान, करती है, उस में, यानी कानून बनानेवाली मजलिस में, आत्मज्ञानी, मनुष्य की प्रकृति के ज्ञानी पुरुष की ही विशेष आवश्यकता है ।

एकोऽपि वेदविद् धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः,
स विज्ञेयः परो धर्मो, नऽज्ञानामुदितोऽयुतैः ।
अव्रतानां अमत्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्व न विद्यते ।(मनु)
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्यत्, त्रैविद्यमेव वा,
सा व्रते यं स धर्मः स्याद्, एको वाऽध्यात्मवित्तमः ।

(याज्ञवल्क्य)

‘एक अकेला भी सच्चा अध्यात्मवित्, वेदांत का, आत्म-विद्या का, ठीक ठीक जानने वाला, अतः मनुष्य की प्रकृति को सूक्ष्म रूप से जानने वाला, देश-काल-निमित्त को पहिचानने वाला विद्वान् जो निर्णय कर दे, उसी को उत्तम, उपयोगी, लोकोपकारी, सर्वहितकर, धर्म कानून जानना मानना चाहिये । मूर्ख, सदाचार-रहित, केवल जाति के नाम से जीविका चाहने वाले, यदि हजारों भी एकत्र हो कर कहें कि यह धर्म है, तो वह धर्म नहीं हो सकता । इसी हेतु से, भारतवर्ष के कानून, अर्थात् स्मृतियाँ, सब अध्यात्मवित् महा-महर्षि, आदि प्रजापति, आदिराज मनु भगवान् की, तथा उन के पीछे अन्य ऋषियों की, बनाई हुई हैं, जो दीर्घदर्शी भावी सुफल दुष्फल के जानकार थे ।

स्पष्ट ही मनु का आशय यह है, कि ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी को, जब तक शरीर में सामर्थ्य हो, लोक-व्यवहार के शोधन में, लोक-कार्य के भार के वहन में लगे

रहना चाहिये । विरक्तमन्य हो कर, वैराग्य का ढोंग रच कर, अपने शरीर का स्वार्थ सुख साधने में लीन हो कर, मिथ्या फकीरी, उदासीनता, नहीं करना चाहिये; समाज पर, राजकीय कर के भार से प्रपीडित गृहस्थों पर, भार नहीं होना चाहिये । उन से जो अन्न वस्त्र मिलता है, उस के बदले में, किसी न किसी प्रकार से, शिक्षा, वा रक्षा, वा अन्य सहायता से, सार्वजनिक कार्यों में परामर्श के, सलाह-मस्तिरा के, अथवा जाँच-निगानी के, रूप में, उन को कुछ देना चाहिये । यदि वनस्थाश्रम पार कर के, शरीर अशक्त होने पर, सन्यासाश्रम में, भिक्षा से माधुकरि वृत्ति से, शरीर यात्रा का साधन कर रहा हो, तौ भी, “शुभध्यानेनैवऽनुग्रहाति”, अपनी मूर्ति, अपने आचरण, की सौम्यता और शांतता से ही, लोक का शुभचिंतन करने से ही यदा कदा जिज्ञासुओं को सदुपदेश से ही, वह लोक का भारी उपकार करता है ।

प्रशमैर् अवशानि लंभयन्नपि तिर्यचि शमं निरीक्षितैः ।

(किरातार्जुनीय)

अहिंसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर-त्यागः । (योगसूत्र)

ब्रह्ममय, शांतिमय, सर्वभूतदयामय, अहिंसामय महापुरुष के समीप, उन के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के पवित्र ‘वर्द्धस्’ ‘औरा’,^१ के बल से, उन के पास जो मनुष्य, पशु, पक्षी, आ जाँय, उन में भी उतने काल के लिये, शांति का भाव भर जाता है । इस प्रकार से, आगे उद्धृत श्लोक चरितार्थ होते हैं, और साधु जन, सभी आश्रमों और वर्णों में, उन को चरितार्थ करते हैं । सैंकड़ों वर्ष से, भारत में बड़ा विवाद मचा हुआ है, और इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गये हैं, कि वेदांत शास्त्र, विशेष कर गीता शास्त्र, कर्म का निवर्त्तक है, किंवा कर्म का प्रवर्त्तक है । पहले कह आये हैं, कि गीता के “तस्माद् युध्यस्व भारत” “मामनुस्मर युध्य च” “मा ते संगो-ऽस्त्वकर्मणि” आदि से ही, स्पष्ट सिद्ध होता है कि, कर्त्तव्यधर्मभूत कर्म में गीता प्रवृत्त ही करती है । और मनु कौ आदिष्ट आश्रमव्यवस्था पर थोड़ा भी ध्यान देने से विशद हो जाता है कि ऐसी बहस सब व्यर्थ है, उस के उठने का स्थान ही नहीं है । जब अत्यंत वृद्ध हो कर आयु + चतुर्थ भाग में पहुँचे, तभी परिग्रह का, माल-मता का भी और कर्मों का भी, ‘सन्यास’ करें । यही प्रवृत्ति का आज्ञा है; इस लिये शास्त्र भी यही कहता है । हाँ, अपवदता प्रत्येक उत्सर्ग के होते हैं

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुग उवाच प्रजापतिः,

अनेन प्रसन्नियध्वं, एष वोऽस्तु इष्टकामधुक् ।

परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।
 तैर्दत्तान् अप्रदाय एभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ।
 भुंजते ते तु अघं पापाः ये पचंत्यात्मकारणात् ।
 एवं प्रवर्त्तितं चक्रं नऽनुवर्त्तयतीह यः,
 अघायुरिन्द्रियारामो मोघं, पार्थ !, स जीवति । (गीता)

‘जो भी कर्म परोपकार की बुद्धि से किया जाय, वह ‘यज्ञ’; बिना ‘यज्ञ’ के भाव के समाज में व्याप्त हुए, समाज पनप नहीं सकता; यह ‘यज्ञ’-बुद्धि, परोपकार बुद्धि, ही समाज की समष्टि के और प्रत्येक व्यष्टि के लिये भी कामधेनु है; परस्पर विश्वास, परस्पर स्नेह प्रीति, परस्पर सम्वाद संगति, परस्पर सहायता से ही समाज के सब व्यक्तियों को सब इष्ट वस्तु प्राप्त हो सकती है। जो दूसरे से लेता है, पर बदले में कुछ देता नहीं, अपने ही भोजन की फिक्र करता है, परमात्मा के चलाये हुए इस संसार-चक्र के चलते रहने के लिये अपना कर्तव्य नहीं करता, वह अघायु है, अघमोजी है, स्तेन है, हरामखोर है, चोर है, उस का खाना पीना, उस का जीवन, सब पापमय है, हराम है।’ यही अर्थ मनु ने और ऋग्वेद ने भी कहा है।

अघं स केवलं भुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात्;
 यज्ञशिष्टारानं हि पतत् सतामन्नं विधीयते । (मनु)

‘दैनंदिन पंच महायज्ञ करने के बाद जो भोज्य पदार्थ गृह में बचै, उस का भोजन करना—वही सत्पुरुषों के लिये उत्तम अन्न है।’

मोघं अन्नं विन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य,
 नार्यमणं पुष्यति, नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादी ।

(ऋग्वेद, मं० ७)

अर्यमा सूर्य को भी कहते हैं; मित्र, सखा, दोस्त, को भी; सूर्य का एक नाम ‘मित्र’ भी है; जगत् के परममित्र सूर्य देव हैं। ‘जो मनुष्य देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य, मित्र अतिथि कार्य, पश्वादि सर्वभूत कार्य, अर्थात् पंच यज्ञ कार्य किये बिना, अपना ही उदर पोषण करता है, वह पाप ही का भोजन करता है, वह अपने उत्तमांश का मानो वध करता है।’

हाँ, जब वानप्रस्थावस्था के योग्य, लोकसेवात्मक कर्तव्यों के योग्य, शक्ति शरीर में न रहे, तब अवश्य उन कर्मों का भी सन्यास उचित ही है। मनु की आज्ञा है—

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः,
भिक्षाबलिपरिश्रांतः, प्रव्रजन् प्रेत्य वर्धते ।

‘ब्रह्मचारी से गृहस्थ, उस से वानप्रस्थ, हो कर, जब भिक्षा देने और बलि देने, अर्थात् आज काल के शब्दों में, विविध प्रकार की लोकसेवा के कर्म करने से (‘एवं बहुविधाः यज्ञाः वितताः ब्रह्मणो मुखे’ — गीता), शरीर नितान्त परिश्रांत हो जाय, तब उन को भी छोड़ दे ।’ गीता के ‘एवं प्रवर्तितं चक्रं’ आदि श्लोक का भी यही आशय है ।

छांदोग्य उपनिषद् में भी यही कहा है ।

यदेव विद्यया करोति, श्रद्धया, उपनिषदा, तदेव वीर्यवत्तरं भवति ।

‘जो भी कार्य, सांसारिक-जीवन संबंधी, गार्हस्थ्य-वानस्थ्य-संबंधी, अथवा पर-लोक-संबंधी, आत्मविद्या के अनुसार किया जाता है, यह अधिक वीर्यवान् गुणवान्, फलवान्, हीता है ।’ जो आत्म-विद्या के विरुद्ध किया जाता है वह बहुत हानिकर होता है ।

या वेदबाह्याः स्मृतयः याश्च काश्च कुदृष्टयः,
सर्वास्ताः निष्फलाः प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ।
उत्पद्यन्ते च्यवंते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्,
तान्यर्वाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च । (मनु)

जो ‘दृष्टियाँ’, बुद्धियाँ, वेद के शास्त्र अर्थात् वेदांत के विरुद्ध हैं, अध्यात्मशास्त्र के अनुकूल नहीं हैं, वे बरसाती गुच्छियाँ कूकरमूतों, छत्राकों, की तरह रोज पैदा होती और मरती रहती हैं । उन से न इस लोक में अच्छा फल सिद्ध होता है, न परलोक में ।’ आज काल तरह तरह के ‘इज्म’ ‘वाद’ जो निकल रहे हैं, ‘सैनिक-राज्य-वाद’, ‘धनिक-राज्य-वाद’ आदि, उन की यही दशा है ।

वर्णाश्रम-व्यवस्था की वर्तमान घोर दुरवस्था—अध्यात्मशास्त्र
के प्रतिकूल आचरण करने से । अनुकूल आचरण
से ही पुनः प्रतिष्ठापन व्यवस्थापन

जो आज काल चातुर्वर्ण्य और चतुराश्रम्य की घोर दुर्दशा हो रही है, उस में भी कारण यही है कि, उन का आध्यात्मिक तत्त्व, जिस का मूल रूप गीता तथा पुराणों में स्पष्ट प्रकार से कहा है, भुला दिया गया है, औ’ उस के विरोधी विचार पर आचरण किया जा रहा है ।

सात्विको ब्राह्मणो वर्णः, क्षत्रियो राजसः स्मृतः,
 वैश्यस्तु तामसः प्रोक्तः गुणसाम्यात्तु शूद्रता । (म० भा०)
 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ;
 कर्माणि प्रावभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः । (गीता०)

इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि स्वभाव अर्थात् प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार, (जन्म के अनुसार नहीं), सत्व-ज्ञान-प्रधान ब्राह्मण वर्ण, रजः-क्रिया-प्रधान क्षत्रिय वर्ण, तमः-इच्छा-प्रधान वैश्य वर्ण, गुणों के साम्य से शूद्र वर्ण, निश्चित होता है ।

महाभारत में यक्ष-युधिष्ठिर सम्वाद में, तथा सर्प-युधिष्ठिर सम्वाद में, तथा शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में, तथा भागवत पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, आदि में, पुनः पुनः 'कर्मणा वर्णः' के सिद्धांत को स्थिर किया है । यह सिद्धांत सर्वथा अध्यात्म-शास्त्र के अनुकूल है । किंतु इस को भुला कर, किम्वा बलात् हटा कर, 'जन्मनैव वर्णः' के अपसिद्धांत को ही वर्ण-व्यवस्था की नींव, आज प्रायः बारह सौ वर्ष से, स्वार्थी लोगो ने बना डाली है । इस से समग्र भारत की वैसी ही दुर्दशा हो गई है, जैसी बहुसत्ताक सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई बलात्कार से एकसत्ताक निजी सम्पत्ति जब बना लेता है तब अन्य आश्रितों की होती है ।

मनु में, महाभारत में, शुक्रनीति में, अन्य प्रामाणिक ग्रंथ में, पुनः पुनः कहा है, कि 'षड्भागरूपी भृति, वेतन, तनखाह, राजा को इसी लिये दी जाती है कि वह प्रजा की रक्षा करे । यदि नहीं करता, तो वह दंड पाने के योग्य है, निकाल दिये जाने के योग्य है, उस के स्थान पर दूसरे को राजा नियुक्त करना चाहिये, और मरने के बाद भी वह अवश्य नरक में गिरगा । दंड-शक्ति आग के समान है, धर्म के अनुसार जब उस का प्रयोग नहीं होता, तब वह राजा को उस के परिवार समेत जला डालता है । जो राजा रक्षा न करे, जो ऋत्विक् वेद को न जानै, उस को त्याग देना चाहिये, जैसे टूटी नौका को समुद्र में लोग छोड़ देते हैं ।'

षड्भागभृत्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु नृपः कृतः । (शुक्रनीति)
 योऽरक्षन् वलिमादत्ते स सद्यो नरकं व्रजेत् ।
 दंडो हि सुमहत्तेजो, दुर्धार्यश्चाकृतात्मभिः,
 धर्माद्विबलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् । (मनु)
 एतांस्तु पुरुषो जह्याद् भिन्नां नावमिवार्षवे,
 अरक्षितारं राजानं अनधीयानमृत्विजम् । (म० भा०)

पर, प्रायः यह देखा जाता है, कि राजा, शासक, पुरोहित आदि अपने कर्तव्य को सर्वथा भूल जाते हैं; सब प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते :

प्रजा को, आश्रिनों को, जिज्ञासुओं को, तरह तरह की पीषा देते हैं; उन के साथ विश्वासघात करते हैं। अंग्रेजी मे कइवत हो गई है कि ‘क्रिड्ज्’ और ‘प्रीस्ट्स्’ अर्थात् राजा और पुरोहित, ‘डिवाइन राइट बाइ बर्थ’ का, ‘जन्म से ही सिद्ध दैवी अधिकार’ का दावा करते हैं।^१ इन्होंने मिथ्या अभियोगों दावों से उद्विग्न हो कर, प्रजा ने, देश देश में, बड़े बड़े विद्रोह कर डाले हैं। ऊपर उद्धृत मनु के श्लोक में कहा है कि बिना ‘कृतात्मा’ ‘आत्मशानी’ हुए, ‘दंड शक्ति’ का धर्म के अनुसार धारण और नयन करना सम्भव नहीं; और जहाँ धर्म से दंड विचलित हुआ, वहाँ वह दंड, राजा को, बंधु बांधव समेत, नाश कर देता है। इसी प्रकार पुरोहितों का भी प्रभाव नष्ट हो जाता है।

हिताय पुरः अप्रे प्रहिनः; पुरः एनं हिताय दधति जनाः ; इति पुरो-हितः।
(निरुक्त)

‘यह हमारा हित साधेंगे’ इस लिये जिन को जनता आगे करे, चुनै, वे ‘पुरो-हित’; जब वे हित के म्यान में अहित करने लगे, विद्रोहसघात करें, ठगें, तो अवश्य ही ‘पुरोहित’-पद में भ्रष्ट होंगे, दूर किये जायेंगे।

निष्कर्ष

निष्कर्ष यह है कि बिना वर्ण-आश्रम-व्यवस्था के, बिना ‘सोशल आर्गेनिजेशन’, ‘तनजांमि-जमाअत’ के, मनुष्यों को न सामाजिक सुख, न वैयक्तिक सुख, मिल सकता है। और वर्ण-व्यवस्था का सच्चा हितकर रूप, बिना ‘कर्मणा वर्णः’ के [सिद्धांत के अनुसार चले, कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि ‘कर्मणा वर्णः’ ही अध्यात्म-शास्त्र का सम्मत है। इस का विस्तार से प्रतिपादन अन्य ग्रन्थों में किया है।

इस के विरुद्ध, केवल ‘जन्मना वर्णः’ के अपसिद्धांत पर, आज सैकड़ों वर्ष से, अधिकार के लोलुप, कर्तव्य से पराङ्मुख, अपने को पैदाइशी ऊँची’ मानने वाली जातियों ने जो दुर्व्यवस्था चला रखी है, उसी का भयंकर परिणाम यह है कि आज, ढाई हजार से अधिक परस्पर अस्पृश्य जातियां हिन्दू नामक समाज में हो गई हैं; परस्पर ईर्ष्या-द्वेष, तिरस्कार, अहंकार से छिन्न भिन्न, बलहीन, क्षीण हो रही हैं; भारत जनता ने, देश ने, स्वतंत्रता, स्वाधीनता खो दिया है; दूसरों के वश में सारा देश चला गया है; और तरह तरह के क्लेश सह रहा है।^२

१ Kings; priests; divine right by birth.

२ Social Organisation.

३ यह १९४० में लिखा गया था ; १५ अगस्त, १९४७ के पीछे, ब्रिटिश गवर्मेन्ट स्वयं हट गई और ‘स्वराज’ हो गया, परन्तु भारत के दो भागों में.

सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम्,
एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः । (मनु)

वेद की आज्ञा है ,

संगच्छध्वम् , संवदध्वम्, सं वो मनांसि जानताम् ।

समानी प्रपा, सह वोऽन्नभागः, समाने योक्त्रे सह वो गुनजिम् ।

साथ चलो, साथ बोलो, सब के मन एक हों, साथ में शुद्ध अन्न जल खाओ पीओ, साथ मिल कर उत्तम सर्वोपकारी कर्मों में लगे। पर आज देखा यह जाता है, कि किसी का मन किसी से नहीं मिलता ; सब अपने को एक से एक पवित्रतम मानते हैं; 'हम पैदाइशी ऊँचे, अन्य सब पैदाइशी नीचे,' यही जहरीला भाव फैला हुआ है; सच्चे शौच का, शुचिता का, सफाई का अर्थ सर्वथा भूला हुआ है; दूसरे नाम की जाति मात्र के आदमी के छू जाने से ही अपनी जाति, अपना धर्म, मर जाता है; यह महामोह वैदिक धर्म को 'छुई-मुई धर्म' बनाये हुए है।

आत्मज्ञान की, आत्मदर्शन की, दैनंदिन व्यवहार में कितनी उपयोगिता है इस का प्रमाण गीता से बढ़ कर क्या हो सकता है ?

योगः कर्म-नु कौशलं । तस्माद् युध्यस्व, भारत !

मामनुस्मर युध्य च । इत्यादि ।

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ,।

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं ।

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया,ऽनघ !

एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च, भारत !

'यह गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम शास्त्र ; राजविद्या, राजगुह्य,' वेद रहस्य, अध्यात्म शास्त्र ही वह शास्त्र है जिस के लिये गीता में यह भी कहा है कि —

तस्मान्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

'क्या कार्य है. क्या अकार्य है, इस का अंतिम निश्चय निर्णय, इस परम शास्त्र, गुह्यतम शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र ही के द्वारा हो सकता है, जिस को वेद का रहस्य उपनिषत् भी कहते हैं।'

पाकिस्तान और हिन्दुस्थान में, बँट जाने से भयंकर जन-संहार, बीसियों लाख मनुष्यों की हत्या और बीसियों अरब की सम्पत्ति का नाश हुआ और अभी भी हो रहा है ; तथा स्व-राज नाम-मात्र का है, ब्रिटिश-शासन के समय से भी दशा देश की बहुत बुरी रही है ।

राज-विद्या, राजगुह्य

इस को राजविद्या राजगुह्य क्यों कहा ? इस प्रश्न का उत्तर योगवासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण के ११ वें अध्याय में दिया है। पहिले इस को चर्चा कर आये हैं, परन्तु इस भूले हुए नितांतोपयोगी तथ्य का पुनरपि दोहराना, याद दिलाना, उचित है, किम्वा आवश्यक है। क्योंकि इस को भूल जाने से, प्रतिगद् याद न रखने से, काम में न लाने से भारत जनता रसातल को चली जा रही है।

कालत्रक्ते वहन्यस्मिन्, क्षीणे कृतयुगे पुरा,
 प्रत्यहं भाजनार जने शास्यर्जनोन्मुखे,
 द्वंद्वः न सप्रवृत्तानि विषयार्थं महीभुजां ।
 तना युद्धं विना भूपा मर्द्दिं पालयितुं क्षमाः
 न समर्थाः, तदा याताः प्रजाभिः सह दीनताम् ।
 तेषां दैन्यापनोदार्थं, सम्यग्दृष्टिक्रमाय च,
 ततो महर्षिभिः प्रोक्ताः महत्यो ज्ञानहृष्टयः,
 वहूनि स्मृतिशास्त्राणि यज्ञशास्त्राणि च ऽवनौ
 क्रियाकर्मविधानार्थं, मर्यादानियमाय च,
 धर्मकार्मार्थसिद्ध्यर्थं, कल्पितानि उचितानि अथ ।
 अध्यात्मविद्या तेन इयं पूर्वं राजसु वर्णिता;
 तदनु प्रसृता लोके राजविद्या इति उदाहृता,
 राजविद्या राजगुह्यं अध्यात्मज्ञानमुत्तमं ।

‘सोशियालोजी’,^१ समाज-शास्त्र, के कुछ तथ्यों की भी सूचना इन श्लोकों में कर दी है।

‘मानव महाजाति के इतिहास में, ऐसे काल, युग, जमाने, को सत्ययुग अथवा कृतयुग कहते हैं, जिस में, मनुष्यों की प्रकृति सीधे सादे सरल स्वभाव के बच्चों की सी होती है; झूठ बनाने की बुद्धि ही उन की नहीं; सब ही बोलते हैं; इस से सत्य-युग नाम पड़ा; जैसे बच्चे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करते हैं, और बिना पूछे कहे उन की आज्ञा को मानते हैं, वैसे ही उस समय में, सब मनुष्य जाति के वृद्धों की, प्रजापति, ऋषि, पेट्रियार्क, प्राफ़ेट,^२ नबी, नेताओं की आज्ञा के अनुसार कार्य तत्काल कर देते हैं, कृत एव, न कर्तव्य, इस से कृत-युग का नाम भी इस को दिया गया। उस समय में प्रायः बिना खेती बारी के उपजे कन्द, मूल, फल, तथा

^१ Sociology.

^२ Patriarch ; prophet.

वृक्षों की छाल, बल्कल, आदि से अन्न वस्त्र का काम चलता था। बाद में समय बदला ; मनुष्यों की संख्या बढ़ी ; खेती आवश्यक हुई ; उस के सम्बन्ध में झगड़े होने लगे ; राजा बनाये गये , राजाओं में युद्ध होने लगे ; सब मनुष्य चिंता-ग्रस्त, सब काम अस्त-व्यस्त, होने लगे। तब उस व्यापक दीनता, हीनता, क्षीणता, को दूर करने के लिए, वृद्धों ने कठिन तपस्या कर के, गम्भीर ध्यान कर के, पुरुष की प्रकृति का, आत्मा-जीवात्मा-परमात्मा के स्वभाव का, स्वरूप का, दर्शन किया ; और उस ज्ञान की शिक्षा अधिकारियों को दिया। तब राज-कार्य, समाज-धारण-कार्य, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के साधन का कार्य, अच्छी रीति से चलने लगा। राजाओं को प्रजापालन रूपी अपना परम कर्तव्य करने में सहायता देने के लिए, उचित मर्यादा और नियम का विधान करने के लिये, चित्त को स्वस्थ और हृदय को साहसी और शूर बनाने के लिये, यह महा-ज्ञान-दृष्टि, ज्ञानरूपी दर्शन, यह आत्मविद्या, सम्यग्दृष्टि, सम्यग्दर्शन महर्षियों ने राजाओं को पहिले पहिल सिखाया। इस लिये इस का नाम राजविद्या, राजगुह्य, पढ़ा।'

शुक्रनीति में कहा है कि राजा को चार विद्या सीखनी चाहिये। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, और दण्डनीति। आजकाल के शब्दों में (१) 'फिलॉसोफी' और 'साइकालोजी', (२) 'रिलिजन', 'थियोलोजी' और 'एथिक्स' या 'मॉरल्स', (३) 'इकोनामिक्स' (४) 'पॉलिटेक्स' और 'लॉ'।'

मनु ने भी कहा है—

वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन् ;

तेऽभ्योधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

आन्वीक्षिकीमात्मविद्यां, वार्त्तारम्भांश्च लोकतः,

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् ।

सूक्ष्मतां चान्वेक्षेत योगेन परमात्मनः,

देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ।

प्रदीपः सर्व-विद्यानां, उपायः सर्व-कर्मणां,

आश्रयः सर्वधर्माणां, सा इयं आन्वीक्षिकी मता । (न्याय-भाष्य)

'इस को जान कर, आत्मा के तात्त्विक स्वरूप को और सुख-दुःख के तत्त्व को पहिचान कर, हर्ष-शोक के द्वंद्व मोह में नहीं पड़ता; शान्त स्वस्थ चित्त से, फल में आसक्त न हो कर, सब कर्तव्य कर्म दृढ़ता से करता है। यह आन्वीक्षिकी विद्या सब विद्याओं का दीपक, सब कर्मों का उपाय, सब धर्मों का आश्रय है। राजा को चाहिये

कि विद्वान् वृद्धों की नित्य सेवा-शुश्रूषा करै, उन से यिनय डिस्प्लिन^१ सदा सीखता रहै; आन्वीक्षिकी अर्थात् आत्मविद्या को और धर्मशास्त्र और दण्डनीति को भी उन से सीखै; तथा वार्ता अर्थात् वाणिज्य व्यापार का ज्ञान, लोक-व्यवहार को देख कर सीखै । राजकार्य करने वाले के लिये आत्मज्ञान परम उपयोगी है, सब कर्मों का उपाय है, सब धर्मों का आश्रय है'—यह बात ध्यान देने की है । संन्यासावस्था में तो, सब योनियों में आत्मा की उराम और अधम गति का 'अनु-अव-ईक्षण', विचार द्वारा, पीछे पीछे चल कर, खोज कर, देखना पहिचानना, उचित है ही ।

बिना सदाचार के वेदान्त व्यर्थ

गीता में भी स्पष्ट कहा है, और दो बार कहा है—

लभते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः,
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।
संनियम्येंद्रियग्रामं, सर्वत्र समबुद्धयः,
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।

सर्वभूतों, प्राणियों, के हित में सर्वदा रत हुए बिना ब्रह्मज्ञान सम्पन्न नहीं होता ।

आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः,
यद्यप्यधीताः सह पङ्क्तिरंगैः
छन्दांस्येन मृत्युकाले त्यजन्ति,
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ।

'दुराचारी जीव को, मृत्यु के समय, षड् अङ्गों सहित भी पढ़े हुए वेद, सब छोड़ कर चले जाते हैं; जैसे पर होने पर, चिड़ियों के बच्चे, मल से भरे खोंते को छोड़ कर उड़ जाते हैं ।' दुराचारी जीव का चिरा तो उन्हीं दुराचार की बातों को अन्तकाल में याद करता है; सब पढ़े लिखे को स्वयं भुला देता है ।

वेद-वेदान्त की पुस्तकों को कितना भी रट डालै, पर यदि तदनुकूल शुद्ध सदाचारी न हो; घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, रज्जुसर्प, जपाकुसुम, शुक्तिरजत, मरुमरीचिका, जगन्मिथ्या, ब्रह्म-माया, आदि शब्द जिह्वा से कितना भी बोलै, पर यदि मन से निर्मम, निरहङ्कार, निस्स्वार्थ, शांत, दान्त, मैत्र, और शरीर से सद्वर्मानुसारी न हो; अथवा, यदि मन से और शरीर से, मनुष्य-सुलभ, अविद्याकृत, भूल चूक पाप

१ Philosophy, psychology; religion; theology, ethics, morals; economics; politics, law.

२ Discipline.

हुए हैं, तो उन' का पश्चात्ताप, प्रख्यापन, प्रायश्चित्त न किया हो, और गीता, के शब्दों में, 'सम्यग्भ्यवसित' न हो गया हो; तो उस मनुष्य को सद्गति नहीं मिल सकती ।

ख्यापनेन, ऽनुतापेन, तपसा, ऽध्ययनेन च ।
 पापकृन् मुच्यते पापात् , प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ।
 यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वाऽनुभाषते,
 तथा तथा, त्वचा इव ऽहिः, तेन ऽधर्मेण मुच्यते ।
 यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति,
 तथा तथा शरीरं तत् तेनऽधर्मेण मुच्यते ।
 कृत्वा पापं तु, संतप्य, तस्मात्पापात् प्रमुच्यते,
 नैव कुर्याम् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः । । मनु० अ० ११)
 यं यं वऽपि स्मरन् भावं त्यजत्यंते कलेवरम्,
 तं तमेवैति, काँतेय !, सदा तद्भावभाषितः ।
 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्,
 यः प्रयाति, स मद्भावं याति, नऽस्त्यत्र संशयः । (गीता)
 याऽन्ते मतिः, सा गतिः । (आभाणकः)

'अपने किये पाप पर पछतावा, पश्चात्ताप, कर के, किसी सज्जन सत्पुरुष से उस का प्रख्यापन कर के, तथा पाप का उचित प्रायश्चित्त कर के, मनुष्य पाप से छूटता है । ज्यों ज्यों वह पछताता है, ज्यों ज्यों वह दूसरों से कहता है कि मुझ से यह पाप हुआ, ज्यों ज्यों वह उस अधर्म कर्म की अपने मन में निन्दा करता है, ज्यों ज्यों निश्चय करता है कि अब फिर ऐसा न करूँगा, त्यों त्यों उस का मन और शरीर शुद्ध होता है, और उस पाप से मुक्त होता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली से छूटता है । शरीर छोड़ने के समय, जिस भाव का स्मरण जीव करता है, वही भाव उस को नये जन्म में पुनः मिलता है । और जिस भाव का, अपने जीवन-काल में उस ने अधिकतर अभ्यास किया है, उसी का स्मरण अन्त समय होता है ।' इस लिये, तीन आश्रमों में, धर्मानुसार, तीनों सहजात ऋणों को चुका कर, और सांसारिक भावों और वासनाओं का भोग और व्यय और क्षय कर के, जो जीव, चतुर्थ आश्रम में, निष्काम, निर्मम, निरहंकार हो कर, अंतकाल में, सर्व-व्यापी, 'मां' 'अहं', आत्मा की धारणा करता हुआ, शरीर को छोड़ता है, वह, निःसंशय, परमात्मा को पाता है, 'मद्-भाव' को, 'मेरे' परमात्म-भाव, ब्रह्मभाव, सर्वव्यापकत्व भाव को, प्राप्त होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है ।'

धर्मसार धर्मसर्वस्व की नीवी—सर्वव्यापी चैतन्य आत्मा

और एक तरफ की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। सब धर्मों, सब मजहबों, का यह निर्विवाद सिद्धांत है कि,

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैव स्वधार्यनाम्,
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।
यद्यदात्मनि चेच्छेत् तत्परस्यापि चिंतयेत् । (म० भा०)
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो, ऽर्जुन !
सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः । (गीता।)

‘जैसा अपने लिये चाहो वैसा दूसरे के लिये भी चाहो। जो अपने लिये न चाहो वह दूसरे के लिये भी मत चाहो। जो अपने ऐसा सब का सुख दुःख समझता है, वही सच्चा, परा काष्ठा का, योगी है।’

अफ़ज़लुल् ईमानिउन् तोडिब्बा लिन्नासे मा तोहिब्बो
लि नफ़िसका; व तक्रहो लहुम् मा तक्रहो लि-नफ़िसका । (हदीस)
इ अन्दू अदर्स ऐज यी बुड दैट् दे शुड् इ अन्दू यू । दिस इज़्
दि होल् आफ़ दि ला ऐण्ड दि प्राफ़ेट्स । (बाइबल)†

आचार नीति के इस व्यापक सिद्धांत को जैसे मनु, कृष्ण, व्यास आदि ने कहा है, वैसे ही बुद्ध, जरथुख, वर्धमान महावीर जिन, मुसा, ईसा, मुहम्मद आदि अवतारों, महर्षियों, पैगम्बरों, मसीहों, रसूलों, नबियों, ऋषियों ने भी कहा है। केवल भाषा का भेद है, अर्थ का अणुमात्र भी भेद नहीं है। सिद्धान्त को कह कर सब यह कहते हैं, कि ‘यही धर्मसर्वस्व है,’ यही सब से ऊँचा ‘अफ़ज़ल’ ईमान है। यही ‘होल’ अर्थात् समग्र धर्म और उपदेश है।

पर इस आचार के सिद्धान्त का हेतु क्या है ? इस का हेतु एकमात्र आत्मज्ञान का परम सिद्धान्त ही है, अर्थात् एक परमात्मा, एक चैतन्य, सब में व्याप्त है। यदि ऐसा न हो, तो कोई भी स्थिर हेतु उस आचार-सिद्धान्त के लिये नहीं मिलता। यदि उपकर्ता वा अपकर्ता, उपकृत वा अपकृत से, सर्वथा भिन्न, सर्वथा पृथक् होता, तो वह उस का उपकार वा अपकार ही न कर सकता, न लौट कर उस का फल उस को मिल सकता। दोनों सदा सम्बद्ध हैं; सब में एक ही चेतना व्याप्त है, इसी

† Do unto others as ye would that they should do unto you; Bible.

कारण से किसी को सुख वा दुःख देना, पुण्य वा पाप करना, अंततः अपने को ही सुख या दुःख देना है, अपने ही साथ पुण्य वा पाप करना है। इसी लिये पुण्य वा पाप का फल अवश्य मिलता ही है; क्योंकि रुचमुच कोई दूसरा तो है ही नहीं, जिस को सुख या दुःख दिया गया हो; 'दूसरा'—यह भ्रम ही। अस से 'दूसरा' समझ के 'दूसरे' को दिया; अस्ल में अपने ही को दिया। इस लिये घूम फिर कर, 'शनैरावर्त्तमानस्तु' (मनु), वह सुख वा दुःख, जहाँ से दिया जाता है, वहीं वापस आ जाता है। इसी हेतु से पाप के पीछे पश्चात्-त्ताप, और पुण्य के पीछे सन्तोष, पश्चात्-तोष, लगा हुआ है। अपने भीतर से ही, अन्तर्यामी, अन्तःसाक्षी, क्षेत्रज्ञ, अन्तरात्मा की प्रेरणा से ही, पाप के लिये पश्चात्ताप फिर प्रख्यापन, और प्रायश्चित्त होता है। कभी देर में, कभी जल्द। इस प्रकार से, व्यापक 'ब्रह्म' ही व्यापक 'धर्म' का; सनातन परमात्मा ही, सनातन धर्म का, धर्मसर्वस्व का; वेद-वेदान्तोक्त आत्मा ही वैदिक धर्म का; मानव (हृदि अयं) हृद्य मे स्थित चैतन्य ही, मानवधर्म का, धर्मसार और सार-धर्म का; एकमात्र आश्रय है।

'कारावास-परिष्कार,' 'सैक्रो-ऐनालिसिस', आदि

यहाँ प्रसंग प्राप्त होने से, एक बात लिख देना उचित जान पड़ता है। तथा, इस ग्रन्थ का एक मूल सिद्धान्त यह है, कि अध्यात्मशास्त्र जीवन के सभी व्यवहारों के शोधन के लिए परमोपयोगी है, इसलिए भी वह बात न्याय-प्राप्त है। वह यह है। केवल पश्चात्ताप (नदम), अथवा प्रख्यापन (एतराफ़), भी, पाप के मार्जन के लिए पर्याप्त नहीं है; प्रायश्चित्त, (कफ़फारा), भी जरूरी है; अर्थात् पाप से जितना दुःख किसी को पहुँचाया है, उस के तुल्य स्वयं कष्ट सह कर, उस को, या उस के स्थानीय किसी दूसरे को, सुख पहुँचा देना चाहिये। आजकाल 'प्रिज़न रिफार्म' कारागार-सुधार, की और जनता और अधिकारियों का ध्यान बहुत घूम रहा है। लोग विचरने लगे हैं कि कैदियों को कष्ट नहीं शिक्षा देनी चाहिये; उन के ओर वैर-निर्यातन (रिबेंज) और दंड ('पनिश्मेंट') का भाव नहीं, दया और सुधार का भाव रखना चाहिये। यह भाव एक हद तक निश्चयेन उचित है। पर याद रखना चाहिये कि सब मनुष्य, अतः सब अपराधी (मुज़्रिम), एक प्रकृति (फ़िज़त) के नहीं होते; चतुर्विध प्रकृति के लिए चतुर्विध दण्ड विहित हैं। अपराधी के ऊपर केवल

1 Prison-reform.

2 Revenge; Punishment.

दया करने का फल यह होगा कि अपराध बढ़ेंगे, और कारावास को दुष्ट बुद्धि के लोग आराम घर समझ कर वहाँ अधिकाधिक जाने का यत्न करेंगे। इस लिए अवश्यक है कि अपराधी को इस प्रकार की ‘शिक्षा’ दी जाय जिस से उस के मन में सच्चा पश्चात्ताप उत्पन्न हो, और वह उस प्रकार का ‘प्रायश्चित्त’ भी स्वयं करे। ‘सैकौ-ऐनालिसिस’^१ के शास्त्री लोग भी, इधर उधर भूल भटक कर, धीरे-धीरे, इसी निर्णय पर स्थिर होते जाते हैं कि ‘न्यूरोटिक’, (‘अपस्मार’ आदि के प्रकार के) रोगी का ‘री-एड्युकेशन’ होना चाहिये। जो गंभीर अर्थ पुराने ‘री-जेंरेशन’ ‘री-बर्थ’^२ का है, उस का एक अंश इस नये शब्द में यथाकथंचित् आ जाता है। संस्कृत के बहुवचनपूर्ण शब्द, ‘द्वितीय जन्म’, ‘उप-नयन संस्कार’, ‘पुनः-संस्कार’ आदि, इसी भाव का अधिक गंभीरता पूर्णता से कहते हैं।

दर्शन की परा काष्ठा

प्रस्थान के भेद से दर्शन का भेद होते हुए भी, दर्शन की परा काष्ठा यही है कि, जैसे पंचशिखाचार्य ने कहा है, ‘एकमेव दर्शनम्, ख्यातिरेव दर्शनम्।’ इस सूत्र की चर्चा पहिले भी इस ग्रन्थ में आ चुकी है। ‘सम्यक् ख्यानं ख्यतिः, संख्यां, संख्या, सांख्यं।, अच्छी रीति से जानना। ‘संख्या’ शब्द गिनती का वाचक इस लिए हो गया है कि जब किसी विषय के सब अंगों की गिनती गिन ली जाती है तब वह सर्वथा विदित निश्चित हो जाता है। विश्व में पचीस ही तत्त्व हैं, ऐसी गिनती जब गिन ली, तब विश्व संख्यात, सम्प्रज्ञात, हो गया, और इस सम्यक्-ख्यान-शास्त्र का नाम ‘सांख्य’ शास्त्र हो गया। ऐसा भान होता है कि भगवद्गीता के समय में सांख्य और वेदान्त का प्रायः वैसा भेद नहीं माना जाता था जैसा अब। वेदान्त में सांख्य अंतर्गत था, तथा योग भी। गीता का श्लोक है।

यदा मूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति,
तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा।

यहाँ, भूतों के पृथग्भाव को एकस्थ देखना — यह विशेष रूप से वेदान्त का विषय कहा जा सकता है; तथा, एक म से सब पृथग् भाव के विस्तार की प्रधान, — ज्ञान, अहंकार, मनस्, दस इंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, और इन से बनी

१ Psycho analysis. इस ग्रन्थ के तृतीय अध्याय को देखिए; उस में इस ‘नये शास्त्र’ का चर्चा की गई है।

२ Neurotic; re-education; re-generation; re-birth.

अनंत ‘असंख्य’ सृष्टि का ‘संख्यान’—यह ‘सांख्य’ का विशेष विषय कहा जा सकता है। एक को ‘ज्ञान’ ‘प्रज्ञान’ ‘मेटाफिजिक्स’ ‘फिलोसोफी’, दूसरे को ‘विज्ञान’ ‘फिजिक्स’ ‘सार्थस’ कह सकते हैं।^१ परम-आत्मा में, मन का, विविध अभ्यास और वैराग्य से, योजन करना ‘योग’ है।

दर्शन तो एक ही है। आत्मा को, पुरुष को, प्रकृति से, अन्य जानना, ‘मैं यह शरीर नहीं हूँ’, ऐसा जानना, यही आत्मा का दर्शन है; और कोई दूसरा दर्शन नहीं है। पुरुष, परमात्मा, के स्वरूप को जानना; प्रकृति, स्वभाव, माया, के स्वरूप को जानना; इन दोनों के परस्पर अन्यत्व-रूपी इतरत्व-रूपी सम्बन्ध को जानना, ‘मैं-वह-नहीं हूँ,’ ‘अहं-एतत्-न,’ ‘अहं अन्यत्-न,’ अर्थात् यह जानना कि पुरुष ‘की’ होती हुई भी प्रकृति, पुरुष से अन्य है, भिन्न है; तथा ‘अन्यत् न’ ‘अन्य’ पदार्थ, परमात्मा से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, असत् है; एक चेतन चिन्मय परमात्मा की एक चेतना का एक स्वप्न, सब अपने भीतर भीतर ही, ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञान मय, एष्टा-इष्ट-इच्छा मय, कर्त्ता-कर्म-क्रिया-मय, भोक्ता-भोग्य-भोग-मय, सुख-दुःख-मय, समस्त संसरण, खेल है, क्रीड़ा, लीला, मनो-विनोद है—यही एक मात्र ‘दर्शन’ है।

इस वेदांत दर्शन से, इसी में, अन्य सब दर्शनो का समन्वय हो जाता है।

रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामवर्णव इव ।
(शिव-महिम-स्तुति)

सर्वसमन्वय

दर्शनो पर अनन्त पोथियों लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, और लिखी जायेंगी।

नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ।

इस विस्तार में न पड़ कर, एक दो सूचना, दर्शन के ज्ञानसार, इच्छासार, और क्रियासार अंगों के विषय में कर देना उचित जान पड़ता है। आर्ष-बुद्धि सदा समन्वय, सम्मेलन, सौमनस्य, साम्मनस्य, सम्वादा, संगति, बिरोध-परिहार, कलह-शमन पर अधिक ध्यान देती रहती है।

सर्वसम्वादिनी स्थविरबुद्धिः ।

१ Metaphysics ; Philosophy ; Physics ; Science.

इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां कविभिः कृतम् ;
 सर्वं न्याय्यं युक्तिमस्वात् , विदुषां किमसाम्प्रतम् । (भागवत)
 समानमस्तु वो मनो, समाना हृदयानि वः ।
 सं गच्छध्वम्, सं वदध्वम्, सं वो मनांसि जानताम् । (वेद)

‘बूढ़े आदमियों की बुद्धि, विवाद करते हुए युवकों में सम्वाद, मेल, कराने की ही फिक्र में रहती है । एक मन के, एक हृदय के, हो जाओ; समान विचार विचारी, समान बात बोलो, साथ साथ चलो । सृष्टि के, जगत् के, संसार के, मूल तत्त्वों की गिनती, व्याख्या, संख्या, कवियों ने नाना प्रकार से की है; सभी प्रकार, अपनी अपनी दृष्टि से, न्याय-संगत है; सब के लिये विद्वान् लोग युक्तियां बताते ही हैं; उन में कोई अपरिहार्य विरोध नहीं है ।’

यह बात इसी से प्रसिद्ध होती है कि ‘वेद भगवान्’ के मूर्त रूप की उत्प्रेक्षा मय, कल्पना में, सब विद्या, सब शास्त्र उसी के अंग और उपांग बनाये गये हैं । न किसी का किसी से विरोध नहीं है, प्रत्युत सब की सब के साथ सह-कारिता सहायता है । जैसा पहिले कहा,

मूर्तिमान् भगवान् वेदो राजतेऽङ्गैः सुसंहतैः;
 छन्दः पादौ स्मृतावस्य, हस्तः कल्पोऽथ पश्यते,
 मुखं व्याकरणं प्रोक्तं, शिक्षा घ्राणं तथोच्यते,
 ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोतमीर्यते,
 आयुर्वेदः स्वयं प्राणः, धनुर्वेदो महाभुजौ,
 गान्धर्वो रससम्प्लावः , शिल्पवेदोऽस्थिपंजरः ,
 कामशास्त्रं तु जघनं, अर्थशास्त्रमथोदरम् ,
 हृदयं मानवो धर्मः, मूर्धा वेदान्त इष्यते ।

‘मूर्तिमान् भगवान् वेद के पैर छन्द हैं, हाथ कल्प, मुख व्याकरण, नासिका शिक्षा, नेत्र ज्योतिष, कान निरुक्त, प्राण आयुर्वेद, भुजा धनुर्वेद, शरीर में रसों का सम्प्लाव गान्धर्ववेद, अस्थि-पंजर शिल्पवेद (स्थापत्यवेद) अथर्ववेद, कमर काम-शास्त्र, उदर अर्थ-शास्त्र, हृदय मनुष्यदिष्ट मानव-धर्म, और मूर्धा वेदान्त है ।’

स्वप्न और भ्रम भी, किन्तु नियम-युक्त भी

सब शास्त्रों के मूर्धन्य, इस अघ्यात्म-शास्त्र का निष्कर्ष यही है कि मैं, आत्मा, परमात्मा, अजर, अमर, अक्षर, अखंड, अव्यय, अक्रिय, अविनाशी, अपरिणामी,

देश-काल-क्रिया से अतीत, अवस्था-निमित्त-भेद से परे, सब नामो-रूपोंकर्मों का धारण करने वाला भी, और उन सब से रहित भी, निख, सर्वगत, सर्वव्यापी, अचल, स्थाणु, सनातन, एकरस चैतन्यमात्र 'है' और 'हूँ'। ये सब विशेषण आत्मा मे, 'मै' मे, और 'मै' मे ही, किसी अन्य पदार्थ मे नहीं, उपयुक्त, चरितार्थ होते हैं। 'मै'—ग्रह-शरीर-नहीं 'है', नहीं 'हूँ'।

'नाहं देहो, न मे देहो'। यह ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-युक्त इच्छामय शरीर भी, और 'इदं', 'एतत्', 'यह' सब विषय रूप प्रतिक्षण परिणामी, परिवर्ती, आवर्ती, विवर्ती सदा विकारी, देश-काल-क्रिया से परिमित, नाना-मय, भेद-मय, नाम-रूप-गुण-दोष-मय, नश्वर, चंचल, दृश्य, प्रत्यक्ष ही चक्रवत् चक्रर खाने वाला, 'भ्रमने' वाला, कुटिल गोल घूमने वाला, (कुटिलं च सततं च अहर्निशं गच्छति, जंगम्यते, इति) जगत्—'यह' सब मेरा, 'मै' का, स्वप्न है, मन का खेल है।

पर खेल और स्वप्न होता हुआ भी नियमयुक्त, नियतियुक्त, मर्यादाबद्ध, 'आर्डर्ड',^१ क्रायदो का पाबन्द, है। द्वंद्वमय है, इसी से नियमित है। जितना आय उतना व्यय, जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया, जितना गमन उतना आगमन, जितनी रात उतना दिन, जितना उजेला उतना अँधेरा, जितना लहना उतना पाबना, जितना लेना उतना देना, जितना रोना उतना हँसना, जितना सुख उतना दुःख, जितना जीना उतना मरना, जितना एक ओर जाना उतना दूसरी ओर जाना, घूम फिर कर हिसाब बराबर हो जाना, संकलन-व्यवकलन गुणन-विभाजन मिल कर शून्य हो जाना—यही मुख्य नियम है। तभी तो दोनो को मिला कर, दोनो का परस्पर आहार विहार परिहार संहार करा कर, सदा निर्विकार, महाशून्य, महाचैतन्य, एकरस, क्रमातीत, 'ला-शै', 'ला-ब-शक्ति-शै', 'जाति-ला-सिफ़ात', 'जाति सादिज', सिद्ध होता है; और तभी अनन्त असंख्य द्वन्द्वों के दोनो प्रतिद्वन्द्वियों के, जोषों के, 'जिदैन' के, जौजैन' के, क्रमिक प्रवर्तन, निवर्तन, विवर्तन, आवर्तन, अनुवर्तन से, संसार मे सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा, प्रतिक्षण, प्रतिस्थल, प्रतिप्रकार कुटिलगमन, चक्रबद् भ्रमण, 'भ्रम', देख पड़ता है। शरीर मे रुधिर चक्रर खा रहा है आकाश मे 'ब्रह्म के अण्ड' ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा चक्कर खा रहे हैं, इवा-स-प्रवास, जागरण-शयन, आहरण-विसर्जन, दिन रात, शरद् हेमन्तौ, शिशिर-वसन्तौ, वर्षा-ग्रीष्मौ, चक्कर खा रहे हैं।

संसार के जितने भी, जो भी, नियम हैं, वे सब इसी क्रिया-प्रतिक्रिया, द्वंद्वी-

^१ Ordered (i. e. governed by laws, by a 'Whirled World-Order).

प्रतिद्वंद्वी की तुल्यता और चक्रवर्धमण रूसी मुख्य नियम के, जहाँ से चलना वहीं घूम कर लौटने के, अत्रांतर रूप ही हैं ।

मुख्य द्वंद्व, मानव-जीवन में, जन्म-मरण, वृद्धि क्षय, जागरण स्वप्न, सुख-दुःख हैं । इन के अत्रांतर मुख्य द्वन्द्व, जीवात्मा की व्यवहारि 6 दृष्टि से, ज्ञानांग में सत्य-असत्य (तथ्य-मित्थ्या), इच्छांग में काम क्रोध (राग-द्वेष), क्रियांग में पुण्य-पाप (उपकार-अकार, धर्म-अधर्म) हैं । परमात्मा की पारमार्थिक दृष्टि से, “द्वंद्वविमुक्ताः सुख-दुःख-संज्ञैः” की दृष्टि से, ‘चिद्-अंग’ में, सत्यासत्य के परे, और दोनो की संग्राहक, ‘मा-या’ (‘ब्रह्म सत्यं जगन्मित्था’); ‘अनन्द-अंग’ में, राग-द्वेष के परे, ‘शांति’ (‘योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते’); ‘सद् अंग’ में, पुण्य-पाप से परे, ‘पूर्णता’, ‘निष्क्रियता’, (‘पूर्णस्य पूर्णमाशय पूर्णमेवावशिष्यते’, “न पुण्यं न च वा पापं इत्येषा परमार्थता”) ।

पारमार्थिक ‘अभ्यास-वैराग्य’ के द्वन्द्व से सांसारिक ‘आवरण-विक्षेप’ द्वन्द्वों का जय

मायादेवी अर्थात् ‘अविद्या-अस्मिता’ की दो शक्तियाँ, ‘आवरण’ और ‘विक्षेप’; इन शक्तियों के प्रथम युग्म सन्तान कहिये, अन्न-शस्त्र कहिये, काम-क्रोध, राग-द्वेष, हैं; ये ही विविध रूप धारण कर के, जीव की आँख पर, बुद्धि पर, ‘दर्शन-शक्ति’ पर, ‘आवरण’, शारीर अस्मिता-अहंकार का पर्दा, (मैं अनत अनादि अजर अमर परमात्मा नहीं हूँ, मैं यह मूठी भर हाड़ मांस का नश्वर शरीर हूँ, ऐसे भ्रम का पर्दा) डाल कर, उस को अन्धा बना कर, सांसारिक शरीर सम्बन्धी क्षोभों से ‘विक्षिप्त’ कर देते हैं; उस का विक्षेपण ‘प्रक्षेपण’ कर देते हैं; ‘सत्य-प्रिय-हित’ मार्ग से बँहका कर, असत्य-अप्रिय-अहित, अनुचित, अधर्म्य मार्ग पर धक्का दे कर दौड़ा देते हैं, लुडका देते हैं । ढकेल देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं । माधारण वार्तालाप में कहा जाता है कि काम क्रोध-लोभ आदि आदमी को अँधा कर देते हैं, उस को कुराह में दौड़ा देते हैं ।

काम एव क्रोय एव...विद्धि एनमिह वैरिणम् ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ।

कृष्ण के चार हज़ार बरस बाद मौलाना रूम ने भी इस तथ्य को पहिचाना और कहा है,

स्वश्मो शङ्कत् मर्दं रा अहल कुनद्,
ज़िस्तिक्लामत् रुह रा मुन्दल् कुनद् ।

चूँ खुदी आमद् खुदा पोशीदः शुद्,
सद् हिजाव् अज् दिल् ब सूये दीदः शुद् ।

‘खश्म और शइत, क्रोध और काम, आदमी को अह्वल, केकर, भेंगा, तिर्यग्-दृष्टि, बना देते हैं; रूह को, जीव को, इस्तिक्कामत से, सीधे मार्ग से, बदल कर, टेढ़ी राह पर ले जाते हैं। जहाँ खुदी (स्वार्थ) आई, वहाँ खुदा (परमार्थ) छिपा और दिल से सौ हिजाब, पर्दे, निकल कर, आँखों पर पड़ जाते हैं।’

जीव को, जीवन्मुक्तावस्था में भी, इन से सदा सावधान रहना और सदा लड़ते ही रहना चाहिये। नहीं तो

विरक्तमन्यानां भवति विनिपातः शतमुखः ।

‘जो मनुष्य अपने को विरक्त मानने कहने लगते हैं वे सौ सौ बेर नीचे गिरते हैं।’

परमात्मा के सर्वव्यापी और सर्वान्तर्गामी, शारीर-‘अहंता’ से अतीत, सार्विक-‘अहंता’ के ‘अभ्यास’ से ‘आवरण’ शक्ति का, और सांसारिक विषयों की ओर ‘वैराग्य’ से ‘विक्षेप’ शक्ति को, तथा शम-दम-उत्तरति-तितिक्षा-श्रद्धा-समाधान रूप साधन-षट्क से काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सर रूप षड्रिपु को जीतना चाहिये। यदि इस में कठिनाई हो, तो इन्हीं के बल से इन को जीतने का जतन करना चाहिये, ‘कँटकेनेव कंटकं’। कुडु चोरों को आत्मीय बना कर, अपना कर, और पहचाना पुलिस यामिह चौकीदार बना कर, बाकी चोरों को रोकना चाहिये। यथा—

कामश्चेद् यदि कर्त्तव्यः, क्रियतां हरिपादयोः ;
क्रोधश्चेद् यदि न त्याज्यः, पापे तं सुतरां कुरु ;
लोभो यद्यनिवार्यः स्यात्, धार्यतां पुण्यसंचये ;
मोहश्चेद् बाधते गाढं, मूढो भक्त्या हरेर्भव ;
मदो मादयति त्वां चेद्, विश्वप्रेममदोऽस्तु ते ;
मत्सरो यदि कर्त्तव्यो, हेतौ तं कुरु, मा फले ।

(मार्कण्डेयपुराण)

१ अस्मिता-अहंकार से राग-द्वेष की, तथा इन दोनों से षट् की, और उन से संकड़ों मानस भाव-विकारों, क्षोभों, संभ्रंभों, वेगों वा उद्वेगों, ‘ईमोशनस्’, ‘जज़्बात’ की, उत्पत्ति कैसे होती है—इस का वर्णन, विस्तार से, The Science

यदि काम नहीं मानता तो, ‘हरति बन्धं दुःखं इति हरिः, हरः ;’ परमात्मा के कला-रूप, विभूतिरूप, किसी उत्तम इष्टदेव के, ‘हरि’ के वा ‘हर के, चरणों के दर्शन-स्पर्शन की घोर कामना करो। ‘आशिके जार हूँ मैं, तालिबे आराम नहीं’। क्रोध नहीं रुकता तो षाप के ऊपर दिल खोल कर क्रोध करो न ? यदि लोभ नहीं मानता तो पुण्य के संचय करने में उस को लगा दो और खूब पूरा करो। यदि मोह बाढ़ पर है तो हरि-भक्ति में, हर-भक्ति में, अल्ला के इस्के-हक़ीकी में, ‘गाड’ ‘खुदा’ के ‘डिवोशन’ में, लोकमेवा में, ‘ख़िदमते-ख़ल्क’ में, ‘सर्विस आक ह्यूमैनेटी’ में गूढ़-मूढ़ हो जाओ।’ यदि मद जोर करता है तो विश्वप्रम के मद से मत्त, मस्त, भले ही होवो। यदि ईर्ष्या मत्सर का गलबा जजबा है, तो फल पर इसद मत करो, फल के हेतु पर डाह पेट भर के करो ; अथान यह ईर्ष्या मत करो, कि फ़लाना ऐसा सुखी है और हाय मैं नहीं हूँ ; बालक यह ईर्ष्या करो कि जिन गुणों के करण वा जिस पुण्यकर्म के हेतु से, ख़ैरात और सवाब के काम करने की वजह से, उस को ईश्वर ने, (या क़िस्मत, कर्म, स्वभाव, नियति, इच्छा, ‘चान्स’, ,फ़ैट’,- ‘मैटर’, ‘नेचर’^२ ने (जिस किसी शब्द पर तुम्हारा मन लुभावै और विश्वास करे) ऐसा मुख दिया है वैसे पुण्य कर्म मैं क्यों नहीं करत। इस रीति से यदि इन छः रिपुओं के, अन्तरारियों के, अन्दरूनी दुश्मनों के साथ व्यवहार किया जाय, तो इन के रूप का परिवर्तन हो कर, ये छः सच्चे मित्र बन जायें, ऐन हक़ीक़ी दोस्त हो जाय। अर्थात्, भक्ति ; दुष्ट-दंडन शक्ति ; परोपकारार्थ-विभूति-सञ्चय; करुणा-वात्सल्य के साथ-सथ ‘धर्मभीरता’, (क्योंकि मोह में करुणा, तथा भय-प्रयुक्त किं-कर्तव्य का अज्ञान, दोनों मिश्रित हैं) ; शौर्य वीर्य ; दुर्बल-रक्षा—इन छः के रूप में ये छः परिणत हो जायें। यद्यपि पुण्यकर्म साने की साँकल, और पापकर्म लोहे की साँकल है, पर आत्मदर्शी को भी, ‘लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि’, ‘मामनुस्मर युध्य च’, के न्याय से, अपने हाथों अपने गले में सोने की शृंखला डालना, और फिर समय आने पर खर्य उतार कर दूसरों को सौंप देना उचित ही है। इस की चर्चा भी उपनिषदों में, तथा मनुस्मृति में, की है। आत्मदर्शन का यह आवश्यक व्यावहारिक उपयोग है।

of the Emotions नाम की अंग्रेज़ी पुस्तक में, तथा संक्षेप से, ‘पुरुषार्थ’ नाम की पुस्तक के ‘रस-मीमांसा’ नामक अध्याय में मैं ने करने का यत्न किया है; तथा The Science of the Self में भी संक्षेप से।

१ God; devotion; service of humanity.

२ Chance; Fate; Matter; Nature.

दशन और धर्म से स्वार्थ भी, परार्थ भी, परमार्थ भी

केवल अनन्त वेदों पर विवाद कर के, बाल की खाल निकाल कर के, नितांत व्यर्थ कालक्षय और शक्ति का भोर अपव्यय करना, यह दर्शन का उद्देश्य नहीं है। दर्शन तो वह पदार्थ है, जिस से जनता का ऐहिक भी, आसुष्मिक भी, पारमार्थिक भी, बाह्य सांसारिक व्यवहार में और आभ्यन्तर आध्यात्मिक व्यवहार में भी, कल्याण सधैः; यदि नहीं सधता, तो जानना कि सच्चा दर्शन नहीं मिला; कोई कच्चा दर्शन ही मिला।

यदि शुद्ध सत्य दर्शन का प्रचार हो, (निरी कठ-हुज्जत और शुष्क तार्किक नियुद्ध मल्लयुद्ध का नहीं) तो अन्य सब कामों की अपेक्षा अधिक कल्याण, लोक का, इस से होगा। क्योंकि परस्पर-प्रेम, परस्पर-सदाचार, सब कर्मों के उपाय, सब धर्मों के आश्रय, सब धर्मों के समन्वय, सब वादों के संवाद, सब शास्त्रों के मर्म, की कुञ्जी इसी में है।

आश्रयः सर्वधर्माणां, उपायः सर्वकर्मणाम्,

प्रदीपः सर्वविद्यानां, आत्मविद्यैव निश्चिता।

यतोऽभ्युदय निश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः। (वैशेषिक-सूत्र)

‘जिस से इस लोक में अभ्युदय की, त्रिवर्ग की, अर्थात् ‘धर्म’ से अर्जित रक्षित ‘अर्थ’ द्वारा ‘काम’ की, सिद्धि हो, तथा ‘निःश्रेयस’, ‘मोक्ष’, की भी सिद्धि हो, वही तो ‘धर्म’ है।’ ‘सनातन’ क्यों ? तो,

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। (गीता)

‘सनातन, नित्य, सर्व-गत, सर्व-व्यापी, स्थाणु के ऐसा निश्चल, एक ही पदार्थ है—परमात्मा, ब्रह्म, चैतन्य; ‘अहम्’, ‘मै’।’

सोऽहमित्यग्रे व्याहरत् तस्मादहं-ः। माऽभवत्। (बृ० उ०)

अहमिति सर्वाभिधानम्। (नृसिंह उ०)

सब का नाम, सर्वनाम, ‘अहम्’, ‘मै’, है; सभी अपने को पहिले ‘मै’ तब पीछे अपर (‘और’, अन्य) नाम से कहता है। ‘मै’ राम, ‘मै’ कृष्ण, ‘मै’ बुद्ध, ‘मै’ मूसा, ‘मै’ जरथुस्त, ‘मै’ ईसा, ‘मै’ मुहम्मद, ‘मै’ नानक, ‘मै’ गोविन्द।

इस सनातन ब्रह्म के स्वभाव पर, इस की प्रकृति के तीन गुणों पर, सर्वकाल में प्रतिष्ठित, सर्व-देश-काल-अवस्था में अबाध्य, जो धर्म ही, वही ‘सनातन धर्म’ ही

सकता है। वह, गुण-कर्मके अनुसार, ‘वर्ण-आश्रम’ की व्यवस्था द्वारा, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की व्यवस्था करने वाला धर्म, वर्णाश्रम धर्म ही ‘सनातन’ धर्म है। उसी से अभ्युदय-निःश्रेयस की सिद्धि मनुष्यमात्र को हो सकती है; अन्यथा नहीं। पर खूब याद रहे, ‘गुणेन कर्म’, और ‘कर्मणा वर्णः’; ‘जन्मना वर्णः’ नहीं। ‘जन्मना वर्णः’ का अप-सिद्धान्त, अ-सिद्धान्त, कु-सिद्धान्त, नितांत दोषपूर्ण विचार अंगीकार कर लेने से ही तो भारतवर्ष और भारत-जनता का ‘धर्म’, इधर सैकड़ों वर्षों से, नितरां ‘अ-सनातन’, प्रतिपद विशीर्यमाण, हो गया है। परस्पर-वहिष्कार से परस्पर भेद-भाव, ईर्ष्या-द्वेष, अहंकार-तिरस्कार से भर कर कलुषित हो कर, सहस्रों पंथों, सम्प्रदायों, मतों, आचार-भेदों, से छिन्न-भिन्न, ढाई हजार से अधिक जाति-उपजाति उपोपजातियों की, वर्ण-उपवर्ण-उपोपवर्णों को, पैदा कर के, यह ‘हिन्दू’ धर्म कहलाने वाला धर्माभास, मिथ्या धर्म, उस के मानने वाले ‘हिन्दू’ कहलाने वाले समाज के साथ, प्रतिपद, प्रतिदिन, क्षय को प्राप्त हो रहा है। सच्चे सद्धर्म को तो सर्व-सम्राहक, सर्वाकर्षक, सर्व-प्रिय होना चाहिये। पर आजकाल, सैकड़ों वर्ष से यह ‘हिन्दूधर्म’ अध्यात्मशास्त्र और वेदान्त-दर्शन की भी दुर्दशा कर के, सर्व-विम्राहक, सर्वविद्रावक, सर्वोद्वेजक, सर्वकुत्सित हो रहा है; और कोटिशः मनुष्य इस को छोड़ कर अन्य धर्मों में चले गये, और जा रहे हैं। सच तो यह है कि यदि ‘कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त पर, जिस ही का ब्रह्मदेव ने पुनरुज्जीवन किया, यदि भारतीय धर्माधिकारी दृढ़ बने रहते, और कुमारिल, मंडन, शंकर आदि के समय से उस के पुनः त्याग का आरम्भ न हो जाता, तो आज इस देश में सिवा सनातन वैदिक धर्म के दूसरे धर्म का नाम भी न होता; प्रथमतः बाहरी कोई आक्रमण ही न कर सकता और यदि किसी तरह भारत के भीतर आ ही जाता, तो वह चातुर्वर्ण्य में अपनी योग्यता के अनुसार मिला लिया जाता।^१

यदि प्राकृतिक, स्वाभाविक, नैसर्गिक, गुण-प्राधान्य के अनुसार जीविका-कर्म की, और जीविका-कर्म के अनुसार वर्ण अर्थात् ‘पेशा’ की, व्यवस्था के शुद्ध आध्यात्मिक सिद्धान्त पर समाज का व्यवस्थापन, लोक का संग्रहण, किया जाय, तो आज ही यह क्षयरोग निवृत्त हो जाय, ‘हिन्दू-समाज’ का रूप ‘मानव-समाज’ का हो जाय, ‘हिन्दू’ कहलाने वालों के आपस के वैमनस्य मिट जायँ, और भारत-वासी अन्य अ हिन्दू समाजों से भी ‘हिन्दू’-समाज का वैर दूर हो जाय। जो वैर पुनः प्रतिदिन

१—हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष के कारण भारत-वर्ष के जो दो टुकड़े हो गये, और दारुण प्रजा-विनशन हो रहा है, उस की चर्चा ऊपर की गई है।

अधिकाधिक भयंकर रूप धारण कर रहा है।^१ चार पेशों और चार अवस्थाओं के साँचे ढाँचे में सारी दुनिया के सब मनुष्य अपने-अपने मजहब और कौम को बदले बिना, बैठा ल दिये जा सकते हैं, और समाविष्ट किये जाने चाहिये। तभी मनु के ये श्लोक चरितार्थ हो सकते हैं, जैसे होने चाहियें, कि

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः, त्रयो वर्णाः द्विजातयः ;
चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रो; नास्ति तु पंचमः ।
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशद् अग्रजन्मनः,
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

‘पुरुष की त्रिगुणात्मक, सत्त्व-रजस्-तमोगुणात्मक, प्रकृति के अनुसार, तीन प्रकार के, द्वि-ज, द्वि-जात, मनुष्य और एक प्रकार का एक-जाति मनुष्य, पैदा होते हैं। (१) सत्त्वाधिक, ज्ञान-प्रधान, विद्याजीवी, ज्ञानदाता, शिक्षक विद्वान्; (२) रजोऽधिक, क्रिया-प्रधान, शस्त्रजीवी, त्राणदाता, रक्षक वीर; (३) तमोऽधिक, इच्छा-प्रधान, वार्ताजीवी, अन्नदाता, पोषक दानी — यह तीन द्वि-ज होते हैं। अव्यंजितगुण, अर्थात् जिस में तीनों गुणों का साम्य है, तीन में से कोई एक गुण विशेष रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ है, भ्रमजीवी, सर्वधारक, सर्वसेवक, सहायक — यह एक-जाति है। पाँचवाँ प्रकार का मनुष्य पृथ्वी पर कहीं होता ही नहीं; जहाँ भी कहीं मनुष्य हैं, इन चार ही में से किसी न किसी प्रकार के हैं। एतद्देश, इस देश, भारतवर्ष में उत्पन्न, ‘अग्रजन्मा’ से, आत्मज्ञानी, तपो-विद्या-सम्पन्न, श्रेष्ठ विद्वान् से, पृथ्वी-तल के समस्त मनुष्यों को अपने-अपने स्वभाव और गुण के उचित स्व-धर्म-कर्म चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिये। ‘एतद्देश’ ही के विद्वान् से क्यों ? इस लिये कि मानव-जाति के उपलभ्यमान इतिहास में, भारतवर्ष में ही वेदान्त दर्शन अर्थात् अध्यात्म-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार, वर्णों (अर्थात् पेशों, रोजगारों, जीविका-कर्मात्माक वर्गों) और आश्रमों के विधान से, समाज की व्यवस्था, बुद्धि-पूर्वक की गई है; अन्य देश में अब तक नहीं हुई। किंतु अब सब देशों का संबंध हो जाने से सब में फैलना चाहिये।

‘द्विज’ कौन और क्यों, तथा ‘अग्रजन्मा’ कौन और क्यों ?

मानुरग्रेऽधिजननं, द्वितीयं मौंजिवन्धने । (मनु०)

१—इस प्रिय पर विस्तार से ‘मानव-धर्म-सारः’ और ‘पुरुषार्थ’ में लिखा है।

(प्रथमं पृथिवीलोके, आत्मलोके ततः पुनः,
द्विवारं जायते यस्मात् तस्माद् द्विज इति स्मृतः ।
अंतर्दृष्टिविकासेन, येनाऽऽत्मा सुसमीक्षितः,
स्वचित्तगुणदोषाणां परीक्षाकरणे क्षमः,
यश्च जातः, स एवास्ति द्विजातः, इति निश्चयः ।
मानवो जायमानो हि शिरसाऽग्रे प्रजायते,
ज्ञानेन्द्रियधरत्वाच्चाप्युत्तमांगं शिरः ‘स्मृतम् ।)
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । (गीता)
(सर्वेषां पुरुषार्थानां ज्ञानं साधनमुत्तमम् ।
निधीनामुत्तमश्चापि योऽयं ज्ञानमयो निधीः ।
अतो यो ह्यात्मविज्, ज्ञानी, विश्वमित्रं, तपोमयः,
‘अप्रजन्मा’ स वाच्यः स्यान्, नऽन्यस्तं शब्दमर्हति ।)

पहिला जन्म माता से, पृथ्वी-लोक में । दूसरा जन्म, आत्म-लोक में, अन्त-
र्दृष्टि के विकास से, जिस से आत्म-दर्शन होता है, और अपने चित्त के गुणों और
दोषों की परीक्षा करने की क्षमता उपजती है । जिस को यह दूसरा जन्म हो जाय
वही ‘द्विज’ है ।

‘मनुष्य का सिर आगे पैदा होता है, फिर घड़ और पैर; सिर ही में सब
ज्ञानेन्द्रियाँ एकत्र हैं; इस लिए सिर को ही ‘उत्तमाङ्ग’ कहते हैं । सत्य ज्ञान के ऐसा,
चित्त को और शरीर को पवित्र करने वाला दूसरा पदार्थ कोई नहीं है; सब पुरुषार्थों
का उत्तम साधन सज्ज्ञान ही है; सब निधियों में ज्ञान-धन ही उत्तम निधि है ।
इह लिए आत्मा का जानने वाला ज्ञानी, विश्वजनीन, विश्व का मित्र, ‘सर्वलोकहिते
रतः’, तपस्वी, निःस्वार्थी, जो मनुष्य हो, वही अप्र-जन्मा कहलाने योग्य है; दूसरे
किसी को यह नाम, यह शब्द, केवल किसी कुल में जन्म होने से, नहीं मिल सकता ।

‘दर्शन’ से गूढ़ार्थों का दर्शन

‘दर्शन शब्द का एक अर्थ दर्शनेन्द्रिय ‘आँख’ भी है । दर्शन शास्त्र के ठीक-ठीक
अध्ययन से नई ‘आँख’ हो जाती है, जिस से ‘पौराणिक’ पुरानी बातों का अर्थ नया
देख पड़ने लगता है, ‘प्रणवी’-भूत हो जाता है । सम्प्रदर्शन की ‘प्र-णवी’-भूत
आँख, भिन्न से भिन्न देख पड़ते हुए मतों में, एकता देख लेती है; देश-देश के वेप-
वेष में अपने को छिपाते हुए बहुरूपिया ‘मित्र’ को, ‘धार’ को, पहिचान ही लेती है ।

मित्रस्य चक्षुषा पश्येम । (वेद)
 पे ष चश्मानि दिल म बीं जुजू दोस्त,
 हर चि बीनी बिनाँ कि मज़हरि उस्त । (विताली)

'जो कुछ हम देखें, मित्र की, दोस्त की, आँख से देखें; सभी तो परमात्मा ही का, परम सखा जगदात्मा ही का, इज़हार हैं, आविष्कार है।' 'मित्र' नाम सूर्य का भी है; साक्षात् सब के प्राणदाता सूर्य हैं, सर्वात्मा के 'वरेष्यं भर्गः', 'तजल्ली खास', हैं। परमात्मा की दृष्टि से सब को देखो।

भागवत, महाभारत, आदि में बताया है कि, वैष्णव सम्प्रदाय में पूजित 'वासुदेव, सवर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध' के चतुर्व्यूह का आध्यात्मिक अर्थ, 'चित्त, अहंकार, बुद्धि, मनस्' है; तथा आदिनारायण का अर्थ परमात्मा है। अन्य अर्थ भी कहे हैं, यथा, भागवत, स्कंध १२, अ० ११ में, उक्त चार को तुरीय, प्राज्ञ, तैजस, विश्व कहा है; तथा, विष्णु की चार भुजा और शंख, चक्र, गदा, पद्म, आदि आयुध और आभूषणों का भी अर्थ कहा है। ऐसे ही, शैव सम्प्रदाय में, 'पंच ब्रह्म', अर्थात् 'सद्योजात, वामदेव, अशोर, तत्पुरुष, ईशान' का आध्यात्मिक अर्थ, पंच महाभूतों में विद्यमान व्यज्यमान चैतन्य ही है। तथा शक्तिसम्प्रदाय में 'दुर्गा' बुद्धि-शक्ति का, ज्ञान-शक्ति का; और 'राधा', 'प्राण-शक्ति', 'क्रिया-शक्ति', का; और 'उमा' 'इच्छा-शक्ति', मूल शक्ति, का नाम है। तंत्र शास्त्र में 'ऐं' ज्ञानशक्ति का, 'ह्रीं' और 'श्रीं' क्रियाशक्ति का, तथा 'क्लीं' इच्छाशक्ति का नाम है; इत्यादि।

'निरुक्त' नाम के वेदांग का उद्देश्य ही यह है, कि वेदों के शब्दों का 'निर्वचन', 'व्याख्यान', उचित रीति से किया जाय। अधिक ग्रन्थ इस विषय के लुप्त हो गये हैं; यास्क ही का 'निरुक्त' अब मिलता है, जो प्रायः दो वा ढाई हजार वर्ष पुराना कहा जाता है। इस में बतलाया है कि वैदिक शब्दों और मंत्रों के कई प्रकार से अर्थ किये जा सकते हैं, और सभी अभीष्ट हैं; याज्ञिक (आधि-दैविक), ऐतिहासिक (आधि-भौतिक), और आध्यात्मिक। आधि-दैविक और आधि-भौतिक अर्थों में अवान्तर प्रकार भी हैं; यथा, एक मंत्र का अर्थ, ज्योतिः शास्त्र ('ऐस्ट्रोनोमी') के तथ्यों का भी संकेत कर सकता है; प्राणि-विद्या ('बायोलोजी') के; शारीर-शास्त्र ('एनाटोमी फिसियॉलोजी') के; मानव-इतिहास प्रभृति के भी। आपाततः, यह असम्भाव्य जान पड़ता है; किन्तु 'समना न्याय', 'सम-दर्शिता-न्याय', 'उपमान-प्रमाण', पर गंभीर विचार करने से, 'जैसा एक, वैसे सब', 'ला आफ्र एनालोजी' पर ध्यान देने से, यह सर्वथा सम्भाव्य ही नहीं, अपितु (बल्कि) निश्चित जान पड़ने लगता है। जैसे एक दिन में सूर्योदय, राध्याह, सूर्यास्त, वैसे एक वर्ष में वसन्त-

ग्रीष्म, प्रातृट् वर्षा शरत्-शिशिर; वैसे एक जीवन में बाल्य-यौवन, तारुण्य-प्रौढ़ि, वार्धक्य जरा; यथा क्षुद्र-विराट्, वैसा ही महाविराट्; जैसा मनुष्य का एक दिन वैसा ब्रह्मा का एक युग, महायुग, कल्प, महाकल्प आदि; जैसा एक मनुष्य का जीवन, वैसी एक मानव उपजाति, जाति, महाजाति, 'ट्राइव', 'सब रेस', 'रेस' का; जैसा अणु वैसा सौर-सम्प्रदाय; 'ऐज़ दी ऐट्म, सो दी सोलर सिस्टम्'; 'ऐज़ दी माइक्रोकॉज़्म, सो दी मॉक्रोकॉज़्म' ।^१

रावान् अयं वै पुरुषः यावत्या संस्थया मितः,

तावान् असौ अपि महापुरुषो लोकसंस्थया ।

(भागवत, स्कंध १२, अ० ११)

त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः,...

...ब्रह्मांडसंज्ञके देहे यथादेशं व्यवस्थिताः । (शिवसंहिता)

शरीरस्थानि तीर्थानि प्रोक्तान्येतानि, भारत !,

शरीरस्य यथोद्देशः शरीरोपरि निर्मितः,

तथा पृथिव्याः भागाश्च, पुण्यानि सलिलानि च ।

(म० भा०, अनुशा, अ० ७०.)

'मनुष्य के शरीर में जो तत्त्व और अवयव हैं, वही तत्त्व और तादृश अवयव महाविराट् में भी हैं; जैसे पिंडांड वैसा ब्रह्मांड । जैसे मानव-शरीर में विशेष-विशेष अवयव, मस्तिष्क, मेरुदंड, षट्चक्र, कन्द, नाड़ी आदि 'तीर्थ' हैं, 'तरण' के, संसार से क्रमशः 'उत्तरण' के, तर जाने के, स्थान वा मार्ग हैं, वैसे ही पृथ्वी के विशेष-विशेष गुण रखने वाले पुण्यस्थल हैं, मानव-शरीर के अवयवों के 'सम', 'समान', 'अनुरूप' हैं' । यद्यपि,

अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः,

तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, तीर्थसारस्ततो गतः । (भागवत-माहात्म्य)

'वर्तमान कलिकाल में तीर्थों में प्रायः उग्र पाप करने वाले ही मनुष्य भर गये हैं, इस लिये सब तीर्थ सारहीन हो गये हैं ।'

आध्यात्मिक अर्थ ही इन सब अर्थों में मुख्य हैं; मनुष्य के निकटतम है; सब से

१ Astronomy ; biology ; anatomy physiology ; geology-geography ; physics-chemistry ; law of analogy ; tribe, sub-race, race ; 'as the atom, so the "solar system" ; 'as the microcosm, so the macrocosm'.

अधिक उपयोगी है। वेदों में, और जब वेदों की भाषा और संकेत लोक में दुर्बोध्य हो गए तब पुराणों और इतिहासों में, उस समय की बदली हुई बोली में, अर्थात् संस्कृत में, प्राचीन ऋषियों ने, वेद के आशयों को, आख्यानों और रूपकों में लिखा।

भारतव्यपदेशेन वेदार्थमुपदिष्टवान् ।

‘वेदव्यास जी ने वेद के अर्थ को महाभारत की कहानी के बहाने से लिख दिया’; जो सर्व-साधारण के समझने योग्य, मन बहलाने वाले कथानकों द्वारा, शिक्षा देने में समर्थ है। ये आख्यान अक्षरार्थ की दृष्टि से, बच्चों के लिए, मन-बहलाव के साथ-साथ, साधारण आचार नीति की शिक्षा देते हैं; गूढ़ार्थ की दृष्टि से, परिपक्व बुद्धि वालों को गम्भीर शास्त्रीय तथ्यों की शिक्षा देते हैं।

किन्तु काल के प्रवाह से, उन पौराणिक ऐतिहासिक रूपकों का अर्थ भी वैसा ही दुर्बोध हो गया, जैसा वैदिक मंत्रों का। जैसे एक मनुष्य की, बीमारी से, चोट से, वा वार्थक्य से, प्राणशक्ति क्षीण होने से, उस के शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, सभी दुर्बल हो जाते हैं; वैसे ही एक जाति वा समाज की संघ-शक्ति क्षीण होने से, उस का ज्ञान, उरसाह, शौर्य, समृद्धि, कला-कौशल, सभी शिथिल और क्षीण हो जाते हैं। सब हासों का मूल कारण शील-हास है। इस से परस्पर के सम्बन्ध को, संहनन, सघात, संघत्व को, दृढ़ करने वाले स्नेह प्रेम विश्वास का हास; उस से बुद्धि बल-शौर्य विद्या-लक्ष्मी-हास, सभी सद्गुणों का हास। महाभारत के शांति पर्व में, बलि और इन्द्र की कथा से, यह दिखाया है। शील का सार कहा है—‘अपने लिये जैसा चाहो वैसा दूसरे के लिये।’

‘उत्तमंग’, सब ज्ञानेन्द्रियों का, अंतःकरण का, आधार, सिर जब बिगड़ता है तब सब बिगड़ता है; ज्ञान प्रधान जीवों, समाज के शिक्षकों, में जब शील विकृत हुआ, स्वार्थ और दम्भ बढ़ा, तब क्रमशः अन्य सब अंग, बाहु, उदर, पाद, सभी में विकार उत्पन्न हुआ; सारा समाज भ्रष्ट हुआ।

ब्राह्मणं तु स्वकर्मस्थं दृष्ट्वा विभ्यति चेतरे,

नान्यथा, क्षत्रियाद्यास्तु, तस्माद् विप्रस्तपश्चरेत् । (शुक्रनीति)

‘ब्राह्मण को अपने धर्म कर्म में, सात्त्विक तपःसंग्रह और सात्त्विक विद्यासंग्रह में, प्रवृत्त देख कर, क्षत्रियादि अन्य वर्ण भी डरते हैं, और अपने-अपने उचित धर्म-कर्म में लगे रहते हैं; अन्यथा, नहीं लगते;’ जब ब्राह्मण, तारक की जगह मारक, शिक्षक की जगह बंचक, हो गया; तो क्षत्रिय भी रक्षक के स्थान में भक्षक, वैश्य भी पोषक के स्थान में मोषक, शूद्र भी सेवक के बदले धर्षक हो जाते हैं। इस लिये ब्राह्मण की सब से अधिक उत्तरदायिता, जिम्मादारी, है; उस को सब से अधिक आव-क है कि वह सात्त्विक तपस्या में, और सात्त्विक विद्या के अध्ययन और प्रचारण

मे, सदा लगा रहे। पर ऐसा क्रिया नहीं; तपस्या छोड़ दी, दंभ ओढ़ लिया; सद्विद्या खो दी, ठगविद्या और कऽहुज्जत गले लगाया। पौराणिक आख्यानो और रूपकों का सच्चा अर्थ भुला दिया गया; उन के संस्करण और सुप्रयोग के ठिकाने, दुष्करण और दुष्प्रयोग ही बढ़ता गया। उपयोगी और बुद्धिवर्धक शिक्षा देने के स्थान में अन्ध श्रद्धा ही बढ़ाई गई। जो कथानक, स्पष्ट ही, बुद्धिपूर्वक निर्मित है, गढ़े हुए बनाये हुए 'रूपक' हैं ('ऐलेगोरी' हैं); जिन के रूप ही से साक्षात् प्रकट होता है कि ये 'प्रतीक' ('फार्म्युला', 'सिम्बल') मात्र हैं; थोड़े शब्दों में बहुत आशय और अर्थ रख देने के लिये मंजूषा मात्र हैं; उन की भी व्याख्या अक्षरार्थ से ही की जाने लगी, और उसी अश्वरार्थ की ओर साधारण भोली जनता की अंध-श्रद्धा झुकाई गई, उन का मूढ़प्राह बढाया गया। कारण यही कि व्याख्याता लोगों के पास शील नहीं, सद्बुद्धि नहीं, सद्ज्ञान नहीं, बहुश्रुतता-बहुज्ञता नहीं; उन के स्थान पर दम्भ, अहंकार, कपट, 'बैडालत्रतिकता', 'बकत्रतिकता' अदि बहुत; जिस का मनु ने उग्र शब्दों में धर्षण किया है। इसी लिये मनु ने, व्यास ने, यह भी कहा है—

इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् ;
बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो, मामयं प्रतरिष्यति ।

'इतिहास-पुराण के द्वारा वेद का अर्थ समझना चाहिये। जो बहुश्रुत, बहु-शास्त्रज्ञ, नहीं है, वह वेद के अर्थ का अनर्थ कर डालेगा।' जब इतिहास पुराण का ही अर्थ भूल गया, तो उस से वेद वेदान्त के सच्चे अर्थ का उपवृंहण, उदाहरण, विस्तारण, निरूपण, कैसे हो ?

प्रत्यक्ष ही, प्रतिवर्ष कई बेर, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण के अवसर पर, यह दृश्य देख पड़ता है; काशी ऐसे स्थान में, गंगा में स्नान करने को, लाख लाख, दो-दो लाख, की भीड़, देहाती स्त्रियों पुरुषों की आ जाती है। उन को यही समझाया हुआ है, और समझाया जाता है, कि पुराणों में लिखा है कि 'सिंहिका' राक्षसी के पुत्र का सिर विष्णु ने चक्र से काट डाला; सिर 'राहु' हो गया; शरीर 'केतु' हो गया; सूर्य और चन्द्रमा ने, इशारे से, विष्णु को बताया था, कि सैहिकेय भी देवों की पंक्ति में, उन दोनों के बीच में, अमृत पीने को आ बैठा; इस द्वेष से, समय समय पर, कटा सिर जिसका नाम 'राहु' हो गया है, सूर्य और चन्द्रमा को निगलने के लिये दौड़ता है; स्नान करने से, और ब्राह्मणों को दान देने से ही, सूर्य और चन्द्रमा बच

सकते हैं और बचते हैं । ऐसे मिथ्या प्रचार की किन शब्दों में निन्दा की जाय ? ग़मे ही बहुविध शीलहास, सत्यहास, से ही तो भारत समाज का सर्वथा हास हो रहा है ।

मनु ने मानव समाज की सभ्यता, शिष्टता, व्यवस्था, तहजीब, तन्जीम, को दो त्रिकों की दोहरी-तिहरी नीवी, नीव, आधार, बुनियाद, पर दृढ़तर प्रतिष्ठित कर के ऊँची उठाया; “माता पिता तथाऽचार्यः” “ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः”, सती-माता, सत्पिता, सद्आचार्य, तथा मानृस्थानी सद्वैश्य, पितृस्थानी सत्क्षत्रिय, आचार्यस्थानी सद्ब्राह्मण; तत्रापि, विशेष महिमा सती पतिव्रता और संतति-व्रता और माता की, सद्ब्राह्मण की, सत्क्षत्रिय की ।

(ज्ञानदो ब्राह्मणः प्रोक्तः, त्राणदः क्षत्रियः स्मृतः,
प्राणवो ह्यन्नदो वैश्यः, शूद्रः सर्वसहायदः ।
शिक्षको ब्राह्मणः प्रोक्तः, रक्षकः क्षत्रियः स्मृतः,
पोषकः पालको वैश्यः, धारकः शूद्र उच्यते ।)
उपाध्यायान् दशाचार्यः, शताचार्यांस्तथा पिता,
सहस्रं तु पितृन् माता, गौरवेणातिरिच्यते । (म०)

‘ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहलाता है; त्राण देने वाला, क्षत्रिय; प्राण देने वाला, वैश्य; सहाय देने वाला, शूद्र । शिक्षक, ब्राह्मण; रक्षक, क्षत्रिय; पोषक-पालक, वैश्य; धारक, शूद्र । दस उपाध्यायों से बढ़ कर आचार्य का गौरव है, सौ आचार्यों से अधिक पिता, हजार पिताओं से बढ़ कर माता का गौरव गुरुत्व है’ ।

सती स्त्री की, सद्ब्राह्मण की, सत्क्षत्रिय (राजा) की, मनु ने, ऋषियों ने, देवों से भी अधिक प्रशंसा की है । परन्तु जब यह असत्, दुष्ट, पापी, भ्रष्टाचार ही जायँ, तो वैसी ही घोर निन्दा भी, इन्ही तीन की, किया है । तत्रापि, शिरःस्थान उत्तमांगस्थानी, दुराचार ब्राह्मण की अधिक; क्योंकि, जैसा पहिले कहा, जब सिग बिगड़ा, जब बुद्धि में विकार आया, दमाग खराब हुआ, तब सब बिगड़ा ; जब तक बुद्धि ठीक है तब तक और किसी अंग को पहिले तो बिगड़ने नहीं देती; और दूसरे, यदि बिगड़ें तो बना लेती है ।

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः,
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति ।
न वार्यपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके द्विजे,
न बकव्रतिके विप्रे, नाचेदविदि धर्मवित् ।

धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छादिको लोकदम्भकः,
 वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः ।
 अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः,
 शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः ।
 ये बकव्रतिनो विप्राः, ये च मार्जारलिङ्गिनः,
 ते पतंत्यंघतामिस्त्रे तेन पापेन कर्मणा ।
 न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्,
 व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन् स्त्रीशूद्रदम्भनम् ।
 प्रेत्य इह चेदशाः विप्राः गर्हन्ते ब्रह्मवादिभिः ;
 छद्मना चरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति । (मनु)

जो नामधारक, तपस्याहीन, विद्याहीन, अपने को ब्राह्मण बतलाने वाले, मिथ्या ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण नहीं है; जो विद्यालव्रती, बकव्रती, हैं; भोली स्त्रियों और ना-समझ पुरुषों का दम्भन करते हैं, उन को ठगते हैं, धोखा देते हैं, और अपने स्वार्थ के ही साधन में सदा तत्पर रहते हैं; ऐसे मिथ्या ब्राह्मण जो दान लेते हैं, वे, दान देने वालों को भी अपने साथ ले कर, नरक में गिरते हैं । ऐसे विप्र जो व्रत आदि, लोक को दिखाने के लिये, ढोंग से करते हैं, उस व्रत से राक्षसों की, दुराचारियों की, ही पुष्टि होती है । सच्चे ब्राह्मण, ऐसे मिथ्या ब्राह्मणों की घोर निन्दा करते हैं । विद्याल-व्रती और बक-व्रती, बिलैया भगत और बगुला-भगत विप्रां को पीने के लिये पानी भी नहीं देना चाहिये । धर्मध्वजी, महा लोभी, कपटी, दूसरों के छल छिद्रों की ताक घात में रहने वाला, हिंसक, जैसे बिल्ली चूहों की—ऐसा ब्राह्मण-ब्रुव, ब्राह्मण बनने वाला, बिलैया-भगत कहलाता है । सदा आँख नीची किये हुए, नीच काम करने और धोखा देने वाला, सदा स्वार्थ ही साधने में लगा, शठ, ऊपर से बहुत नम्रता दिखाने वाला, जैसे बगुला, वह बगुलाभगत कहाता है । ऐसों को दाता, ऐसा प्रतिग्रहीता, दोनों का नरक में पड़ना अपरिहार्य ही है तथा 'राक्षसों' की वृद्धि । चाहे मूर्खता से ही, जो कोई, बिना जाँचे-समझे, पाप को छिपाये हुए और सज्जन का वेष धारण किये हुए पापी का भरण-पोषण करेगा, वह प्रत्यक्ष ही देश में पापाचार को बढ़ावेगा, फैलावेगा; जिस का फल 'राक्षसों' और दुष्टों की वृद्धि और सब के लिये नरक, तरह-तरह का दुःख ।

ऐसी ही घोर निन्दा दुष्ट क्षत्रिय की, राजा की, की है ।

दंडो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चऽकृतात्मभिः;
 धर्माद् विचलितं हंति नृपमेव सबाधवम् ।

तस्य आहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्,
 समीक्ष्यकारिणं, प्राज्ञं, धर्मकामार्थकोविदम् ।
 तं राजा प्रणयन् णम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते;
 कामात्मा विषमः क्षुद्रो दंडेनैव निहन्यते ।
 अदंड्यान् दंडयन् राजा, दंड्यांश्चैवाप्यदंडयन्,
 अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ।
 यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्य उच्छास्त्रवर्त्तिनः,
 स याति नरकान् ई(इ)मान् पर्यायेण एकविंशतिम् ।
 दशसूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः,
 तेन तुल्यः स्मृतो राजा (पापी), घोरस्तस्य पस्त्रिहः ।

(मनु०)

दंडनशक्ति प्रबल और तीक्ष्ण तेजःपुंज हैं ; अकृतात्मा पुरुष, ऐसा राजा जिस ने सर्वव्यापी आत्मा का 'दर्शन' नहीं किया है, 'अन्वीक्षिको' विद्या से आत्मा की प्रकृति का 'अन्वीक्षण' नहीं किया है, वह इस दंड-शक्ति का धारण और 'नयन', प्रयोग, उचित प्रकार से नहीं कर सकता है । यदि धर्म से यह शक्ति बिछल जाय, हट जाय, तो बन्धु बान्धव समेत राजा ही का विनाश कर देती है । सत्यवादी, निष्पक्षपाती, धर्म-अर्थ-काम के तत्त्व को जानने वाला, प्रज्ञानवान्, सद्विवेक से काम करने वाला ही राजपुरुष इस शक्ति का धारण प्रणयन करने के योग्य है । कामात्मा, विषमदर्शी, अन्यायी, क्षुद्रबुद्धि राजपुरुष उसी दंडशक्ति से मारा जाता है । जो राजपुरुष अदंडनीय को दंड देता है, और दंडनीय को दंड नहीं देता, वह बड़ा अयश, अपजस, बदनामी पाता है, और घोर नरक में पड़ता है । जो राजा लोभी, पापी, राजधर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला है, उस से दान दक्षिणा लेना महापाप है ; ऐसा राजा तो दस हजार सूना, 'बूचड़-खाना', 'कस्साब-खाना', चलाने वाले सौनिक, 'कस्साब', 'बूचड़', के बराबर है ; क्योंकि वह लाखों, करोड़ों, गरीब प्रजा को पीड़ा दे कर, उन से धन चूस कर, अपने ऐश में उड़ता है, और तरह-तरह के महापाप करता है । ऐसे राजा से जो दान लेता है, वह साक्षात् ही उस के पापों की सहायता करता है ; इस लिये, उस के साथ, इक्कीस-इक्कीस, एक के बाद एक, नरकों में अवश्य पड़ता है ।

पांचवाँ अध्याय

दर्शन से पौराणिक रूपकों के गूढ़ अर्थों का दर्शन

पुराण के रूपकों का सच्चा अर्थ, ज्योतिष आदि शास्त्रों के शब्दों में व्याख्या कर के साधारण जनता को समझाना सिखाना चासिये, जिस में उन का सज्ज्ञान सद्बुद्धि बढ़े। सूर्य के चारो ओर सात (या दस या और अधिक) ग्रह जो घूम रहे हैं, और पृथ्वी के चारो ओर चन्द्रमा जो घूम रहा है, यही देवों की पंक्ति अमृतपान कर रही है। 'विसिनोति, विशति, सर्वान् पदार्थान् इति विष्णुः';^१ सब पदार्थों में पैठे हुए, सब को एक दूसरे से बाँधे हुए, सीधे हुए, पारमात्मिक सर्वव्याप्त ज्ञान का ही नाम 'विष्णु' है ; वही ज्ञान, वही सर्वशक्तिमान् चैतन्य, सौर सम्प्रदाय को चला रहा है, अमृत पिला रहा है। सूर्य और चन्द्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया, चन्द्रमा पर पड़ कर, उस को, अंशतः या पूर्णतः, छिपा देती है ; अथवा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चन्द्रमा आ जाता है तब चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है; और पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्यों की आँख से सूर्य अंशतः या पूर्णतः छिप जाता है ; यही बच्चों को समझा देने के लिये, कहते हैं कि देवों की पंक्ति में सूर्य और चन्द्रमा के बीच में, अमृत पीने को, छल से, दैत्य आ बैठा, उस का सिर काटा गया, और वह सिर, तब से, सूर्य वा चन्द्रमा को निगलने का प्रयत्न क्रिया करता है। बच्चे पूछा करते हैं, 'यह क्या है ?' 'ऐसा क्यों होता है ?', पर पूर्ण शास्त्रीय उत्तर समझ नहीं सकते ; इस लिए ऐसे रूपक में उन को उत्तर देना उचित है, जो यदि सम्पूर्णतः सत्य नहीं है, तो सम्पूर्णतः मिथ्या भी नहीं है। जब बच्चा जरा सयाना हो, और सच्चा कार्य-कारण-भाव समझने की शक्ति उस के चित्त में उदय हो, तब उस को तथ्य समझा देना ही धर्म है ; इस के बाद भी उस को रूपक के अक्षरार्थ पर ही विश्वास दिलाते रहना, और यह डराना, कि यदि श्रद्धा नहीं करोगे तो नास्तिक होगे, और नरक में जाओगे—ऐसा करना

१ स्तु (णु) प्रस्रवणे, to distil, ooze, drop; स्तुस् (णुस्) अदने, आदाने, अदर्शने, to cat. to take, to disappear, to become invisible ; स्तुह (णुह्) उद्विरणे, to vomit; बूँद बूँद टपकना ; खाना ; लेना ; लुप्त अदृश्य हो जाना ; उगल देना ; यह सब अर्थ सभी स्तु, स्तु, स्तुह धातु के हैं।

महा पाप है ; असत्य का और अज्ञान का, मिथ्याज्ञान का, प्रचार कर के, भोले मनुष्यों का दम्भन वखन करना है, ठगना है ।

ऐसे ही बहुतेरे रूपक इतिहास-पुराणो मे भरे हैं । यथा—(१) समुद्र मे 'अनंत' और 'शेष' नामक सहस्र फण वाळे सर्प पर विष्णु का सोना ; उन की नाभि से कमल का निकलना ; उस कमल पर ब्रह्मा का उत्पन्न हो कर बैठना ; विष्णु के कर्णमल से मनु-कैटभ दो असुरों का निकलना, और ब्रह्मा को खा जाने का यत्न करना, विष्णु का उन को मारना ; इत्यादि । (२) गणेश का, पार्वती के स्वेद से, उत्पन्न होना ; उन का नैसर्गिक सिर काटा जाना ; उस के स्थान पर हाथी का सिर, सो भी एक दाँत का, लगाया जाना ; चूहे पर सवारी करना । (३) वृत्र नामक अमुर की उत्पत्ति और उस के उपद्रव ; वृत्र की उत्पत्ति ; सुरों के राजा इन्द्र का, ऐरावत हाथी पर सवार हो कर वृत्र को मारना ; उस हत्या के पाप का, चार जीव-समुदायों मे, चार वरदान दे कर, बाँटना ; पर्वतों के परो को, जिन के बल से वे पहिले उड़ने-फिरने थे, वृत्र से काटना ; (४) हिरण्याक्ष का, पृथ्वी को, समुद्र के भीतर डुबा देना ; विष्णु का वराह रूप धारण करना, हिरण्याक्ष को मारना, पृथ्वी को उभारना ; विष्णु के स्पर्श से, भूमि के गर्भ से, भौम अर्थात् मंगल नामक ग्रह (प्लानेट) का उत्पन्न होना । (५) विंध्य पर्वत का इतना ऊँचा उठना कि सूर्य का मार्ग रुकने लगे ; देवों की प्रार्थना पर, ब्रह्मा का उन से कहना कि अगस्त्य ऋषि से कहो, क्योंकि वे विंध्य पर्वत के गुरु हैं; देवों की प्रार्थना पर, अगस्त्य का, जो पहिले उत्तर दिशा मे वास करते थे, दक्षिण को जाना; जब विंध्य पर्वत के पास आये तो विंध्य का सायांग दंडवत् प्रणाम करना और कहना कि जो आज्ञा कीजिये वह करूँ; अगस्त्य का आज्ञा देना कि जब तक मैं दक्षिण से न लौटूँ तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहना । (६) दैत्य दानवों से पीड़ित हो कर, देवों का अगस्त्य से प्रार्थना करना, कि आप समुद्र को पी जाइये, तो इन्द्र इन दैत्य दानवों को मार सकें, जो समुद्र मे छिप जाया करते हैं; अगस्त्य का समुद्र को पी जाना; इन्द्र का दैत्य दानवों को मारना; पीछे मूत्र-रूप से समुद्र के जल का विसर्जन होना और जल का क्षार हो जाना । (७) सूर्य की पत्नी 'संज्ञा' का, सूर्य के ताप से तप्त हो कर, अपनी प्रतिरूप 'छाया-संज्ञा' को अपने स्थान पर गृह मे रख कर, 'अश्विनी' के रूप से पृथ्वी पर छिप कर तपस्या करना; संज्ञा के पुत्र 'यम' से और 'छाया-संज्ञा' से कलह होना; छाया-संज्ञा का यम को शाप देना कि तू ने मुझ को पैर से मारने की धमकी दी, इस लिए तेरे पैर मे कुमि पड़ जायँ, और तू लँगड़ा हो जाय, यम के रोने और शिकायत करने पर

सूर्य को पता लगना कि यह असली संज्ञा नहीं है; सब्बी संज्ञा की खोज में जाना; अश्व का रूप धरना, दो अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति होना; उन दोनों का देव वैद्य होना । (८) शतानन्द ऋषि के शाप से उन की पत्नी अहत्या का पापाण हो जाना, इन्द्र को सहस्र व्रण हो जाना, चन्द्रमा को क्षय रोग हो जाना; ऋषि से आराधना करने पर, व्रणों के स्थान में नेत्र हो जाना; और चन्द्रमा का, एक पक्ष में क्षय के बाद दूसरे पक्ष में पुनः वृद्धि होना; रामचन्द्र के पैर के स्पर्श से अहत्या का पुनः ५जीव हो जाना । (९) समुद्र का मथा जाना; मन्दर पर्वत मथानी, वामुकी सर्प मथन रज्जु (नेत्र, नेती, घोरनी, मथने की रस्सी) ; एक ओर देव, दूसरी ओर दैत्य, खींचने वाले; पहिले हलाहल विष का निकलना, फिर चौदह रत्न का जिन में अमृत भी, वारुणी शराब भी; इत्यादि । (१०) स्वार्थभुव मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत का रथ पर चढ़ कर, सात बेर पृथ्वी की परिक्रमा करना, रथ के पहियों के घँसने से सात द्वीप और सात समुद्र बन जाना । (११) कश्यप महर्षि के तेरह पत्नियों से तेरह जाति के जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति होना ; उन पत्नियों में से दो, गरुड़ की माता विनता, और सर्पों की माता कद्रू, में पण (बाजी) लगना—‘सूर्य के घोड़े उच्चैः-श्रवा की गर्दन और पूँछ के बाल काले हैं या मुकुंद’ ; काले सर्पों से घोड़े के गर्दन और पूँछ ढकवा कर, कद्रू का दाँव जीतना, और विनता का उस की दासी हो जाना; यदि अमृत का घड़ा गरुड़ ला दे तो विनता दासिल से मुक्त की जाय—ऐसा कद्रू का कहना; हज्जार दाँत के ज्वालामय, अति वेग से घूमते हुए, चक्र के बीच में से, अपने महाबली पक्षों और चंचु के प्रभाव से, गरुड़ का उस अमृत के घड़े को लाना; कद्रू के हाथ में रखना; कद्रू का उस को दर्भ-घास की चटाई पर सर्पों के लिए रखना; इन्द्र का झपट कर घड़े को उठा ले जाना; सर्पों की जिह्वा का, धारदार दमों के चाटने से कट कर, दोहरी हो जाना ; इत्यादि । (१२) ब्रह्माण्ड के बीच में सोने का मेरु पर्वत; उस पर तैंतीस मुख्य और तैंतीस कोटि अवान्तर, देवों का वास; उस के शिखर पर, ‘हिम-आलय’ में, ‘कैलास’ पर शिव का स्थान; उन की पत्नी पार्वती; सिर पर से ‘गंगा’ का प्रवाह, जो आगे चल के, ‘त्रिवेणी’ हो गई; उस जगत्पावनी गङ्गा पर ‘अविमुक्त’ क्षेत्र, काशी, की स्थिति; वहाँ शिव का ‘अविमुक्त’ निरन्तर निवास; उस काशी वाराणसी में पहुँच कर जो जीव, शरीर त्याग के अनन्तर, ‘ब्रह्मनाल’ नामक वीथी (गली) से, ‘मणिकर्णिका’ तक पहुँचें उस को ‘तारक’ मन्त्र का उपदेश हो, और ‘काश्यां मरणात् मुक्तेः’, ‘ऋते ज्ञानाच्च मुक्तिः’, वह मोक्ष पावै । इत्यादि ।

ऊदाहरण-रूपेण, बारह मुख्य रूपक ऊपर कहे । सैकड़ों अन्य मुख्य और गौण

रूपक, ऐसे ही, इतिहास-पुराण में भरे हैं। जो थोड़ा भी विचार कर सकते हैं, उन के लिये स्पष्ट है कि यह सब आख्यान, किसी विशेष अभिप्राय से, बुद्धिपूर्वक, दीद-व-दानस्तः, रचे हुए हैं; स्वाभाविक, प्राकृतिक, इतिवृत्तों के वर्णन नहीं हैं। इन के अक्षरार्थ को वास्तविक मनवाने का यत्न करना, मूर्खता फैलाने वाला कपट और दम्भ है; तथा मान लेना, अंध-श्रद्धा और मूढ़ ग्राह है। पर सैकड़ों वर्षों से, भारतवर्ष में, यही देख पड़ रहा है। एक ओर ऐसे छल कपट से, और दूसरी ओर ऐसी अंध श्रद्धा से, सदबुद्धि, सज्ज्ञान, सद्भाव, सदिच्छा, सद्ब्ययहार का कितना हास हुआ है— यह भारत जनता की हीन-दीन दशा से, अधःपात से, ही प्रकट है। जब उत्तमांग-स्थानीय, धर्माधिकारी, धर्म-नेता, धर्म-व्याख्याता, किसी देश, किसी समाज, में, राजस-तामस दुर्बुद्धि-दुःशील-दुश्चरित्र का नमूना सब के आगे रक्खें, तो क्यों न जनता पर आपत्ति-विपत्ति आवै ? यूरोप में भी, तथा अन्य देशों में भी, ऐसे ही कारणों से, जब पुरोहितों और राजाओं की, अर्थात् यूरोपीय ब्राह्मणों और क्षत्रियों की, बुद्धि भ्रष्ट हुई, तब बड़े-बड़े बिप्लव हुए हैं।

अविद्यायामंतरे वर्त्तमानाः, स्वयंधीराः, पंडितम्मन्यमानाः,
जंघन्यमानाः परिर्यंति मूढाः, अंधेनैव नीयमाना यथांधाः।

(कठ उपनिषत्)

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता,
सर्वार्थान् विपरीतांश्च, बुद्धिः सा, पार्थ !, तामसी। (गीता)

‘जब अन्धों के नेता भी अन्धे हों, अविद्या-ग्रस्त हों, पर स्वयं बड़े धीर-वीर पंडित होने का अभिमान करते हों, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझते समझाते हों, तब नेता और नीत दोनों ही अवश्य नष्ट होंगे।’

रूपकों का अर्थ

ऊपर कहे हुए तथा अन्य रूपकों में से कुछ के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आदि व्याख्याओं का संकेत, किसी किसी की पूरी व्याख्या, पुराण इतिहास निरुक्त आदि में किया है; पर ऐसे कोनों में, और ऐसे थोड़े में, कि उन की ओर साधारण पाठक-पठक का ध्यान नहीं जाता; और उन को हँद निकालना, खलिहान में सूई हँदने के बराबर होता है। जिस प्राचीन काल में यह रूपकमयी संकेत-भाषा प्रथित रही होगी, उस समय इन का समझना सहज रहा होगा; जैसे आजकाल ‘शा-हँड’ जानने वालों को, या संस्कृति लिपि और भाषा जानने वालों को, या फ़ारसी लिपि और भाषा जानने वालों को, आरस में, एक

दूसरे का लिखना समझना सरल है ; दूसरों को नहीं । अब वह संकेत-भाषा बहुत कुछ भूली जा चुकी है ; जैसे प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, इष्टकालेखों के 'हाय-रोग्लिफ़' 'क्यूनिकार्म' अक्षर, 'खरोष्ठी' आदि लिपि, भूली हुई है ; विशेषज्ञ ही उन का अर्थ, सो भी सर्वथा निश्चयेन नहीं, लगा सकते हैं । एक कठिनाई और है ; निश्चयेन मतलबी स्वार्थी लोगों ने, इन पुराण-इतिहास स्मृति आदि ग्रन्थों में, समय समय पर, क्षेपक भी मिला दिये हैं । इन कारणों से ऐसे रूपकों का अर्थ करना दुस्साध्य हो रहा है । अध्यात्म शास्त्र के दीपक के प्रकाश से, उस का विरोध न कर के, आधिदैविक, आधिभौतिक, पाश्चात्य, पौरस्त्य, वैज्ञानिक शास्त्रों की सहायता से, थोड़ा बहुत सूझ पड़े तो सम्भव है ।^१

कुछ रूपकों की व्याख्या, कहीं-कहीं, प्रसंगवश, अपने अन्य ग्रंथों में, मैं ने, यथाबुद्धि, करने का यत्न किया है ; यद्यपि, अपनी बुद्धि और ज्ञान की क्षुद्रता के कारण, यह तो निश्चय है ही नहीं कि व्याख्या ठीक है ; तथा यह निश्चय है कि यदि ठीक भी है, तो 'सर्वतः संप्लुतोदक' समुद्र में से एक छोटे लोटे के इतना भी नहीं ग्रहण किया जा सका है । इस यत्न के समर्थन में इतना ही कह सकता हूँ कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, और नवीन पाश्चात्य विद्वानों के ग्रंथों, के अनुसार ही व्याख्या की कल्पना की है ; 'नवीन', 'मौलिक', 'अपूर्व', कल्पना करने की शक्ति तो मेरे पास जरा बराबर, अणु तुल्य भी नहीं है ।

उदाहरण-रूप से, केवल सूचनार्थ, उक्त रूपकों में से कुछ की व्याख्या, संक्षिप्त, यहाँ लिख कर संतोष करूँगा ।

(१) पृ० ६५ पर, पहिले, ब्रह्मा शब्द का आध्यात्मिक दार्शनिक अर्थ, विस्तार से, कहा जा चुका है । जिस कमल पर ब्रह्मा का आसन है, उस का मार्मिक अर्थ यह है,

मानसस्य इह या मूर्तिर्ब्रह्मत्वं समुपागता,
तस्यऽऽसनविधानार्थं पृथिवी पद्ममुच्यते ।

१ Hieroglyph; cuneiform.

२ इस रीति से वैदिक रूपकों का बुद्धिसंगत अर्थ करने का यत्न आर्य-समाज के विद्वानों ने आरम्भ किया है । श्री वासुदेवशरण के (जो अब लखनऊ के म्युजियम के 'क्युरेटर' हैं) लेख भी, इस विषय के, अच्छे हैं । सन् १९३७ में, उन्होंने, ऐसे लेखों का संग्रह, 'उपज्योति' के नाम से छपाया है । अच्छा ग्रन्थ है । सूक्ष्म बुद्धि, उन्कृष्ट भाव, वेदाभ्यास, प्राचीन-प्रतीचीन-ज्ञान से लिखा गया है ।

तस्मात्पश्चात् समभवद् ब्रह्मा वेदमयो निधिः,
अहंकार इति ख्यातः, सर्वभूतात्मभूतकृत् ।

(म० भा०, शांतिपर्व, अ० १८०)

आकाश के कई नाम हैं, वरुण भी, समुद्र भी । 'अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि', (वेद०) 'वरुण के, आकाश के, आश्चर्य अगाध हैं' । इस आकाश-समुद्र में, किरण ('कोरोना'^१) सहित सूर्य, स्वयं, कमल-पुष्पवत्, (अथवा वटपत्रवत्, क्योंकि इस अनन्त समुद्र में ऐसे पत्र और पुष्प, असंख्य, भरे हैं) प्लवमान हैं, तैर रहे हैं, उन के भीतर, उन के ऊपर, चेतनमय, 'आदित्यनारायण' 'नराणां अयनं', आदि-शक्ति से उज्जीवित जीवों के बीज-समूह, लेटे हैं ;

ध्येयः सदा सवितुमंडलमध्यवर्ती,
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ।

उन के नाभि से, सूर्य-गोलक के मध्य से, कमल नाल के सदृश, आकर्षण-विकर्षण-शक्ति-रूपिणी 'रेखा', 'रश्मि', सात (वा दस वा अधिक) निकलती हैं ; उन में से एक एक के सिरे पर, एक एक ग्रह ('प्लानेट'^२) विद्यमान हैं ; उन ग्रहों में से एक पृथ्वी है ; इस को भी पद्म, कमल, कहते हैं ; और वास्तव में आधुनिक स्थलमयी पृथ्वी, जलमय समुद्र के तल पर, पत्र फैला कर उलटे रखे हुए कमल के सदृश है ; उत्तरी ध्रुव में उन कमल-पत्रों का मध्य अथवा नाभि है ; महाद्वीप, एशिया, यूरोपाफ्रिका, अमेरिका आदि उस कमल के पत्र हैं ; बड़े-बड़े अन्तरीप, ('केप'), यथा 'केप कामोरिन' (कन्याकुमारी), 'केप आफ़ गुड होप', 'केप हार्न' आदि, उन पत्रों के नोकें-टोंके, 'ऐपेक्स'^३ हैं ; पृथ्वी के ज्व-जन्तुओं की, चेतनाओं की, बुद्धियों की 'अहंकारो' 'अहंभावो' की, समष्टि का नाम, पृथ्वी-नामक ब्रह्म-के-अंड ब्रह्मांड की सूत्रात्मा का नाम, पार्थिव ब्रह्मा है ; इन ब्रह्मा की आसन-रूप, क्रीडास्थली, विकास-संकोच भूमि, विस्तार-निस्तार-स्थान, जो यह पृथ्वी हैं, उसी को पद्म कहते हैं ; 'पृथिवी पद्ममुच्यते' । जल के गोले पर, कमल को उलट कर, पत्र फैला कर, रख दो, तो 'ग्लोब' का रूप झट देख पड़ जाता है । जल को चिपटा फैला कर, उस में से कमल की नाल ऊँची निकाल कर, उस के ऊपर, आकाश की ओर उस का मुख कर के, कमल के पत्त खिला दो, तो 'रूपक' विलकुल बिगड़ जाता है ।

१ Corona. २ Planet.

३ Cape; Cape Comorin; Cape of Good Hope; Cape Horn: apex.

ऐसे ही, ‘जीविका-कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त से समाज संस्कृत परिष्कृत होता है, बनता है ; ‘जन्मना वर्णः’ से सर्वथा ‘विकृत’ होता है, ‘बिगड़’ जाता है ।

(सर्वार्थान् कुरुते बुद्धिर् विपरीतांस्तु तामसी ।)

‘तामसी बुद्धि सब अर्थों को विपरीत कर डालती है ।’

षड्भागभृत्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु नृपः कृतः ।

(शुक्रनीति)

‘अपनी कमाई मे से छटां हिस्सा दे कर, प्रजा ने राजा को, अपना नौकर, चौकीदार, पहरुआं, रक्षा के लिए बनाया’; वह नौकर अपने को स्वामी समझने लगा; रक्षक से भक्षक बन गया; न्वादिम से हाकिम हो गया; सारी हवा उलट-पलट गई । ऐसे ही विद्वान् ब्राह्मण को, दान-मान दे कर, प्रजा ने गुरु बनाया; उस की बुद्धि ऐसी विपरीत हुई कि,

गुरवो बहवः संति शिष्यवित्तापहारकाः;

विरलाः गुरवस्ते मे शिष्यहृत्तापहारकाः ।

‘शिष्य के वित्त का, धन का, अपहरण करने वाले, ठगने वाले, ‘गुरु’ तो देश मे भर गये हैं; शिष्य के हृदय-ताप का, मानस शारीर दुःखों का, अपहरण निवारण करने वाले गुरु देख नहीं पड़ते ।’ यही कथा धनिकों की, ‘वैर्यों’ की, बुद्धि की विपरीतता की है; जो लक्षपति हैं वे कोटपति होना चाहते हैं; आश्रित सेवक वर्ग और प्रजा का, पर्याप्त मात्रा मे, उचित प्रकारों से, अन्न वस्त्र से, भरण नहीं करते । ऐसे ही, ‘सेवक’ ‘महायक’ ‘शूद्र’ वर्ग भी, ‘द्विजों’ के धर्मग्रंथ से, अपने धर्म-कर्म से अष्ट हो रहा है, धारक के स्थान मे मारक हो रहा है । यह प्रसंगतः ।

आकाश समुद्र मे ‘अनंत-शेष’ नामक महासर्प, असंख्य ‘मंडल’ (गेंडुरी) बाँधे हुए, प्रत्यक्ष ही फैला है । आध्यात्मिक दृष्टि से यह चैतन्य की ‘शक्ति’ है, जो सब ब्रह्मांडों को, तारों को (‘आर्बुज आरु हेवन’ को)^१ सर्प के मण्डलों, आवेष्टनो, के आकार मे सतत घुमा रही है । ज्योतिष-शास्त्र की दृष्टि से ‘मिल्की-वे’^२, ‘देवपथ’, ‘आकाश-गंगा’, का भी रूप महासर्प का सा है; उसी के हजारों फणो, मण्डलों, आवरणों, चक्रों, मे से एक के सिर पर रक्खा हुआ, उसी का एक अणु, हम लोगों का सौर-जगत् है । ‘शेष’ इस लिये कि, असंख्य बेर सृष्टि-स्थिति लय होते ही रहते हैं; विद्यमान सृष्टि से पूर्व जो सृष्टि विगत कल्प वा महाकल्प मे हुई थी, उसी

१ Orbs of heaven.

२ Milky way.

के 'शिष्ट' 'शेष', बचे हुए, प्राकृतिक तत्त्वों भूतों से यह नई सृष्टि बनी है। इसी हेतु से 'मनुः सप्तर्षयः चैव', 'शिष्ट' कहलाते हैं; पूर्ण कल्प से 'अवशिष्ट' ठहर गये हैं; इस कल्प के मानव जीवों को 'शिष्ट आचार' की शिक्षा देने के लिये, उन को चतुः-पुरुषार्थ के साधन का उपाय बताने के लिये; जैसे पुरानी पुस्त, नई पुस्त को, पाल-पोस कर, लिखा-पढ़ा कर, जीविका का उपाय बता कर, रोजगार में लगा कर, अपने पैरों पर खड़ा कर, स्वावलम्बी स्वाधीन स्वतन्त्र बना कर, तब, स्वयं आराम विश्राम करने के लिये, पर-लोक को चली जाती है; जब तक नई पुस्त ऐसी पुष्ट नहीं हो जाती, तब तक पुरानी पुस्त 'ठहरी' रहती है, 'शिष्ट' रहती है। तथा इस लिये भी 'शेष' कि महाप्रलयों में भी आकाशरूपी समुद्र में प्रधान-मूलप्रकृति रूपी अन्तरहित अनन्त 'शेष' रह ही जाता है, बचा ही रहता है, तथा काल प्रवाहरूपी गरुड़, दिन-रात रूपी दो पक्षों से सदा उड़ता हुआ, छोटे छोटे सब सर्परूपी कुण्डलित चक्रवत् युगों को खा लेता है, पर अनन्त शेष को नहीं खा सकता है।

'मधु-कैटभ' की कथा, दुर्गासप्तशती में एक प्रकार से कही है; महाभारत, शांतिपर्व, अ० ३५७ में, दूसरे प्रकार से। रूपक ही तो हैं; भिन्न प्रन्थों में, घटा-बढ़ा कर, प्रकार के भेद से विविध रूप से कहे गये हैं। 'मधु' का अर्थ तमस्, और कैटभ का रजस्, महाभारत के उक्त स्थान में कहा है। 'विष्णु' के कर्ण' के 'मल' से, अर्थात् श्रोत्रेंद्रिय सम्बन्धी आकाश-तत्त्व के विकार से, ये राजस तामस् भाव अधिक बढ़े; ब्रह्मा के सार्विक, जानमय, वेदों को, उन्होंने ने छीन लिया, और 'ब्रह्मा' का, बुद्धितत्त्व महत् तत्त्व का, नाश करने को उद्यत हुए। तब 'विष्णु' ने, सत्त्व प्रधान देव ने, बहुत वर्षों तक उन दोनों से युद्ध कर के, उन को, अपने 'जघन जांघ पर जहाँ पानी नहीं था' मारा; पानी अर्थात् रस, रस-बुद्धि, लोभ, तृष्णा, अविद्या, जहाँ ही काम का मुख्य स्थान है, उसी को जब शुद्ध सार्विक ज्ञान से शुष्क रस-हीन कर ले तभी अविद्या पर जय होगी। पुनः सत्त्व का, ज्ञान का, उद्भय हुआ; ब्रह्मा की विधि-विधानात्मक, कायदा मर्यादा से बाँधी, सृष्टि का सम्भव हुआ। इत्यादि। और भी अन्य स्थान में मधु को काम अथवा राग और कैटभ को क्रोध अथवा द्वेष कहा है, जो ही अविद्या के प्रत्यक्ष रूप हैं।

'वायालोजी', 'प्राणिविद्या', की दृष्टि से, पृथ्वी के आदिकाल में, लाखों वर्ष पूर्व, जब जन्तुओं की सृष्टि का युग आया, तब बड़े-बड़े, सौ सौ और डेढ़-डेढ़ सौ फुट लम्बे, राजस तामस जन्तु ('सारियन्स')^१ उत्पन्न हुये। उस समय, पृथ्वी का तल, अधिकांश जल से आर्द्र, गोला, कीचड़ के ऐसा था। 'सलिलेन परिहृता'।

लाखों वर्षों में, पृथ्वीतल अंशतः शुष्क और घन हुआ ; प्राचीन भयंकर 'दैत्य-दानव' प्राणी धीरे-धीरे नष्ट हुए; क्रमशः सत्त्वाधिक मनुष्यों की उत्पत्ति का युग आया । इत्यादि ।

(२) गणेश के रूपक का अर्थ, 'समन्वय' नामक ग्रन्थ के पहिले अध्याय में मैंने विस्तार से करने का यत्न किया है; और उस से सम्बद्ध कुछ अन्य रूपकों का भी ।

(३) वृत्रासुर की कहानी, वर्षा ऋतु का रूपक है । यास्क ने 'निरुक्त' में ही ऐसा स्पष्ट कहा है । पर, ऐसा जान पड़ता है कि यास्क के समय में वह सब ज्ञान भारत से लुप्त हो चुका था जो, इस सम्बन्ध में, अब पाश्चात्य विज्ञान ने पुनर्वाप खोज निकाला है । यह रूपक प्रति वर्ष की वर्षा का तो है ही ; पर पृथ्वी पर जब वर्षा का प्रथम वार आरम्भ हुआ, प्रायः उस का भी है । पाश्चात्य 'भूगर्भशास्त्र' ('जियो-लोजी')^१ बताता है कि, पूर्व युग में, लाखों बल्कि करोड़ों वर्ष पहिले, जब जल-स्थल का, समुद्रों और द्वीपों का, ऐसा विवेक और पार्थक्य नहीं था जैसा अब है, तब 'कार्बो-निक ऐसिड गैस'^२ के बड़े-बड़े बादल, पर्वताकार, उड़ते रहते थे । इस को पौराणिक रूपक में यों कहा है कि पर्वतों के पक्ष थे, पर थे । फिर जल-स्थल का पार्थक्य होने लगा । उस युग में प्राणियों के रूप दूरे थे; और उस के पीछे, क्रमशः, वृक्षों, पशुओं, मनुष्यों के रूप में बहुत परिवर्तन हुआ — इस का वर्णन मार्कण्डेय पुराण से उद्धृत कर के, नये समय के अंग्रेजी शब्दों में मैंने अन्यत्र किया है^३ । क्रमशः, जल समुद्रों में एकत्र हुआ । सूर्य के ताप से भाफ उठ कर वर्षा का आरम्भ हुआ । पहिले, हवा में, 'वृत्र-अमुर' रूपिणी भाफ इतनी भरी कि 'देवताओं' का, अन्य प्राकृतिक शक्तियों का, काम रुकने लगा । आज-काल कल के कारखानों के 'एंजिनो' से धूँए के बादल निकल कर, आस-पास की, आदमियों की बस्ती को कितनी तकलीफ देते हैं, यह इस का प्रत्यक्ष नमूना है । 'इन्द्र' ने 'वजू' से, बिजली से, भाफ को मारा, वह मर कर जल रूप से पृथ्वी पर बह चली । 'इंद्र' के 'हाथी' का नाम 'ऐरावत' है; 'इराः आपः' इरा एक नाम जल का है; 'इरावान् समुद्रः' । समुद्र से पैदा हुआ 'ऐरावत' भी एक प्रकार का मेघ ही है; 'वृत्र' दूसरे प्रकार का मेघ है । पाश्चात्य विज्ञान का कहना है कि 'पाजिटिव' और 'नेगेटिव'^४ विद्युत् के सम्पात से, बिजली

१ Geology, (Gr. *gea*, the earth, *logos*, word)

२ Carbonic acid gas.

३ *The Science of Social Organisation, or the Laws of manu* Vol. 1 ch. 2. तथा वृहन्मानवधर्मसारः पृ० २८-३३०

४ Positive; negative.

की ज्वाला, चमक, गरज, तड़प, आदि, उपपन्न होते हैं। दधीचि ऋषि की हड्डी से इन्द्र का वज्र बना; इस का भी अवश्य कोई रहस्यार्थ होगा; यहां वैज्ञानिकों की गवेषणा का प्रयोजन है; अस्थि में कोई विद्युज्जनक तत्त्व होगा; 'फ़ास्फोरस'^१ तो होता है; उस में चमक है; पर पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने विद्युत् से उस का सम्बन्ध तो स्यात् नहीं बताया है। वृत्र, असुर हो कर भी, 'त्वष्टा' नामक 'देवर्षि' का 'मानसपुत्र' था; इस लिये इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी; (कहीं कथा के भेद से, वृत्र के बड़े भाई विद्वरूप के तीन सिर काट डालने से, इन्द्र को यह ब्रह्महत्या लगी; और वे तीन सिर तीन पक्षी हो गये, 'कर्पिजल', 'कलविक', और 'तित्तिरि'; यह रूपक के भीतर रूपक है; और इस का कुछ और गूढ़ अर्थ होगा)। उस ब्रह्महत्या को, चार जीवों में, चार बरदान के बदले, 'इन्द्र' ने बाँट दिया। पृथ्वी ने एक हिस्सा पाप का लिया; इस से कहीं कहीं ऊसर हो जाती है; बरदान यह मिला कि खोदने से जो गढ़े ही जायँ, वे भर जायँगे। जल ने एक भाग लिया; काँड़े, फेन, मल, उतराने लगा; रत्न भी, और बहुविध बहु-मूल्य पदार्थ भी, और जीव-जन्तु भी होने लगे। वृक्षों ने एक हिस्सा लिया; निर्यास, गोंद, रूपी मल बहने लगा; पर डाली कट जाने पर फिर से नई डाल पैदा होने लगी। स्त्रियों ने एक हिस्सा लिया; मासिक मलिनता होने लगी; पर 'नित्यकाम' का वर मिला। पुराण का संकेत प्रायः यह है कि वह मैथुनीय प्रकार, सन्तानोत्पत्ति का, जो अब देख पड़ता है, वर्षा-युग के आरम्भ से पहिले नहीं था। मार्कण्डेय आदि पुराणों में, स्पष्ट शब्दों में, दूसरे प्रकार, मानव-संतानन के, कहे हैं। यह 'नित्य-काम' उस समय में तो चाहे 'वर-दान' हो पर, मानव-जगत् की वर्तमान अवस्था में तो 'शाप-दान' हो रहा है। मनुष्यों की संख्या की अति-वृद्धि से 'जीवन-संग्राम', 'स्ट्रगल फ़ार लाइफ़',^२ बहुत भीषण दारुण हो रहा है।

यह सब इतिवृत्त (जो भू-शास्त्र का विषय है) पृथ्वी के, और उस से सम्बद्ध पदार्थों और प्राणियों के, जीवन में अवस्था के परिवर्तन का, स्पष्ट ही वर्षा से सम्बन्ध रखता है। वर्षा से ही भूमि-तल में ऊपर और उर्वरा का भेद उत्पन्न होता है, और खातों की पूर्ति होने लगती है। जल बह कर निम्न स्थलों में एकत्र होता है। बृक्षों के व्रणों का अवरोपण होता है, जङ्गम भर जाते हैं, नई डालियाँ, शाखें, शाखा, निकलती हैं। मानव-संसार में, पहिले, ऐसा अनुमान होता है, मासिक स्त्रीधर्म नहीं होता था; पुराणों में ऐसा संकेत है कि एक युग, अति प्राचीन काल में, ऐसा हो गया है जब स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था, "अमैथुनाः प्रजाः पूर्वम्"; फिर एक ऐसा युग

१ Phosphorus.

२ Struggle for life.

('एज')^१ आया जिस में मनुष्य उभय-लिंग 'अर्धनारीश्वर' था; जैसा अब वृक्ष होते हैं; और कभी कदाचित् कोई कोई पशु, और मनुष्य भी, करोड़ों में एक हो जाते हैं। इत्यादि।^१

आध्यात्मिक शिक्षा, इन कहानियों की यह है कि प्रत्येक गुण के साथ एक दोष लगा हुआ है, और हर दोष के साथ एक गुण।

नात्यंतं गुणवत् किंचिन् नात्यंतं दोषवत्तथा । (म० भा०)

हर कमाले रा ज्वाले, व हर ज्वाले रा कमाले ।

(फ़ारसी कहावत)

(४) हिरण्याक्ष की कथा, 'ऐस्ट्रॉनोमी' और 'जियोलोजी', 'ज्योतिष-शास्त्र और भू-शास्त्र, के इतिवृत्तों का रूपक जान पड़ता है। पाश्चात्य भू-शास्त्रियों का तर्क है कि किसी अति प्राचीन काल में, पृथ्वी में भारी उपप्लव, विप्लव, 'कैटाक्लिज़्म'^४, 'अधरोत्तर' हुआ, और एक बड़ा खण्ड टूट कर अलग हो गया; वही खण्ड क्रमशः चन्द्रमा बन कर पृथ्वी के आकर्षण से बँधा हुआ, पृथ्वी के चारों ओर, लाखों वर्षों से, परिक्रमा कर रहा है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक नाप-तौल का हिसाब लगाया है कि, यदि चन्द्रमा का चूर्ण बना कर 'पैसिफ़िक' महासागर में भरा जाय, तो उस का विशाल गर्त ठीक-ठीक भर जायगा। पौराणिक रूपक का संकेत यह है, कि पृथ्वी के शरीर में भयंकर उत्पात हुआ; ऐतिहासिक दृष्टि से सम्भव है, कि उस समय में, हिरण्याक्ष नाम का महासम्राट्, मानव-जगत् पर राज्य करता हो; एक महाद्वीप समुद्र में डूब गया; दूसरा टूट कर आकाश में मडराने लगा; क्रमशः गोल हो कर, 'भूमि' का, अर्थात् पृथ्वी का, पुत्र 'भौम' अर्थात् मंगल ग्रह (अंग्रेज़ी में जिस को 'मार्स'^५ कहते हैं) बन गया। यह निश्चय करना, कि भूमि से चन्द्र निकला, अथवा मंगल निकला, महावैज्ञानिकों का, अथवा योगसिद्ध सूक्ष्मदर्शी महर्षियों का, काम है। रहस्य-विद्या के अन्वेषी 'थियासोफ़ी' सम्प्रदाय के कुछ सज्जनो का तो यह मत है कि, पृथ्वी से चंद्रमा नहीं, प्रत्युत चन्द्रमा के शरीर से पृथ्वी के शरीर की उत्पत्ति हुई है; किंतु उपलब्ध पुराणों में इस का संकेत इस लेखक को नहीं मिला।

१ Age

२ 'पुरुषार्थ' नामक ग्रन्थ के 'कामाध्यात्म' नामक ४र्थ अध्याय में इस विषय पर विस्तार से लिखा है।

३ Astronomy, geology.

४ Cataclysm.

५ Mars.

इस सम्बन्ध में, पुराणों के एक अन्य रूपक की भी चर्चा कर देना अनुचित न होगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास, चन्द्रमा, विद्या-ग्रहण के लिये गये; उन की पत्नी तारा को ले कर भागे; 'संग्रामे तारकामये', 'दिवि-स्थित' देवों में घोर संग्राम हुआ; अंत में ब्रह्मा ने, चन्द्रमा से छीन कर, तारा को बृहस्पति के पास पुनः भेजा; चन्द्रमा से जो तारा को पुत्र हुआ, वह बुध, 'मर्क्युरी',^१ नाम का ग्रह हुआ; वह, एक बेर मानव-शरीर धारण कर, पृथ्वी पर आया; यहाँ उस का समागम, उभय-लिंग, अर्धनारी अर्धपुरुष, सूर्यवंशी इला-सुयुम्न के साथ, उस मासार्ध में हुआ, जिस समय 'इला' के शरीर में स्त्री की अवस्था अधिक व्यक्त थी; इला को पुहरवा नामक पुत्र हुआ; उस से सोम-वंश चला। कृष्णरक्ष-शुक्रपक्षात्मक चान्द्र मास से, स्त्रियों के आर्त्त का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष ही है। इला-सुयुम्न की कथा में प्रायः इस का भी संकेत होगा। यह सब रूपक के भीतर रूपक, कथा के भीतर कथा, की अनन्त शृंखला है।

पाञ्चात्य ज्योतिर्विदों का कहना है, कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर नौ चन्द्रमा घूमते हैं, जैसे अपनी पृथ्वी के चारों ओर एक ही; इन नौ में से चार उतने बड़े हैं जितना इस पृथ्वी का चन्द्र; अन्य बहुत छोटे हैं। उन का कहना यह भी है, कि सौर-जगत् की वर्तमान अवस्था, करीब वर्ष तक आकाश में बड़े बड़े उथल पथल, परस्पर की खींचातानी और तोड़ फोड़ के बाद स्थिर हुई है। उन में से बहुतों का मत यह है कि आदि-काल में, एक महा ज्योतिर्लिंग वा ज्योतिर्गोल (‘नेब्युला’)^२ का प्रादुर्भाव हुआ जो कोटियों योजन, चारों दिशा में, तथा ऊपर-नीचे विस्तृत था; इस में ‘चक्र’ के ऐसी ‘अग्नि’ उत्पन्न हुई, और अग्नि के वेग से, उससे टूट-टूट कर कई खंड उस के चारों ओर घूमने लगे, और क्रमशः अधिकाधिक घन हो कर, सप्त नव, वा दश, वा और अधिक, ग्रह बने। इस मूल तर्क में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, पर अधिकांश अब भी परिचय में यही माना जाता है। इस विचार से, पौराणिक रूपक की संगति होती है। उस आदि-काल में जब ‘तारकामय’ संग्राम हो रहा था, संभव है कि पृथ्वी के चंद्र, वा किसी अन्य ‘देव’ ने’ अर्थात् स्वर्ग-आकाश के ‘गोलक’ ने, ‘ब्रह्म के अंड’ ने, बृहस्पति के नौ चन्द्र-ताराओं में से किसी एक को अपने आकर्षण के भीतर खींच लिया हो, और उन के टकराने से, एक टुकड़ा टूट कर ‘बुध’ बन गया हो, इत्यादि। बाद में, बुध से कुछ ‘जीव’, इस पृथ्वी पर, ‘सूक्ष्म शरीर’ में, आये हों, और यहाँ के मानव गर्भों में प्रविष्ट हुए हों; जैसे,

१ Mercury.

२ Nebula.

सैकड़ों वर्षों से, मनुष्य स्त्री-पुरुष, पृथ्वी के एक देश को छोड़ कर, दूसरे देश में जा बसते हैं; अमेरिका की वर्तमान बस्ती सब यूरोप के देशों से गये हुए 'एमि-ग्रान्ट्स',^१ प्रवासियों, से ही बसी हुई है।

(५) १५ जनवरी, सन् १९३४ को, भारत में, विहार प्रान्त में, तथा नेपाल में, भारी भूकम्प हुआ; कितने शहर और ग्राम बरबाद हो गये, उस प्रान्त के पृथ्वीतल का रूप बदल गया, बीसियों हजार मनुष्य, पाँच-सात मिनट के भीतर-भीतर, मर गये। उस के बाद पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने तथा भारतीय ज्योतिषियों ने अपने अपने शास्त्र के अनुसार, कारणों का अनुमान किया और पत्रों में छपाया। अन्य बातों के साथ, पाश्चात्यों ने यह लिखा कि हिमालय पर्वत धीरे-धीरे ऊँचा होता जाता है। पृथ्वी के तल में स्थिरता नहीं है, कुछ न कुछ गति होती रहती है कहीं ऊँचा कहीं नीचा होता रहता है; यथा, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद, द्वारका समुद्र में डूब गई। भागवत में कृष्ण के मुख में कहलाया है कि, 'पृथ्वी पर से मेरे चले जाने के बाद, द्वारका को समुद्र निगल जायगा।'

द्वारकां तु मया त्यक्तां समुद्रः ग्लानयिष्यति । (भागवत)

पर बम्बई के नीचे का तीर ऊँचा हो रहा है। पौराणिक रूपक है कि परशुराम ने 'समुद्र से भूमि माग कर' अपना आश्रम बसाया, और नये ब्राह्मण बनाये; क्योंकि पुराने ब्राह्मणों ने उन को पृथ्वी छोड़ देने को कहा, जिन्हीं ब्राह्मणों के उपकार के लिये उन्होंने ने प्रजापीडक, उदण्ड, प्रचंड, दुर्दान्त क्षत्रिय राजाओं का, अन्य तीन वर्गों की सेना बना कर दमन किया था। इम के त्रिपरीत भारत का पूर्वीय तीर डूबता जाता है। विशाखपत्तन (वैजागापट्टम) नगर में विशाख (अर्थात् स्वामिकार्तिक, कार्तिकेय, साम्ब, षण्मुख) का विशाल मन्दिर जो पहाड़ी ढार पर ऐन समुद्र के किनारे बना था, वह अब समुद्र के जल के भीतर चला गया है; सारा पहाड़, क्या सारा तीर धीरे धीरे धँस रहा है।

ऐसे ही कोई समय ऐसा था जब विन्ध्य पर्वत उठ रहा था; उम समय अगस्त्य का तारा उत्तर में था। पाश्चात्य ज्योतिषियों का कहना है, कि पृथ्वी की दो ही गति नहीं है अर्थात् अपने अक्ष पर घूमना, और सूर्य के चारों ओर घूमना; अपि तु ग्यारह या तेरह गतियाँ हैं; अक्ष भी अपना स्थान कई प्रकार से बदलता रहता है; इस लिये ध्रुव तारा भी बदलते रहते हैं; जो तारा अब उत्तरी ध्रुव तारा है वह पन्द्रह हजार वर्ष पहिले ध्रुव तारा नहीं था, दूसरा था; पौराणिक कथा है कि, उत्तान-

पाद' के पुत्र 'ध्रुव' को, विष्णु ने बरदान दे कर, ध्रुव का स्थान दिया; उन की पत्नी का नाम 'भ्रमिः', (अर्थात् चक्रर खाना, गोल घूमना) ; उन के पुत्र 'कल्प' और 'वत्सर', इत्यादि । इन नामों से स्पष्ट देख पड़ता है कि यह कथा ज्योतिष का रूपक है । ध्रुव की कथा (भागवत, स्कन्ध ४, अध्याय ९) में यह भी कहा है कि, 'षट्त्रिंशद् वर्षसाहस्रं', छत्तीस हजार वर्ष तक ध्रुव का राज्य रहैगा, अर्थात् इतने वर्ष के युग के बाद अक्ष का स्थान बदलेगा, और कोई दूसरे तारा की ओर उत्तरी कोटि, अक्ष की, वेध करेगी । अक्ष के स्थान ने यहाँ तक परिवर्तन होता है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी, हो जाता है, जैसे शीर्षासन में मनुष्य का शिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है । इस पूर्ण परिवर्तन में, लाखों बल्कि, अपिप्तु, करोड़ों वर्ष लगते हैं; इस के सिवा, अक्ष, लट्टू के ऐसा झूमता भी है, (अंग्रेजी में इसे 'प्रिसेशन' कहते हैं) । जब-जब अक्ष के स्थान में, विशेष और सद्यः परिवर्तन होता है तब-तब पृथ्वी तल पर विशेष उत्पात अघःपात होते हैं । ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि एक समय में ऐसा ही परिवर्तन हुआ; अगस्त्य का तारा जो पहिले उत्तर में देख पड़ता था दक्षिण में आ गया, उसी समय विन्ध्य पर्वत लोट गया, और पृथ्वीतल का रूप, शकल, ही बदल गई । अथर्व्य नहीं कि पश्चिम के भू-शास्त्रियों के 'गोडवाना लैंड' की कथा इस पौराणिक विन्ध्य पर्वत की कथा से सम्बन्ध रखती हो । 'जियालोजी', भूशास्त्र, में कहें 'आइस एज', 'ग्लेशल एज' 'हिम-युग', आदि में, उष्णकटिबन्ध, 'टारिड ज़ोन', के स्थान में शीतकटिबन्ध, 'आर्क्टिक ज़ोन', के परिवर्तन में, और इस के विपरीत परिवर्तन में भी, अक्ष का स्थान-परिवर्तन ही कारण होता है ।

महाभारत के कर्ण पर्व में दो श्लोक आये हैं, जिन का अक्षरार्थ ठीक नहीं बैठता । कर्ण का एक अति घोर घातक बाण, अर्जुन की ओर आने देख कर, रथ के पहिये को सारथिभूत कृष्ण ने, इस जोर से, बल से, पैर के आघात से दबाया कि वह 'पाँच अंगुल' जमीन में धँस गया ।

रथस्य चक्रं सहसा निपीड्य, पंचांगुलं मज्जयति स्म वीरः ।

इस का फल यह हुआ, कि तीर अर्जुन के गले में न लग कर, मुकुट में लगा और मुकुट गिर गया । श्री कृष्ण ने पहिये को फिर निकाल लिया; इस के बाद, पृथ्वी ने कर्ण के रथ के पहिये को ग्रस लिया; कर्ण ने रथ से उतर कर, पहिया

१ Precession.

२ Gondwana land, geology, ice age, glacial age, torrid zone, arctic zone.

पकड़ कर, इस बल से उभारा, कि सातो द्वीपों सहित, शैल-वन-कानन समेत, पृथ्वी चार अंगुल उठ गई, पर पहिया न छूटा ।

सप्तद्वीपा वसुमती, सशैलवनकानना, गीर्णचक्रा समुत्क्षिप्ता कर्णेन चतुरंगुलम् ।

स्पष्ट ही यह कथानक असम्भाव्य, किमुत प्रहसन, है; यथा, पश्चिम की, 'वैरन मंचासेन के पराक्रम' नाम की बालकों को हँसाने की एक कहानी में लिखा है, कि एक समय यह वीर पुरुष घोड़े पर चलता हुआ सो गया; जब घोड़े की गति बन्द हो गई तो चौंक कर जागा; देखा कि दलदल में घोड़े के चारों पैर पेट तक धस गये हैं; दनो घुटनों से उस ने घोड़े को जोर से दाबा; गूँथी हुई अपनी मोटी चोटी ('पिग टेल') को दाहिने हाथ से मजबूत, कस के, पकड़ कर, भारी झटका ऊपर की तरफ दिया; घोड़ा और सवार, दोनों, दलदल से बाहर, मिस्ल 'फुट-बाल' के जा गिरे, और चल दिये ! आप पृथ्वी पर खड़ा कर्ण सारी पृथ्वी को चार अंगुल उठा लेता है ! 'मंचासेन' की क्या ताब जो इस के आगे मुखड़ा दिखा सके ! इस रूपक का अर्थ यों ही वैठता है, कि कर्ण और अर्जुन के युद्ध के समय, या तो अक्ष 'चार-पाँच अंगुल हिला', या और किसी कारण से (—भूकम्प के कई भिन्न-भिन्न कारण, बराह-मिहिर आदि ने भी, और पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी बताये हैं—) भूकम्प हुआ, भूमितल में दरारें पड़ीं, और बंद हो गईं; जैसा भूकम्पों में अक्सर देखा जाता है, और बिहार के १५-१-१९३४ ई० के भूकम्प में देखा गया; अर्जुन का पहिया तो निकल आया, और कर्ण का पहिया इस जोर से दरार के बंद होने के समय उस में पकड़ गया कि न निकल सका; और एक दूसरे के रुधिर के प्यासे, दोनों शूर वीर, ऐसे भूकम्प से भी कम्पित न हो कर लड़ते ही रहे जब तक कर्ण मारा नहीं गया ।

(६) अगस्त्य के प्रताप से समुद्र के सूख जाने और फिर भर जाने का भी व्याख्यान ऐसा ही जान पड़ता है । समुद्र के जल के क्षार होने के कारण के विषय में पाश्चात्यों का मत है कि आदि से ही ऐसा है । पर उन का यह भी कहना है कि समुद्र के जल में जो क्षार है वह ज्वालामुखी पर्वतों से निकले हुए 'क्लोराइड्स और सल्फेट्स'^१ से बहुत मिलता है । इस से अनुमान हो सकता है कि पौराणिक ऋषियों की दृष्टि में, अगस्त्य के स्थान के परिवर्तन से सूचित, पृथ्वी के विशेष व्याकुल अंगविक्षेप अर्थात् भूकम्प विप्लव से स्फुटित, ज्वालामुखी पर्वतों में से जो

१ Pig-tail.

२ Chlorides, sulphates.

समुद्र के भीतर भी हैं, निकले हुए क्षारों से, समुद्र का जल क्षार हुआ हो; और इसी को उन्होंने ने अगस्त्य के मूत्र द्वारा जल के विसर्जन के रूपक से कहा हो ।

(७) अश्विनीकुमार की उत्पत्ति के रूपक की व्याख्या करने का यत्न, अन्यत्र, अग्रजी भाषा में किया है^१ । यहाँ हिन्दी शब्दों में उस का संक्षेप लिखता हूँ ।

‘संज्ञा’ का अर्थ चेतना, ‘होश’, है । वह सूर्य की, प्रकाशमय सर्वसविता परमात्मा की, पत्नी, सहधर्मिणी, किं वा नामांतर मात्र, है ही । क्रमशः पृथ्वी पर, जीवत् शरीरों में, ‘प्राणियों’ में, (प्र-अनिति इति प्राणी, जो साँस ले), उस संज्ञा का अधिकार हुआ । संज्ञा का रूप ‘अश्विनी’ का हुआ । ‘अनन्ति विषयान् इति अश्विः,’ वा ‘आशु वहन्ति विषयान् प्रति जीवं, तथा जीवं प्रति च विषयान्, इति अश्विः, इंद्रियाणि’; ‘इंद्रियाणि हयान् आहुः,’ (उपनिषत्); ‘अश्विः तिष्ठति यस्मिन् स अश्वत्थः ।’

ऊर्ध्वमूलं अधःशाखमश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् । (गीता)

ऊर्ध्वमूलो ऽवाक्शाखः एपोऽश्वत्थः सनातनः । (कठ उपनिषत्)

ज्ञान और कर्म की इन्द्रियों को ही ‘अश्व’ कहते हैं । वे ‘विषयों’ को ‘अनन्ति’, चखती हैं; वा विषयों को जीव के पास और जीव को विषयों के पास ले जाती हैं । यह इन्द्रियाँ जिस में स्थित हों, उसी का नाम ‘अश्विनी’ भी, और ‘अश्वत्थ’ भी । इस ‘अश्वत्थ’ (वट) के पेड़ का विशेष यह है कि इस का मूल (जड़, मस्तिष्क, माथा) ऊपर होता है, और शाखा प्रशाखा (नाड़ियाँ) नीचे फैलती हैं । म.नव शरीर का नाड़ी-सम्प्रदाय (‘नर्वर्ग सिस्टम’)^२ ही यह ‘अश्वत्थ’ है । अश्वत्थ से उपमा इस लिये दी कि वट-वृक्ष में भी ‘बरोह’ ऊपर से नीचे लटकती हैं । (अश्वत्थ का अर्थ पीपल भी किया जाता है; पर उस से उपमा ठीक नहीं बैठती, क्योंकि पीपल के पेड़ में ‘बरोह’ प्रायः नहीं देख पड़ती); इस अश्विनी की नासा से युग्म, जोड़ुआं, दो कुमार, एक साथ पैदा हुए । इन का नाम ‘नासत्य’ और ‘दस्र’ पड़ा । दक्षिण और वाम नासिका के श्वास-प्रश्वास ही यह ‘अश्विनी-कुमार’ हैं । ‘अश्विनी’ की ‘नासा’ से उत्पन्न हुए, इस लिए नाम ‘नासत्यौ’ भी पड़ा । ‘दस्रौ’ भी ; अलग-अलग, एक का नाम ‘नासत्य’, दहिनी नासा के श्वास प्रश्वास का, दूसरे का नाम ‘दस्र’, बाई नासा के श्वास-प्रश्वास का । ‘दस्र’ का अर्थ शीत भी है ; ‘हठ योग’ की शिक्षा है कि, दक्षिण नासा, ‘सूर्य-नाड़ी’, ‘ठ’, के

^१ The Science of Social Organisation or The Laws of Manu, Vol. 2, pp, 598-602.

^२ Nervous system.

श्वास-प्रश्वास से, शरीर में गर्मी, उष्णता, बढ़ती है; वाम नासा, चन्द्रनाड़ी 'ह', के श्वास-प्रश्वास से, ठंड, शीतता, बढ़ती है। विविध प्रकारों से प्राण-अपान का आय-मन, आयाम, प्राणायाम ही मुख्य 'ह-ठ-योग' है।

प्राणायामः परं बलम् ।

प्राणायामैः दहेद् दोषान् ।

प्राणायामः परं तपः । (मनु)

प्राणायाम के साधन से शरीर को सर्वोत्तम बल प्राप्त होता है, शरीर के सब दोष दूर हो जाते हैं, इस से बढ़ कर कोई तपस्या नहीं है।

प्राणायाम ही 'देव-वैद्य' है, दिव्य औषध है, इस की विद्या टीक-ठीक जिस को विदित हो, और इस का अभ्यास उस विद्या के अनुसार जो करे, उस को कोई रोग नहीं सता सकता। इत्यादि।

अश्विनीकुमार के जन्म की कथा के साथ और भी कितनी ही सूक्ष्म-सूक्ष्म बातें कही हैं, जिन का अर्थ लगाना अति कठिन हो रहा है। यथा, सूर्य को, 'मुख्य-संज्ञा' से दो पुत्र, वैवस्वत मनु, यम, और एक कन्या, यमुना। 'छाया-संज्ञा' में दो पुत्र; भावी आठवें मनु सावर्णि, शनैश्चर (ग्रह), और एक कन्या तपती। वैवस्वत तो वर्तमान मन्वन्तर के अधिकारी प्रजापति हुए; यमुना, नदी के रूप में पृथ्वी पर उतरी; यम, प्रेतलोक के दंडधर नियत हुए; सावर्णि, आगामी मन्वन्तर के अधिकारी प्रजापति होंगे; शनैश्चर, ग्रहों में रख दिये गये; तपती का विवाह, सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशी महाराज संवरण के साथ हुआ। यम को 'छाया-संज्ञा' का शाप हुआ था; सूर्य ने, छाया-संज्ञा के वचन की मर्यादा रखने के लिये, इतना अंश उस का बचा रक्खा कि प्रति वर्ष, एक महीना, यम के पैर को कीड़े खायेंगे, और फिर वह पैर अच्छा हो जाया करेगा। इन सब कथाओं में, मानव-इतिहास (ऐन्थ्रोपाजि), प्राणिविद्या (बाया-लोजी), भू-शास्त्र (जियोलोजी), तथा ज्योतिःशास्त्र (ऐस्ट्रोनोमी), के भी रहस्य भरे हैं—ऐसा अनुमान किया जा सकता है।^१ यथा, किसी युग, 'जियो-लाजिकल एज',^२ में, नासिका और श्वास से युक्त प्राणियों की उत्पत्ति पृथ्वी पर प्रथम-प्रथम हुई; नाड़ी-व्यूह का आविर्भाव शरीरों में स्यात् तभी विशेष विस्पष्ट रूप से हुआ; सूक्ष्म कीटवत् जल-जन्तुओं में, जो श्वास-प्रश्वास नहीं लेते, नाड़ीव्यूह नहीं देख पड़ता; तथा अन्य उन से कुछ थोड़ी उत्कृष्ट योनियों में भी, जिन में पंच इन्द्रियां व्यक्त नहीं हैं, कम ही है। जैसे शनैश्चर स्पष्ट ही एक ग्रह है, वैसे 'यम' भी स्यात्

१ Anthropology ; biology ; geology ; astronomy.

२ Geological age.

वह ग्रह हो सकता है जिस को पाश्चात्य विद्वान् 'वल्कन' कहते हैं, या वह जिस का नाम उन्होंने ने 'प्लूटो' रक्खा है। ग्रीस देश के 'पुराण' ('मैथालोजी') में 'वल्कन' एक देव का नाम है, और वह भी लँगड़े कहे हैं; परन्तु उन का कर्म वह कहा है, जो वैदिक पुराणों में 'त्वष्टा विश्वकर्मा' का बताया है, अर्थात् सब प्रकार की कारीगरी; और प्लूटो नामक देव को प्रेत-जीवों का राजा कहा है, और उन का स्थान पृथ्वी के भीतर महाविवर में बताया है। अब पाश्चात्य ज्योतिषियों ने, सन् १९३० में, एक नये ग्रह का पता लगाया है जिस का नाम उन्होंने ने, ग्रीक पुराण से ले कर, 'प्लूटो' रक्खा है। यह ग्रह बहुत छोटा है, और उस की चाल में कुछ विचित्रता भी है, जिस से उस को 'लँगड़ा' कहना सार्थ होता है। इत्यादि।^१

(८) अहल्या के उपाख्यान का अर्थ लगाने का यत्न, 'पुस्तुषार्थ' नाम के ग्रन्थ के 'कामाध्यात्म' अध्याय में, मैं ने किया है। इस की कृषि-शास्त्रीय ('ऐग्रिकल्चरल्')^२ व्याख्या यह हो सकती है कि 'शतानन्द' नामक पति, जो, यदि अपनी 'हल-योग्या' 'हल्या' भूमि की उचित रूप से कृषि करते तो 'मैंकड़ों आनन्द' उस से प्राप्त करते, उस को 'हल-रहिता' 'अ-हल्या' 'अकृष्टा' छोड़ कर चले गये; 'इन्द्र' ने, जो विद्युत्, जल, वर्षा के देव हैं, उस भूमि को भ्रष्ट कर दिया; वह अनुपजाऊ, पाषाणवत्, हो गई; जब राम जी ने उस को घूम फिर कर, पाद-चारण, 'पाद-स्पर्श', कर के, देखा, और उस का उचित प्रबन्ध किया, तब वह फिर चेतन हो उठी। आयुर्वेदीय ('मेडिकल') शिक्षा इस आख्यान से यह मिलती है कि व्यभिचार दोष से 'इन्द्र' को, राजा को, सहस्र व्रण वाला, उपदंश ('सिफिलिस') नामक भयंकर रोग हो गया, तथा चन्द्रमा को राजयक्ष्मा, शय ('थाईसिस');^३ ऋषि की आराधना करने से, उचित चिकित्सा करने से, रोग अच्छे हुए; पर चिह्न और शेष कुछ न कुछ रही गये।

न एतादृशं अनायुष्यं यथा एतत् पारदारिकम् । (मनु)

'परदान-गमन के ऐसा आयुर्नाशक कोई दूसरा दुराचार नहीं'; इस से जो आधि-व्याधि उत्पन्न होते हैं, वह पुस्त दर पुस्त भयङ्कर रूप दिखाते हैं, तरह-तरह के उन्माद, तरह-तरह के कृष्ट आदि चर्म रोग भी; और उस व्यापक उन्माद के कारण घोर प्रजा-विनाशक युद्ध की।^३ मनु ने कहा है कि पाप अपना फल दिये बिना नहीं रहता।

१ Vulcan; Pluto; mythology.

२ Agricultural.

३ Medical, syphilis; phthisis

न हि एष तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः;
यदि नऽऽत्मनि, पुत्रेषु, न चेत् पुत्रेषु, नप्लुषु ।

‘यदि स्वयं पाप करने वाले पर नहीं, तो उस के लड़कों पर; नहीं तो नाती-पोतों पर’; व्यभिचार से उत्पन्न रोगों का ऐसा पुत्र दर पुत्र संचार प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है । ‘बाइबल’ में भी यही बात कही है, कि पितरों के पाप का दण्ड, तीसरी चौथी पुत्र तक, उन की संतान को भोगना पड़ेगा । उन के पुण्य का फल, उत्तम शरीर, उत्तम बुद्धि, धन-संपत्ति आदि के रूप में, भोगते हैं, तो पाप का फल क्यों नहीं ? अंततो गत्वा, प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण, अपना ही पूर्व-कर्म होता है । जिसी से अच्छे या बुरे कुल में जन्म होता है, और अच्छा या बुरा शरीर, बुद्धि आदि मिलती है ।

अध्यात्म-शास्त्र के उन अंगों की दृष्टि से, जिस को अब ‘साइकिएट्री’ और ‘मैको-ऐनालिसिस’ कहते हैं, अर्थात् ‘आधि-चिकित्सा’, मनोरोग-चिकित्सा, इस कथा का यह अर्थ हो सकता है कि महासाध्वस (‘शॉक’) से, अहल्या स्त्री को, ‘टेटनस’ वा ‘सिनकोपी’^१ के प्रकार की निःसंज्ञता, स्तब्धता, की बीमारी हो गई जो रामचन्द्र के पदस्पर्श से, कोमल-सुख स्पर्श से, ‘मैग्नेटिक टच’ से, अच्छी हुई ।^२ इत्यादि । कुमारिल ने ‘तंत्रवार्त्तिक’ ग्रन्थ में (जो जैमिनि-कृत भीमांसा-सूत्रों के शाबर भाष्य की टीका है) एक और प्रकार से इस रूपक का अर्थ लगाया है—इन्द्र अर्थात् राजा की सभा के सहस्र मंत्री और सदस्य ही उस की हजार आँखें हैं ।

(९) समुद्र-मन्थन की कथा तो प्रायः स्पष्ट ही है । आकाश-समुद्र में, द्रंवात्मक विरुद्ध शक्तियाँ, ‘देव-दैत्य’, ‘मंदर’ पर्वत (‘मैटर’, महाभूत-समूह) के द्वारा, मन्थन कर रही हैं; ‘चक्रवत्’ वह ‘मंदर’ ‘भ्रमता’ है, घूमता है, एक बेर एक ओर, फिर उस के विरुद्ध दूसरी ओर; ‘ऐक्शन’ और ‘रि-ऐक्शन’, क्रिया-प्रतिक्रिया, के न्याय से । सर्प ही वेष्टनी, नेत्री, रस्सी से, अर्थात् संसार में सब वस्तुओं की गति सर्प-मंडलाकार, कुंडलाकार ‘कुंडलिनी’ (‘स्पाइरल’ और ‘साइक्लिकल’) होती हैं; ऐसे विरोधी घर्षण से, ‘संघर्ष’ से, प्रतिस्पर्धा से, सब प्रकार के अनुभव उत्पन्न होते हैं; चौदह ‘रत्नों’ का नाम विशेष कर के बता दिया; एक-एक में रहस्यार्थ भरा होगा ।^३ संघर्ष से नेकी और बदी, भलाई और बुराई, पुण्य और

१ इस अनर्थ-परम्परा का सविस्तर निरूपण ‘गुरुधार्थ’ के चतुर्थ अध्याय ‘कामाध्यात्म’ में किया है ।

२ Psychiatry : psycho-analysis ; shock ; tetanus ; syncope.

३ Magnetic touch.

४ Matter : action-reaction ; spiral ; cyclical.

पाप दोनो उत्पन्न होते हैं; एक नहीं तो दूसरा भी नहीं; यदि रत्न और अमृत पैदा हुए तो हलाहल विष और वारुणी शराब भी। एक ही कुटुम्ब में जब भाई भाई में संघर्ष, झगड़ा, होता है, जिस से सब कुल के नाश का संभव होता है, तब दोनों ओर की शिकायतों को सुन कर, दोनो तरफ़ से गालियाँ खा कर, उस सब को पी जाने वाला, और दोनो के बीच शान्ति बनाये रखने वाला जो कोई वृद्ध होता है वही शिव है।

(१०) प्रियव्रत के रथ के सात बेर घूमने से सात द्वीप, सात समुद्र, बन जाने का अर्थ माडम ब्लैवेट्स्की के महाग्रन्थ 'दी सीक्रेट डाक्ट्रिन्' का आश्रय लिये बिना समझ में नहीं आता; जैसे वेदान्त के ग्रन्थों, उपनिषदों, और पुराणों में 'त्रिक' की, (सर्वमेतत् त्रिवत् त्रिवत्), तथा 'पंच' की, (पंच ज्ञानेंद्रिय' पंच कर्मेन्द्रिय, पंच महाभूत, पंच अंगुली, पंच प्राणों में 'पंच स्रोताम्बु', 'पंचपर्वा' अविद्या आदि की) महिमा कही है, वैसे 'सप्त' की भी, (सप्त ऋषयः, सप्त प्राणाः, सप्ता-चिंषः, सप्त जिह्वाः, सप्त होमाः, सप्त लोकाः, सप्त द्वीपाः, सप्त समुद्राः प्रसृति)। एक परिपाटी, इस विषय के विचार की, यह है कि मानव-जीवों का समूह, प्रत्येक महा-मन्वंतर में (मन्वंतर शब्द का अर्थ, दो मनुओं के बीच का, अन्तर का, काल— ऐसा कुछ विद्वान् करते हैं) सात बेर, सात महाजातियों में ('रिसेज' में) जन्म लेता है। एक-एक महाजाति, एक-एक नये द्वीप में, अधिकतर, अपने निर्दिष्ट युग, अर्थात् काल-परिमाण ('साइकल', 'पीरियड') की भोगती है। प्रत्येक महाजाति में अवान्तर सात-सात जातियाँ होती हैं। रामायण की कथा में, जाम्बवान् ने कहा है कि 'जब मैं जवान था, तब वामनावतार के समय में, जब से वामन ने तीन क्रम, 'क्रदम', बढ़ाये, तब से मैं ने इकतीस बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली; पर अब तो बूढ़ा हो गया, समुद्र पार न कर सकूँगा; इस लिये हनुमान् को ही समुद्र को तैर कर पार करना चाहिये'। इकतीस बार परिक्रमा का भी अर्थ कुछ ऐसा ही होगा, कि एक विशेष जीव-समूह ने, ऋक्ष जाति की सूत्रात्मा ने, उतने काल में इकतीस बार जन्म लिया, इत्यादि। प्रियव्रत के रथ की परिक्रमा का अर्थ कुछ ऐसा ही अनुमान से जान पड़ता है। पाश्चात्य भू-शास्त्री भी कहते हैं कि पृथ्वी के महाद्वीप, समुद्र में डूबते-उतराते रहते हैं; और पृथ्वी का स्थल-जल-सञ्चिवेश बदलता रहता है। ऊपर 'गोंडवाना-लैंड' की चर्चा की गई। पाश्चात्य वैज्ञानिक, इस का दूसरा नाम 'लेम्युरिया' बतलाते हैं। भारतवर्ष और अफ्रीका का मध्यभाग

१ Madam H. P. Blavatsky, *The Secret Doctrine*.

२ Races; cycle; period.

इस में शामिल था; 'इण्डियन ओशन' स्थलमय था। उस के टूट कर डूबने पर, नया सन्निवेश बना। तथा, सब से पुराना समुद्र 'पॅसिफ्रिक' है, उस के बाद 'इण्डियन ओशन', उस के बाद 'एटलांटिक ओशन' बना। इत्यादि।^१ इन्हीं सात महाजातियों का सात महाद्वीपों में एक के बाद एक, जन्म लेने का रूपक, प्रियव्रत के रथ के सात बेर पृथ्वी की परिक्रमा करना और सात द्वीप और सात समुद्र बनना है।

(११) निरुक्त में कहा है, पश्यकः सूर्यः कश्यपो भवति'। सूर्य ही का नाम कश्यप है; सूर्य की विशेष शक्ति वा विभूति, पृथ्वी का अधिकारी देव बन कर, कश्यप 'ऋषि' कहलाई। 'अदिति', पृथ्वी का ही नाम है। 'दिति' आदि भी पृथ्वी के रूप हैं, अंश, 'आसपेक्ट' 'पहल' हैं। इस प्रकार के तेरह 'अंशों' से, तेरह प्रकार के तेरह मूल 'जाति', 'आर्डर्स', के जीव उत्पन्न हुए। 'आदित्य', 'दैत्य', 'दानव', 'मानव', पशु, पक्षी, सर्प, जल-जन्तु आदि। यह सब 'बायॉलोजी', 'जूऑलोजी', शास्त्रों के तथ्यों के रूपक हैं।^२

विनता को प्रायः गरुड़ और अरुण की माता कहा है। अरुण, सूर्य के सारथी हैं; प्रातःकाल की रक्तिमा का नाम है। गरुड़, विष्णु के वाहन हैं; 'छंदोमयेन गरुडेन समुद्रमनः', ऐसा विष्णु का वर्णन किया है; वायु पुराण में कहा है कि 'विनता', छन्दों की माता है। कद्रू का अर्थ 'कुत्सित' भी है; 'सोम-रस रखने का भूरे रंग का पात्र' भी है; 'सर्पों की माता' भी है। गरुड़ पक्षी सर्पों को खा जाता है। महाकाल के प्रवाह की सूचना गरुड़ के महावेग और महाबल और परमात्म-स्वरूप विष्णु के वाहनत्व से होती है; वैदिक छन्द विष्णु की स्तुति करते हैं: उन के सुप्रयोग से 'वैष्णवी' शक्ति का आवाहन हो सकता है, और मनुष्य को सहायता मिल सकती है। सर्प छोटे-छोटे 'मंडलाकार' 'कुंडलित' 'साइकल' ३ युग हैं; उन को गरुड़रूपी महाकाल खा जाता है। कद्रू को इच्छा होती है कि 'सर्प' अमृत पी कर अमर हो जायें; ना-समझ जीव चाहता है कि हमारा जन्ममरणधर्मा स्थूल शरीर ही अमर हो जाय; विनता को ठगने का यत्न करती है। 'सहस्रार चक्र' में, ब्रह्मरंध्र में, 'अमृत' का घड़ा रखा है; जो जीव, योग-साधना से, ब्रह्मरंध्र तक पहुँचता है भात्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, पहिचान लेता है, वह अमर हो जाता है; 'अमर हो जाता है' का अर्थ है, अपनी आत्मा की अमरता को पहिचान लेता है; 'ब्रह्मवै

१ Gondwana land; Lemuria; Indian Ocean; Pacific Ocean Atlantic Ocean.

२ Aspect; orders; biology; zoology.

३ Cycle.

सन् ब्रह्म भवति'; कोई नई अमरता उस को नहीं मिलती ; कैसे मिल सकती है ? भूली हुई, अपने भीतर भरी हुई, अमरता को याद कर लेना ही तो अमर हो जाना है। गरुड़, सचे योगी, योग-बल से, 'छंदोमय' मंत्र का जप, ध्यान, मनन करने से, दो पक्ष और एक चंचु के, इडा, पिंगला, और सुषुम्ना के बल से, 'सहस्रार' तक पहुँच कर, उस घड़े को लाते हैं; पर वाम-मार्गी, अहंकारी, राग-द्वेष के दुष्ट भावों से भरे सर्प उस को नहीं पा सकते; अपनी जिह्वा को दुभासिया, झूठी, बना लेते हैं। वे अमृत नहीं पी सकते, सोम ही पी सकते हैं, जिस से नशा होता है, 'इन्द्रोऽमाद्यत सोमेन'; मालूम होता है कि भाँग की-सी कोई नशीली औषधि रही; उस को बहुत से लोग मिल कर राजस-तामस प्रत्यक्ष-पशु-यज्ञ में पीते थे, और मांसादि खूब खाते थे; जैसे आजकाल भी 'सेरीमोनियल डिनर्स'^१ में। 'सात्त्विक यज्ञ' दूसरी ही वस्तु थी; काम, क्रोध, लोभ, मोह-भय, मद, मत्सर, अहंकार (अज, महिष, गो, अश्व, नर) का बलिदान उस में किया जाता था; अपने भीतर के पशुओं का; बाहरी का नहीं। सोम औषधि के कई प्रकार होते हैं, ऐसा भी पुराने ग्रंथों से जान पड़ता है; एक प्रकार का प्रयोग कायकल्प के लिये, शरीर के नवीकरण के लिये, किया जाता था; अमेरिकन इण्डियन लोग 'मेस्कल' नाम की एक औषधि जानते हैं, जिस के खाने से कुछ देर के लिये सूक्ष्म इन्द्रिय, दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र, ('क्लेयर-वायंस', 'क्लेयर-ऑडियेन्स', आदि) खुल जाते हैं।^२

(१२) मनुष्य शरीर क्षुद्र-विराट् है; बह्मांड में, महाविराट् में, जो पदार्थ हैं, वह सब इस में भी हैं। इस के बीच में 'मेरुदंड', 'पृष्ठवंश', है। उस में तैंतीस गुरिया ('वर्टिब्रा') हैं। बारह 'आदित्य', ग्यारह 'रुद्र', आठ 'वसु', दो 'इन्द्र-प्रजापती' वा 'अश्विनी-कुमार'। पच्छिम के शारीर-शास्त्री ('ऐनाटोमी-फिसियॉलोजी, के बैज्ञानिक) कहते हैं कि गले में सात ('सर्विकल'), पीठ में बारह ('डार्सल' वा 'थोरासिक'), उन के नीचे कटि में पाँच ('लम्बर'), उन के नीचे कमर में पाँच ('सैकल'), उन के नीचे पृष्ठ मूल में चार ('काक्सिजियल'); तैंतीस की गिनती दोनो प्रकार में मिलती है;^३ विभाजन, वर्गीकरण, में भेद है। मस्तिष्क के कंदों से और इन गुरियों से निकलने वाली और उन में पैठने वाली नाड़ियों से ज्ञान और कर्म की इन्द्रियों का सम्बन्ध है; तत्तत् इन्द्रिय, और तत्तद्विषयभूत पंच महाभूतों

१ Ceremonial dinners,

२ American Indian; clairvoyance: clairaudience.

३ Vertebra; anatomy, physiology; cervical; dorsal or thoracic; lumbar; sacral; coccygeal.

के अभिमानी, चैत्यन्यांश 'देव' कहलाते हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, एक मनसू, इन ग्यारह इन्द्रियों के 'अभिमानी', 'अहंकारवान', देवता, ग्यारह 'रुद्र' कहलाते हैं।

(पर्वभिनिर्मितो यसमात् तस्मान्मेरुस्तु पर्वतः,
तत्र संचारिणी देवी शक्तिराद्या तु पार्वती,
तस्य मूर्ध्नि स्थितो देवो ब्रह्मरन्ध्रे महेश्वरः,
अनन्तानां च केलीनां तयोः कैलास आसनम् ।
मानस्यः एव ताः सर्वाः, सरस्तस्माच्च मानसं ।
दीव्यन्ति, यत्तु क्रीडन्ति विषयैरिन्द्रियैरपि,
तस्माद्देवाः इति प्रोक्ताः तास्ताः प्रकृतिशक्तयः ।
महेश्वरस्यात्मनस्तु सर्वे ते वशवर्तिनः ।
'इदम्' द्रावयत्यस्माद् आत्मा इदंरुद्रस्तु कथ्यते;
'इदं-द्रं' संतं आत्मानं 'इन्द्रं' आचक्षते बुधाः,
देवानामीश्वरश्चन्द्र इति पौराणिकी प्रथा ।)

इस प्रकार से संग्रह-श्लोक कहे जा सकते हैं।

शिव के सिर से आकाश-गंगा बहती है; वही सुषुम्ना है; 'सु सुम्ना', अति उत्तम मनन', 'महा-आनन्द'। उस की 'धारा' को उलटी बहावै, प्राणशक्ति 'रा-धा' की उचित उपासना करें; 'उर्ध्व-रेतस्', 'बह्मनाल', से (जो स्थूल काशी नगरी की एक गली का नाम है) 'मणिकर्णिका' घाट को जाय, तो 'बह्म-लाभ' हो, 'तारक' मंत्र मिले, तर जाय, मुक्त हो जाय। मेरु के ('स्पाइनल कांड' के) बीच की नाली ही प्रायः 'सुषुम्ना' शब्द से संकेतित होती है। उस के दहिने तरफ 'पिंगला', और बाईं ओर इडा, कही जाती है; ये प्रायः दोनो 'सिम्पाथिक नर्व्ज' हैं।^१ कुंडलिनी का, जो शक्ति की एक रूपान्तर ही है, इन नाडियों से सम्बन्ध है। योग-वासिष्ठ के निर्वाण-प्रकरण के पूर्वार्ध के अन्तिम अध्यायों में, तथा अन्य ग्रन्थों में, भिन्न प्रकारों से, इस का संकेत मात्र बर्णन किया है। इत्यादि।^१

स्कंद पुराण के काशी खंड नामक अंश में 'काशी', 'वाराणसी', 'गङ्गा', 'अविमुच्य

१ Spinal cord; sympathetic nerves.

२ इन तीर्थों के नाम सब, काल के प्रवाह से, भ्रष्ट हो गये; ह्यग्रीव कुंड का द्विगुआ तलाव, मिश्र पुष्कर का मिसिरपोखरा, मंदाकिनी का मैदागिन, मत्स्योदरी का मछोदरी हो गया; और अब तो यह सब तीर्थ लुप्त ही हो गये, म्युनिसि-

क्षेत्र', 'त्रिशूल के उपर स्थित काशी', 'शिव की नगरी' इत्यादि का सविस्तर आध्यात्मिक अर्थ बताया है। आत्मज्ञान को पा लिया है जिस ने, आत्मा का प्रकाश हो गया है जिस में, उस बुद्धि ही का नाम काशी। वरुणा से आशय इडा, असी से पिंगला, लुप्त सरस्वती से सुषुम्ना—इसी से वाराणसी। सदा बहने वाली 'गच्छति इति गंगा', अनाद्यनन्त-प्रवाह वाली मूल प्रकृति, कूटस्थ कैलास पर्वत पर बैठे हुए परमात्मा शिव के नीचे बहती हुई। त्रिशूल के ऊपर, क्यों कि "सर्व एतत् त्रिकं त्रिकं"। 'ब्रह्मनाल' गली; मणिर्कणिका अर्थात् वही सहस्रार चक्र; हयग्रीव कुंड, मिश्रपुष्कर तीर्थ, मंदाकिनी, मत्स्योदरी आदि, सब शरीर के विविध चक्रों कंदों पीठों के नाम हैं। "काश्यां मरणान्मुक्तिः", क्यों कि आत्मा के प्रकाश से व्याप्त बुद्धि को पा कर जो जीव शरीर छोड़ता है वह अवश्य मुक्त हो जाता है; तथा काशी में सच्च तपस्वी ज्ञानी आत्म-ज्ञान को पाये साधु सन्यासी रहते हैं; उन के सत्संग से ही दूसरों को भी ज्ञान मिलता है, "ऋते ज्ञानान् न मुक्तिः" ऐसा ही अर्थ सात पवित्र पुरी और चारो धाम का है। इत्यादि। पंचक्रोश और उस के मंदिरों और तीर्थों की भी कथा ऐसी ही अनन्त कथा है। पट्चक्रों को जगाने और उन के पार जा कर सप्तम सहस्रार में पहुँचने की सब 'क्रिया', विविध 'योग-मार्गों' के प्रक्रियात्मक अभ्यास का विषय है; बिना उच्च कोटि के अनुभवी, यम नियमादि में निष्णात, गद्गुरु के, तथा बिना वैस ही सच्च हृदय से युयुधु, मुमुक्षु, शुद्ध पवित्र चरित्र से युक्त शिष्य के, इन गूढ़ रहस्य विषयों का पता चलना कठिन है; और योग की भूमियों को, उस रहस्यज्ञान की सहायता से, क्रमशः पार करने वाले अभ्यास का करना तो अति कठिन है।

अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहाः यमाः ।

शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

(योग-सूत्र)

अभ्यासेन तु, कौंतेय !, वैराग्येण च गृह्यते । (गीता)

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेत् मुंजाद् इपीकामिव धैर्येण ।

इह चेद् अशक्नुवोद् प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः,

ततः सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ।

लब्ध्वा विद्यां योगविधिं च कृत्स्नं,

ब्रह्म प्राप्नो विरजोऽभूद् विमृत्युः । (कठ०)

पट्टी के कूड़ेसे पट गये, और उन पर नैजिक मकान या सार्वजनिक उद्यान आदि बन गये। और ज्ञानी तपस्वियों के ठिकाने महा पापिष्ठ ठग बकबती बिहालवती भर गये, जिन की चर्चा ऊपर की गई।

यह सब गीता और उपनिषदों के वाक्य हैं। आशय यह है कि वेदांत के निश्चित ज्ञान से ‘वित्त-विमुक्ति’ हो जाती है; पर उस के पीछे भी, ‘योगविधि’ से, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकाल सकने से, ‘शारीर मुक्ति’ होती है ‘वित्त-विमुक्ति’ अधिक दृढ़ होती है। मुहम्मद ने भी कुरान में कहा है, ‘मुतो क़ळ्न् तमूतो’, यानी मौत से क़ळ्न् मौत को जानो; मरने से पहिले मरो; जीते जी ‘जिस्मि कसीफ़’ से ‘जिस्मि न्लतीफ़’ को अलग करने की शान को हासिल करो। मुल्ला जामी ने कहा है—

यक् वार बिमीरद् हर कसे, बेचारः जामी वारहा ।

‘और लोग तो एक ही बार मरते हैं, बेवारा जामी बार-बार मरता है;’ यानी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल कर, उस के द्वारा दूसरे लोकों की, आलमो को, सैर करता है।

कुछ अन्य रूपक

ऐसे ही रूपक, पद पद पर पुराणों में भरे हैं। यथा जब इन्द्र की सौतेली माता दिति (पृथ्वी) गर्भवती थी, और इन्द्र का भयंकर शत्रु उस से उत्पन्न होने वाला था, तब इन्द्र (विद्युत्) ने, उस में योगबल से प्रवेश कर के, वज्र से उस के सात टुकड़े किये, और जब वे सात रोने लगे, तो ‘मत रो’, ‘मत रो’, कह कर एक एक के सात सात टुकड़े किये; इस से उन का नाम उन्चास ‘मरुत्’ (वायु) हुआ, और वह गर्भ से निकल आये; फिर इन्द्र ने दिति से अपना अपराध क्षमा कराया, और दिति ने इन्द्र और मरुत् में सदा के लिये मित्रता करा दी। अवश्य ही इस बुद्धिपूर्वक गढ़े हुए रूपक का कुछ विशेष अर्थ होगा। स्यात् वैसा ही कुछ हो जैसा पच्छिम के वैज्ञानिक लोग अब कहते हैं, कि बहुत किस्म की ‘गेस’ होती है। और सात संख्या का भी, इन के क्रमिक विकास (‘ईवोल्यूशन’) से सम्भवतः कुछ वैसा सम्बन्ध हो सकता है जैसा पाश्चात्य रूसी वैज्ञानिक मंडेलेयेफ़ के पाये और बतलाये ‘पीरियाडिक ला’ में दिखाया है; अर्थात् आदिम परमाणुओं से इतनी ‘संख्या’ पर, ऐसे ऐसे ‘केमिकल एलिमेंट्स’ बनते हैं; ‘सांख्य’ दर्शन में पंच भूतों की क्रमिक उत्पत्ति, वेदांत का ‘पंचीकरण’, आदि भी, इन भावों से मिलते हैं। ऐसे ही मत्स्य पुराण में, अग्नि की पत्नियां, उन के वेटे, पतोहुएँ और पोते, सब मिल कर उनचास अग्नि कहे हैं। निश्चयेन यह भी निरी कहानी नहीं हो सकती।

पच्छिम के वैज्ञानिकों ने तरह तरह की 'रे' निकालना शुरू किया है।^१ पर क्या ठीक अर्थ है, यह कहना अब कठिन हो गया है। भारत के शील के साथ साथ ज्ञान का भी सर्वथा हास हो गया है।

कुछ सीधे ऐतिहासिक रूपकों की भी चर्चा कर देना उचित होगा। इन का अर्थ सरल और प्रायः निस्सन्देह है।

बहुत पूर्वकाल में, परम यशस्वी ध्रुव के वंश में, अंग का पुत्र वेन हुआ। बड़ा दुष्ट निकला। बाल्य काल में ही, अन्य बालकों की हत्या तक उस ने अरम्भ किया। अंग राजा, नितांत निर्विण्ण हो कर रातों रात जंगलों में जा कर लपता हो गये। मंत्रियों ने ऋषियों से निवेदन किया। अराजकता में महादोषः वेन के अभिषेक की आज्ञा दी। राज-सिंहासन पर बैठ कर वेन और भी मदमत्त हो गया; प्रजा को अति कष्ट देने लगा; सारी समाज-व्यवस्था को बिगाड़ डाला; धर्म कर्म, जीविका-वृत्ति, का संकर कर दिया; मेरी के घोष से यह आज्ञा देश में घुमाई कि ईश्वर की, देवों की, पूजा कोई न करै, सब मेरी ही पूजा करै, क्योंकि,

एते चान्ये च विबुधाः , प्रभवो वर-शापयोः ,
देहे भवंति नृपतेः ; सर्वदेवमयो नृपः ।

सब देवता, राजा के शरीर में ही हैं; वही वर और शाप का देने वाला है। ऋषियों ने आपस में सलाह की,

अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् ;
दारुणि उभयतो दीप्ते इव, तस्कर-पालयोः ।
अराजकभयाद् पप कृतो राजा अ-तदर्हणः ;
ततोऽप्यासीद् भयं त्वद्य; कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम् ।
ब्राह्मणः समदृक् शान्तो दीनानां समुपेक्षकः,
स्त्रवते ब्रह्म तस्यापि, भिन्नभांडात्पयो यथा । (भागवत)

'काठ के टुकड़े में दोनो ओर से आग लगा दी जाय, वह दशा प्रजा की हो गई; अराजकता में चोर डाकुओं के भय से इस को राजा बनाया; यह उन से भी अधिक दुष्ट निकला; प्रजा का कैसे भला हो ? समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, शान्त, दान्त, त्यागी, तपस्वी, ब्राह्मण भी यदि दीन प्रजा की दुर्दशा देखता हुआ उपेक्षा करे तो उस का ब्रह्मज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे फूटे बर्तन में से पानी।'

१ Evolution; Periodic Law; Chemical Elements; Rays.

ऋषियों ने राजा वेन को समझाने का यत्न किया; एक न सुना; तब उन्होंने ने उस को 'हुंकार' से मार डाला। वेन की 'बाईं जांच को मथा'; उस में से अति कुरूप बुद्धिहीन पुरुष उत्पन्न हुआ: उस को ऋषियों ने, "निपीद" 'अलग बैठ जाओ', ऐसा कहा; उस से 'निषाद' जाति उत्पन्न हुई। वेन की दक्षिण और वाम भुजाओं को ऋषियों ने मथा; दाहिनी से पृथु निकले; और बाईं से अर्चि: नाम की कन्या; दोनो का विवाह कर के, पृथु का राजपद पर अभिषेक किया।

अर्थात्, वेन की संतान में ऋषियों ने खोज की; उस के दुराचार व्यभिचार से उत्पन्न, कुरूप कुबुद्धि जन्तुओं को, 'निषादों' को, अलग कर दिया; सद्विवाह धर्म-विवाह से उत्पन्न, सदान्वारी विष्णु के अंशावतार-रूप पृथु को राजा बनाया, और उसी वंश की उत्तम कन्या से उस का विवाह कर दिया। उस आदि काल में सपिंडों सगोत्रों का भी कभी-कभी विवाह हो जाता था; यथा ईजिप्ट देश में 'फ़ेरो' 'फ़रउन' का, तथा पेरू देश में 'इंशा' राजाओं का, बहुधा अपनी बहिन से ही विवाह होता था और प्राचीन ईरान, 'आर्याना', में तो पिता-पुत्री, माता-पुत्र का भी, कभी-कभी।

पृथु बड़े प्रतापी, यशस्वी, प्रजापालक, नूतन-युग-प्रवर्तक हुए। उन के समय में अकाल पड़ा; प्रजा भूखों मरने लगी; राजा से आक्रन्दन किया; धरा वसुन्धरा धरित्री भूतधात्री (पृथ्वी) पर पृथु को बड़ा क्रोध हुआ; उस को धमकाया, 'तू क्यों मेरी प्रजा को अन्न नहीं देती? धरा देवी ने 'गौ' का रूप धारण किया; आदिराज पृथु ने, 'मनु' को (कुटुम्बी प्रजापतियों को) 'वत्स', वछवा, बना कर, गौ को 'वत्सला' दुग्ध रती पिन्हा कर के, उस से सब औषधियों, अन्नो, को दूहा; वृहस्पति (ज्ञानियों) को वत्स बना कर, ऋषियों ने 'छन्दोमय' वेद, समस्त ज्ञान, दूहा; इन्द्र को, (इन्द्रियों की शक्ति को), वत्स बना कर देवों ने 'सोम', वीर्य, ओजस्, बल, दूहा; दैत्य दानवों ने, दुष्टों ने, 'सुरा', शराब; अप्सरा और गंधर्वों (कलावन्तों) ने, (गां, वाचं, धर्यंति इति गंधर्वाः, आपः सरंति आभिः इति अप्सरसः, द्विप्रकाराः सूर्यस्य रश्मयः), 'गांधर्व मधु', संगीत विद्या; सिद्ध विद्याधरों ने विविध विद्या और सिद्धियां; मायावियों ने तरह तरह की माया; राक्षसों ने रुधिर; विषधरों ने विष; वृशों ने विविध प्रकार के रस; पशुओं ने मानृदुग्ध; पर्वतों ने नाना प्रकार के धातु; इत्यादि। सब प्रकार से प्रजा का 'रंजन' हुआ, इस लिये प्रजा ने पृथु को 'राजा' कहा, 'आदिराज' माना; धरा को पृथु ने अपनी पुत्री माना, इस का नाम 'पृथ्वी' हुआ। ज्योतिष में पृथ्वी नाम इस लिये रक्खा गया है, कि सब प्रदों में वह अधिक

‘घन’ ‘सालिड’ ‘डेन्स’^१ है, पृथु अर्थात् भारी है । पृथु मे सच्चे राजा के सब गुण परा काष्ठा मे थे,

मातृभक्तिः परश्रीषु, पत्न्यां अर्धम् इव ऽत्मनः,
प्रजासु पितृवत् स्निग्धः, किंकरो ब्रह्मवादिनाम्,
देहिनामात्मवत् प्रेष्टः, सुहृदां नन्दिवर्धनः,
मुक्तसंगप्रसंगोऽयं, दंडपाणिः असाधुषु ,
अयं तु साक्षाद् भगवान्सूत्र्यधीशः
कूटस्थ आत्मा कलयाऽवतीर्णः ।

प्रजा ने उस को जगदात्मा भगवान् का कलावतार ही माना ।

चूर्णथन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि, राजराट्
भूमंडलं इदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः,
निवासान्कल्पयांश्चक्रे तत्र तत्र यथाऽर्हतः,
ग्रामान्, पुरः, पत्तनानि, दुर्गाणि विविधानि च,
ग्रोथान्, ब्रजान् ; सशिविरान्, आकरान्, खेटखर्वटान् ।
प्राक् पृथोरिह नैवैप पुरग्रामादिकल्पना ;
यथासुखं वसन्ति स्म तत्र तत्र ऽकुतोभयाः ।

पृथु ने धनुष् की कोटि से पर्वतों को चूर कर के ‘समथर,’ ‘समरथल’ बनाया, और उस पर प्रजा के बसने के लिये, जैसे पिता पुत्रों के लिये, ग्राम, पुर, पत्तन, दुर्ग, (घोसियों के गाय बैल रखने के) ‘घोष’, (घूमते फिरने ‘ब्रजन्ति इति’ पशु चराने वाले गोपालों के लिए डेरे तम्बू के) ‘ब्रज’, (सेना के) ‘शिविर’, आकर (खान), खेट, खर्वट (छोटे छोटे गांव), आदि बनवाये । पृथु के पहिले यह सब नहीं था; प्रजा इधर उधर मुख से निर्भय जहाँ मन चाहा वहाँ पड़ी रहा करती थी । इसी से पृथु आदिराज कहलाये ।

इस कथा का अर्थ स्पष्ट ही यह है, कि पृथु के समय से पहिले, पृथ्वीतल की और ऋतुओं की अवस्था कुछ दूसरी थी; जैसी अब भी दक्षिण समुद्र के टापुओं मे है; बारहो महीने, बसन्त का सा मौसिम, बीच बीच मे बर्सात, कभी-कभी भारी बारखा, तूफान; प्रजा को मकान बनाने, गांव शहर बसाने की, न आवश्यकता न बुद्धि । फिर अवस्था बदली; पृथु के राज्य काल मे, नये सिर से एक बड़े ‘सिवि लिजेचन’^२, सभ्यता, शिष्टता, का प्रादुर्भाव हुआ; विशिष्ट ज्ञानवान्

१ Solid, dense.

२ Civilisation.

जीवों ने मनुष्य जाति में जन्म लिया; शास्त्रों का आविष्कार किया; मानव जीवन के प्रकार में परिवर्तन कर दिया। जैसे आज काल, सौ वर्ष के भीतर भीतर, आधिभौतिक विज्ञान और विविध यंत्रों के निर्माण में अद्भुत वृद्धि होने के कारण, समग्र मानव जीवन, रहन-सहन, आहार-विहार, वाणिज्य-व्यापार, अटन-भ्रमण, शिक्षा-रक्षा के बाह्य प्रकारों में सर्वथा काया-पलट हो गया है; सभ्यता, कृषि-प्रधान के स्थान में यंत्र-प्रधान हो गई है। जैसे पृथु के समय में ही ग्राम, नगर, आदि बने और बंस; खेती बारी का हुनर पैदा हुआ; गाय भैंस बकरी पाल कर उन के दूध से काम लिया जाने लगा; गीत-बाद्य की विद्या पैदा हुई; अच्छी के साथ बुरी बातें भी आईं; शराव, गोदत, का भी व्यवहार आरम्भ हुआ; इत्यादि। यह सब विषय, आजकाल, पच्छिम के 'सोशियोलोजी' शास्त्र, 'सामाजिक जीवन के आरम्भ और विकास के इतिहास,' का है। ब्रिटेन के नामी वैज्ञानिक श्री आल्फ्रेड रसेल वालेस ने; 'सोशल एनवायरनमेंट ऐंड मोरल प्रोग्रेस'^१ नामक अपने ग्रन्थ में लिखा है कि अग्नि का, खेती का, दूध दही घी के प्रयोग का, ऊन और रूई से कपड़ा बनाने का, और ऐसी ही कई अन्य परमावश्यक वस्तुओं का उद्गम, जो म्यात् लाखों नहीं तो दसियों बीसियों हजार वर्ष पहिले हुआ, वह इधर के सौ वर्ष के अन्यद्भुत आविष्कारों से भी अधिक आश्चर्यमय है।

यों तो गो शब्द के कई अर्थ हैं; गाय बैल, स्वर्ग, सूर्य, किरण, वज्र (विजली), इन्द्रिय, बाण, दिशा, वाणी, पृथ्वी, तारे, इत्यादि; ये सब ही सदा चलते रहते हैं। धातु स अर्थ, 'गच्छति इति गौः' 'जो भी चले'; अंग्रेजी शब्द भी 'गो' और 'काउ'^२ इसी से निकलते हैं। पर इन रूपकों में 'गो' शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है।

'कामधेनु' गौ के लिये, विश्वामित्र (क्षत्रिय, पीछे ब्राह्मण) का बसिष्ठ (ब्राह्मण) के साथ; तथा विश्वामित्र के भगिनीपुत्र जमदग्नि (ब्राह्मण) और उन के पुत्र परशुराम का कार्त्तवीर्य (क्षत्रिय) के साथ, बहुत वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। दोनों की 'कामधेनुओं' ने अपने 'खुर, पेट, पूँछ, सींग' से 'शक, पल्लव, काम्बोज, यवन, म्लेच्छ' आदि जातियों की बड़ी बड़ी सेनाएँ उत्पन्न कीं। दोनों तरफ भारी जनसंहार हुआ; बसिष्ठ के भी, विश्वामित्र के भी, सौ सौ पुत्र मारे गये, जमदग्नि और उन के कुटुम्ब के बहुतेरे मारे गये; परशुराम ने कार्त्तवीर्य और उस के

१ Sociology.

२ Alfred Russell Wallace. *Social Environment and Moral Progress.*

३ Go; Cow.

वंश को मारा, और फिर फिर, तीन वर्णों की सेनाएँ बना बना कर, इकतीस युद्धों में, पृथ्वी को 'निःक्षत्रिया' करने का महायत्न किया। बहुत बर्षों के, और बड़े बड़े तरह तरह के उपद्रवों और प्रजा और राष्ट्रों के विद्रवों के बाद शांति हुई।

विश्वामित्र और कार्तवीर्य दोनों की कथाओं का, आज काल के शब्दों में अर्थ यही है कि महाभारत काल से पहिले, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग में, उपजाऊ भूमि का लोभ बहुत बढ़ा; दोनों ने उचिन से अधिक भूमि को अपने भोग विलास के लिये अपने अधिकार में रखना चाहा; प्रजा को भलाई की चिन्ता बहुत कम की; आपस में युद्ध हुए; क्षत्रियों की सेना तो बनी बनाई थी; ब्राह्मणों ने बाहरी जातियों को, अपनी भूमि की पैदावार दे कर, अपनी सहायता के लिये बुलाया; दोनों का बहुत ध्वंस हुआ; अंत में किसी किसी रीति से संधि और शान्ति हुई। यही कथा, यूरोप के इतिहास में, कई बेर हो चुकी है। 'चर्च और स्टेट' 'प्रीस्ट और किंग', 'सासरडोटलिस्ट और मिलिटारिस्ट', 'थियोक्राट और टाइमोक्राट'^१ के बीच में, जमींदारी, धन, आज्ञा-शक्ति, अधिकार, भोग विलास की अति लालच से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई; जिन में प्रजा की तवाही हुई। 'फ्रेंच रिवोल्यूशन' के समय भी 'चर्च' की बहुत जायदाद छीनी गई; हाल में, रूस में, जनता ने 'प्रॉस्ट' की भी और जमींदार की भी सब जमीन छीन ली^२; सन् १९३६-३७-३८ में, स्पेन में, प्रजा-विनाशक भारी गृहयुद्ध हुआ, जिस में भी एक मुख्य कारण यह था कि 'चर्च' की बहुत जमीन, नये बनाये संघ-राज्य के अधिकारियों ने छीन ली थी; और इस गृहयुद्ध में चर्च के पक्ष वाले सेनानियों की जीत हुई है।

रावण के दस सिर और बीस भुजा का अर्थ, दस मंत्री और बीस प्रकार के सेना के अंगों से है; चतुरंगिणी सेना के स्थान में उस की सेना त्रिंशांगिनी थी; हवाई जहाज भी थे (एयर-आर्म), समुद्री सेना (नेवल आर्म), तोपखाना (आर्टिलरी आर्म) आदि, जैसे आज पच्छिमी राज्यों की। ब्रह्मज्ञानी हो कर भी पापिष्ठ था इस लिये ब्रह्मराक्षस था; काशी में जो पाप करे वह ब्रह्मराक्षस ब्रह्मपिशाच होता है। सीता का अर्थ जोती बोई भूमि; राम जी की भूमि को रावण ने चुरा लिया था। इत्यादि।

'सोशियोलॉजिकल हिस्टरी' का, 'इंवल्यूशन' का^३, ऐसा रूप और क्रम क्यों

१ Church and state; priest and king; altar and throne; crozier and sceptre; book and sword; tiara and crown; sacerdotalist and militarist; theocrat and timocrat.

२ French Revolution; church; priest.

३ Sociological history; evolution.

होता है, इस प्रश्न का उत्तर, चैतन्य-परमात्मा की प्रकृति के प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप असंख्य प्रकार के विकास-संकोच को बतलाने वाले आत्म-दर्शन-शास्त्र से मिलता है ।

रूपों की चर्चा का प्रयोजन

यहाँ यह सब चर्चा केवल इस वास्ते कर दी कि 'दर्शन' से कहाँ तक 'आँख' फैलने का सम्भव हो जाता है, यह जिज्ञासु को मालूम हो जाय; पुराण ग्रन्थों के अश्वरथ पर अंध-श्रद्धा न की जाय; न यक-वारगी, उन को अज्ञयून्ची की गप्प कह कर कूड़ेखाने में फेंक दिया जाय; बल्कि उन का बुद्धि-सम्मत, युक्ति-युक्त, गूढ़ अर्थ खोजा जाय । पहिले ही कहा है, पर फिर से याद दिला देना उचित है, कि ऊपर जो अर्थ पौराणिक रूपों के सूचित किये गये हैं, वे कदापि निश्चित प्रमाणित नहीं हैं; युक्ति-द्वारा कल्पना मात्र हैं; बुद्धिमान् पाठक स्वयं इन में विस्तार, संकोच, मार्जन, शोधन कर लेंगे ।

कोई कहेगा कि 'बढ़ायासे लवुकिया'; 'कोह कन्दन व काह बरावर्दन'; पहाड़ खोद कर चूहा निकालना; भारी मिहनन कर के, एक-एक रूपक का अर्थ खोजें, वह भी निश्चित न हो, और ऐसी कोई नई बात भी न मालूम हो, तो ऐसा क्यों करें ? पाश्चात्य विज्ञान की पुस्तकों से, क्या इस सब से बहुत अधिक ज्ञान, हम को, इस की अपेक्षा बहुत सरलता से, नहीं मिल सकता ?

इस शंका का मुख्य समाधान यह है कि आध्यात्म-विषयक, योग-विषयक, जो ज्ञान इन प्राचीन ग्रन्थों से, उन की वर्तमान शीर्ण-जीर्ण अवस्था में भी मिल सकता है, वह अभी तक पाश्चात्य वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुआ है । पश्चिम में जो प्राक्-भौतिक वस्तुओं का आधिभौतिक विज्ञान, और बाह्य शक्तियों का ('हीट', 'लैट', 'सौंड', 'इलेक्ट्रीसिटी', 'मैग्नेटिज़्म' आदि का)^१ आधि-दैविक विज्ञान, वहाँ के अन्वेषकों गवेषकों ने प्राप्त किया है, उस को हमें, आदर के साथ, और सदुपयोग के लिए, लेना ही चाहिये; पर उस के साथ, हम को अपने प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का, आभ्यंतर शक्तियों के आधिदैविक ज्ञान का, जोर्णोंद्वार कर के संग्रहण करना भी परम आवश्यक है । संभव है कि वैदिक और पौराणिक सूचनाओं और रहस्यों पर उचित रीति से ध्यान करने से नई आधिदैविक और आधिभौतिक बातों का भी विज्ञान मिले । दोनों के, प्राचीन और प्रतीचीन के, पुराण और नवीन के, प्रज्ञान और विज्ञान के, उत्तम सम्मिश्रण से, समन्वय से, और सम्बन्धदर्शन के अनुसार सत्

^१ Heat; light; sound; electricity; magnetism.

प्रयोग से, 'सनातन'-पदार्थ के अनुकूल 'धर्म' के बताये माग पर चल कर सदुपयोग करने से ही भारत का, तथा सर्व मानव जगत् का, कल्याण हो सकता है। और भी; प्राचीन काल में छापाखाना आदि की सुविधा नहीं थी; थोड़े में बहुत अर्थ कहने का प्रयोजन था।

सभी ज्ञान, कर्म के वास्ते हैं।

“सर्वमपि ज्ञानं कर्मपरं”—यह मीमांसकों का मत है। अर्थात् 'सब ज्ञान का प्रयोजन यही है कि किसी कर्म का उपयोगी हो।' शांकर सम्प्रदाय के वेदांतियों ने इस उत्सर्ग में यह अपवाद लगाया है कि, “ऋते आत्मज्ञानात्”; 'आत्मज्ञान स्वयं साध्य है, किसी धर्म का साधक नहीं।' कर्मकांडी मीमांसकों ने इस शांकर मत का दूसरी रीति से उत्तर दिया है, जैसा तन्त्रवार्तिक की न्याय-सुधा नामक टीका में सोमेश्वर भट्ट ने (अ० १, पाद २, में) कहा है।

परलोकफलेषु कर्मसु विनाशिदेहादिव्यतिरिक्तनित्यकर्तृभोक्तरूपात्मज्ञानं विना प्रवृत्त्यनुपपत्तेः; अहं-प्रत्ययेन च, देहेऽपि दृष्टेन, स्फुटतया तद्व्यतिरेकस्य ज्ञानम् अशक्यत्वात्, शास्त्रीयम् आत्मज्ञानं क्रतुविधिभिरपेक्षितं :...उपनिषज्जनितस्यात्मज्ञानस्य...ऋत्वंगत्वावधारणात् तद्द्वारेण पुरुषार्थानुबन्धित्वम्।

अर्थात् 'स्वर्ग-साधक यज्ञादि कर्म-कांड में मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जब तक उस को यह विश्वास न हो कि इस नश्वर शरीर से व्यतिरिक्त कोई आत्मा है जिस को स्वर्ग का अनुभव हो सकता है। और ऐसा विश्वास, आत्मा के अस्तित्व का, उपनिषदों से होता है। इस लिए उपनिषत् और तज्जनित आत्मज्ञान भी कर्मपरक हैं'।

इस का भी प्रत्युत्तर, 'आत्म-ज्ञान' और 'आत्म-अनुभव' में सूक्ष्म विवेक करने में हो सकता है; यथा, 'अनुभव' का तृतीय अंश 'ज्ञान' है; अन्य दो अंश, 'इच्छा' और 'क्रिया'; यह तीनों मिल कर, 'अहं अस्मि' इस 'अनुभव' में अंतर्गत हैं; ऐसा अनुभव, स्पष्ट ही 'कर्म-परक' नहीं हो सकता, सब कर्म, सब इच्छा, सब ज्ञान, इस में अन्तर्गत हैं; “स सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्वः”; तथा, स्वर्गादि साधक यज्ञादि काम्य-कर्म से, निर्गुण परमात्मज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं, केवल जीवात्मज्ञान से सम्बन्ध है—यह विचार करने से भी प्रत्युत्तर हो सकता है! यज्ञो से स्वर्ग की प्राप्ति वेदों में कहीं है; पुनःपुनः जन्म-मरण के बन्ध से मोक्ष, और अमरत्व की प्राप्ति, नहीं कही है; आत्मानुभवात्मक ज्ञान, बाह्य विषयों के, तथा आंतःकरणिक बौद्ध प्रत्ययों वृत्तियों के भी ज्ञान से भिन्न है; इत्यादि। पर इस सब सूक्ष्मेक्षिका में पढ़ने का यहाँ काम

नहीं है; अपने को यह अभीष्ट ही है, कि जीवात्मज्ञान अर्थात् जीवात्मा की त्रिगुणात्मिका प्रकृति का, उस के गतऽगत आवागमन का, पुनःपुनः जन्ममरण का, अवरोह-आरोह का, प्रवृत्ति-निवृत्ति का ज्ञान तो न वेवल कर्म-परक है, अपितु सत्कर्म के, सज्जीवन के, लिए नितांत आवश्यक है; बिना उस के काम ठीक चल सकता नहीं;

न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते । (मनु)
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् । (गी०)

बिना अध्यात्म-ज्ञान के अनुसार कर्म किये कोई मनुष्य कोई सत्फलदात्री क्रिया नहीं कर सकता; सब काम उस का गलत, अशुद्ध, होगा। ज्ञान ही के अनुसार तो क्रिया की जाती है; जिस का जैसा ज्ञान वैसी उस की क्रिया है। सब ज्ञानो मे उत्तम ज्ञान अध्यात्म-ज्ञान है, इस लिये उस के अनुसार किया काम ही उत्तम होता है, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सब को साधता है।

गीता मे मुख्यतः जीवात्मा की प्रकृति का ज्ञान, अर्थात् 'अध्यात्मविद्या', और उस मे नितरां प्रसक्त होने के कारण 'आत्म-विद्या' 'ब्रह्मविद्या' भी जो कही गई, वह स्पष्ट ही इसी लिये कि वह अर्जुन के लिये 'कर्म-परक' हो, उन को धर्म-युद्ध के कर्म मे प्रवृत्त करे। 'मां अनुस्मर' ज्ञानांश, 'थियरी'; 'युभ्य च' कर्मांश, 'प्रेकृष्टिः' । यहाँ इस के सिवा इतना ही कहने की आवश्यकता है कि मीमांसा का यह सब आशय, तथा शांकर सम्प्रदाय वालों का भी, तथा अन्य बहुत कुछ अर्थ, मनु भगवान् के थोड़े से श्लोकों मे भरा पड़ा है। उस पर पर्याप्त ध्यान देने से सच्चा आत्म-दर्शन भी हो सकता है, और तदनुसार लोक-यात्रा भी, व्यक्ति की भी, समाज की भी, कल्याणमय बनाई जा सकती है।

धर्म और दर्शन, दोनो, से स्वार्थ भी, परार्थ भी, परमार्थ भी

यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । (वैशेषिक सूत्र)

वेदान्त पर, ब्रह्मविद्या पर, प्रतिष्ठित मानव धर्म ऐसा है कि इस से इहलोक और परलोक, अभ्युदय और निःश्रेयस, दोनो, 'अभ्युदय' मे अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम भी, और 'निःश्रेयस' अर्थात् मोक्ष भी, सभी चारो पुरुषार्थ, उत्तम रीति से सध सकते हैं। 'ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा' है, इस लिये अध्यात्मविद्या तो उस के अंतर्गत ही है।

न केवल संस्कृत शब्दों मे भारतवर्ष के ही बुजुर्गों ने कहा है, बल्कि अरबी-फ़ारसी शब्दों मे सूफ़ी बुजुर्गों ने भी कहा है,

गौहरे जुज़्-ख़ुद-शिनासी, नीस्त दर्-वहरे वुजूद ;
 मा व गिर्दे ख़वेश मी गर्दम् चूं गिर्दावहा ।
 तरीक़त बजुज़ ख़िदमते ख़ल्क़ नीस्त ;
 व तसबीहो सज़ादः ओ दल्क़ नीस्त ।

इस भवसागर मे मोती है तो केवल ख़ुद-शिनासी, आत्मज्ञान, ही है। जैसे पानी मे बैँवर अपने ही चारो ओर घूमता और चक्कर खाता है, वैसे ही हम सब अपनी आत्मा के ही चारो ओर भ्रमते रहते हैं; 'मै', 'मै', 'मै'—इसी पर हमारी जिन्दगी नाचती-फिरती रहती है। सच्चे 'मै', सच्चे आत्मा, को पाने और साबित करने का तरीक़ा, सिवा इस के और कुछ नहीं है, कि खिलक़त की खिदमत करो, लोकसेवा करो। तसबीह अर्थात् माला फेरना, और सज़ादा यानी आसन विछा कर चुप़ी साधना, दल्क़ अर्थात् कन्था कथरी गूदड़ी ओढ़ना—यह आत्मा को पाने का उपाय नहीं हैं। हाँ, यह सब भी, विशेष अवस्था मे, साधन के अंग हैं; पर तभी सच्चे और सफल होंगे जब सर्वभूतदया, सर्वभूतप्रियहितेहा, सर्वभूतहिते रतिः, खिदमते ख़ल्क़, उन के पीछे, उन के साथ, लगी रहे, उन की प्रेरक हो।

यदि वह चालीस या पचास लाख वेशधारी साधु-संत, बैरागी, उदासी, संन्यासी, फकीर, औलिया, महन्त, मठधारी, मन्दिराधिकारी, तक्रियादार, सज़ादा-नशिन आदि, जिन की चर्चा पहिले की गई—यदि ये लोग, आरामतलबी और पाप त्याग कर, सच्चे 'साधु', सच्चे आत्मदर्शी और लोकहितैषी, खादिमे-ख़ल्क़ हो जायँ, तो आज इस अभागे देश के सब प्रकार के दुःख के बन्बन टूट और छूट जायँ; इन सब आर्थिक, शासनिक, धार्मिक, रक्षा-शिक्षा-भक्षा-सम्बन्धी, सभी दुःखों, बन्धनो, गुलामियों से मोक्ष मिले, नजात हो; और भारत भूमि पर स्वर्ग देख पढ़ने लगे; तथा इस के नमूने से अन्य देशों मे भी उत्तम समाजव्यवस्था फैले।

जैसा पहिले कहा, एक-एक मन्दिर की, विशेष कर दक्षिण मे, इतनी आमदनी इतनी इमारत है, कि सहज मे एक-एक युनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कलागृह और चिकित्सालय, का काम, उन मे के एक-एक से चल सकता है। यदि सब वक्फ़ की जायदादों का और सब धर्मत्र और देवत्र संस्थाओं, 'अखाडों', मन्दिरों दर्गाहों का प्रबन्ध सतयुद्धि से हो; और उस के अधिकारी, सदाचारी और लोक-हितैषी हों, और स्वयं पढ़ने-पढ़ाने आदि के काम मे, और रोगियों की चिकित्सा मे, लग जायँ; तो इन की आमदनी और मकानात से, आज पचास युनिवर्सिटी और कारीगरी, हुनर,

सनअत-हिरफत, विविध शिल्प-कला सिखाने के कालिज, और प्रत्येक गाँव में एक स्कूल, अर्थात् समग्र भारत में सात लाख स्कूल, और हर बड़े शहर में एक चिकित्सालय, आयुर्वेद-तिब्ब के अनुसार काम कर सकते हैं। और इतने सदान्वार का 'इन्द्रिय-निग्रह' के लिये और प्रजा की संस्था की अतिवृद्धि रोकने के लिये, तथा अन्य सब प्रकार से समस्त जनता पर, शासक पर और शासित पर, कैसा कल्याणकारक प्रभाव पड़ेगा, यह सहज में समझा जा सकता है।

वर्णधर्म और आश्रमधर्म का मूल-शोधन, इस अध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों के अनुसार कैसा होना चाहिये और हो सकता है, जिस से समाज के सब दुःख दूर हो जायेंगे—इस का प्रतिपादन अन्य स्थानों और अवसरों पर, इस लेखक ने पुनःपुनः किया है। यहाँ विशेष विस्तार करने का अवसर नहीं है। तौ भी इस अध्याय के अन्त में, संक्षेप से, उस धर्म के मुख्य तत्त्वों का वर्णन, मनु के, तथा अन्य, श्लोकों से, उन के अनुवाद के साथ, किया जाता है।^१

१ इस समग्र विषय का विस्तार से प्रतिपादन, प्रस्तुत लेखक के अन्य ग्रन्थों में किया गया है, विशेष कर (संस्कृत) 'मानवधर्मसारः', (हिन्दी) 'पुरुषार्थ', (अंग्रेजी) 'सनातन वैदिक धर्म' और 'एसेन्शल युनिटी ऑफ़ ऑल रिलिजन्स' में तथा 'सायंस ऑफ़ सोशल आर्गेनाइजेशन' में।

अध्याय ६

दर्शनसार और धर्मसार

(विस्मृत्य इव परात्मत्वं, जीवात्मत्वं गता चितिः,
वासनानां प्रभावेण भ्रामिता बहुलान् युगान्,
बह्वीर्योनोरनुपाप्य, मानुष्यं लभते ततः,
तामसान् राजसान् भावान् सात्त्विकांश्च, पुनः पुनः ।
परोपकारात् पुण्यानि, पापान्यप्यपकारतः,
दुःखानि चाप्यसंख्यानि, तथाऽसंख्यसुखानि च,
द्वंद्वान्यान्यान्यनन्तानि नानारूपाणि सर्वशः,
जीवोऽनुभूय मानुष्ये, सत्त्वोद्रेके सुकर्मभिः,)
अनेकजन्मसंसिद्धः, ततो यानि परां गतिम्;
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् 'मां' प्रपद्यते; (गी०)
(आत्मनः परमात्मत्वं संस्मरन् वेत्ति तत्त्वतः,
बुद्ध्याऽत्मानं तु सात्त्विक्या सम्यग्गृह्णाति सूक्ष्मया;
दुःखातीतां सुखातीतां शांतिं चापि समश्नुते ।)
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्याकार्यं, भयाभये,
बंधं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धिः सा सात्त्विकी स्मृता । (गी०)
(बुद्ध्या समग्रं सात्त्विक्या वेदशास्त्रं सुबुध्यते ।)
चातुर्वर्ण्यं, त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्,
भूतं, भेद्यं, भविष्यं च, सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ।
धर्मं बुभुत्समानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः; (मनु)
(श्रुतिं बुभुत्समानानामात्मज्ञानं परायणम् ।
पुरुषार्थाश्च चत्वारः, चतस्रश्चापि वृत्तयः,
ऋणानि चैव चत्वारि, चतस्रश्चैषणास्तथा,
हृदयाप्यायनीयानि स्वधर्मोत्साहनानि च
विशिष्टेष्टानि चत्वारि तोषणानि मनीषिणाम्—
सम्यग् अध्यात्मविद्यायाः एतत् सर्वं प्रसिध्यति)

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः;
 कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः । (गी०)
 (समाजकायव्यूहस्य चत्वार्यंगानि चैव हि;
 शिक्षाव्यूहस्, तथा रक्षाव्यूहः, पोषकः एव च,
 सेवाव्यूहश्चतुर्थश्च ऽप्यंगिनो ऽङ्गानि संति हि ।
 यथा शरीरे ज्ञानांगं शिरो, ज्ञानेन्द्रियैर्भृतं,
 वाहू क्रियांगं च तथा, सर्वशौर्यक्रियाश्रमं,
 इच्छांगमुदरं चैव संग्राहि-आहारि-पोषकं,
 पादौ च सर्वसेवांगं सर्वसंधारकं तथा ।
 आयुषश्चापि चत्वारो भागाः, आश्रम-संज्ञिनाः;
 प्रत्येके आयुषः पादे जीवेनाश्रम्यते यतः,
 तत्तद्वयोऽनुरूपा हि, विशेषे धर्मकर्मणि ।)
 आश्रमादाश्रमं गत्वा, यज्ञैरिष्ट्वा च शक्तितः,
 ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य, मनो मोक्षे निवेशयेत्, (मनु०)
 (चतुर्थे आश्रमे तुर्यक्रणापनयनाय हि ।)
 अनपाकृत्य तान्येव मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः ।
 सुखाभ्युदयिकं चैव, नैःश्रेयसिकमेव च,
 प्रवृत्तं च, निवृत्तं च, कर्म द्विविधमुच्यते । (मनु०)
 (धर्मश्चार्थश्च कामश्च, त्रयं ह्यभ्युदयः स्मृतः ;
 मोक्षो यस्तु चतुर्थोऽर्थः, तं हि निःश्रेयसं विदुः)
 इज्या-ऽऽचार-दम-ऽहिंसा-दान-स्वाध्याय-कर्मणाम्,
 अयं तु परमो धर्मो यद् योगेन ऽत्मदर्शनम् । (याज्ञ०स्मृ०)
 सर्वभूतेषु चऽऽत्मानं, सर्वभूतानि चऽऽत्मनि,
 समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ;
 सर्वमात्मनि संपश्येत्, स च ऽसच्च, समाहितः;
 सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्न ऽधर्मे कुरुते मनः ।
 आत्मैव देवताः सर्वाः, सर्वमात्मन्यवस्थितम् ;
 आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ।
 एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना,
 स सर्वसमतामेत्य ब्रह्म ऽभ्येति परं पदम् । (मनु०)

ब्रह्माभ्येति परं पदम् । ॐ

चितिशक्ति, चेतना, चैतन्य, अपने परमात्म-भाव को मानो भूल कर, जीवात्म भाव को धारण कर लेता है। वासनाओं के अनुसार, लाखों योनियों में, लाखों प्रकार के शरीरों में, जन्म लेता है, और असंख्य द्वन्द्व, सुख-दुःख-प्रधान, भोगता है। अवारोह-पथ, प्रवृत्ति-मार्ग, अधो-गति, 'क्रौंसि-नजूल' पर उतरता हुआ, देव-भाव से, क्रमशः, कीट-पतंग आदि भाव से भी जड़, निःसंज्ञ-प्राय, मणि ('मिनरल'),^१ पत्थर, आदि की अवस्था में आ पहुँचता है; और इस से उठ कर, आरोह-पथ, निवृत्ति-मार्ग, ऊर्ध्व-गति, 'क्रौंसि-उरूज', पर चढ़ता हुआ, मनुष्य-भाव में आता है। इस योनि में भी बहुत जन्म लेता है; असंख्य तामस, राजस, सात्त्विक, इच्छा-क्रिया-ज्ञान, के भावों का, और उन के साथ बँधे हुए असंख्य दुःख और सुख के भावों का अनुभव करता है। बहुत जन्मों के, 'तनासुख' के, बाद, सत्त्व के उद्रेक से, 'इल्म' की बेशी होने पर, सत्कर्म कर के, अपने परमात्म-भाव को, 'रूहि-अज्जम' की हालत को, फिर पहचानता है; तब उस को, सुख-दुःख दोनों से परे, सच्ची शान्ति, मोक्ष, निर्वाण, परमामंद, 'नजात', 'फना-फिल्ला', 'सुरुरि-जावेदानी', ब्रह्मानन्द, 'लज्जतुल्-इलाहिया', ब्रह्मलीनता, 'इस्तिग्राक', मिलता है। इस ऊर्ध्वगामी 'देवयान' पर भी, क्रमशः, जीव को उन सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है जिन से वह उतरा है। अति सूक्ष्म, अति सात्त्विक, बुद्धि वह है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भयस्थान और अभय-स्थान, बंध और मोक्ष, के सच्चे रूप को ठीक ठीक पहिचानती है। ऐसी सात्त्विक बुद्धि, वेद-शास्त्र के मर्म को जानती है। वह मर्म, मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक, प्रातिस्विक और सार्वस्विक, 'इन्-किरादी' और 'इज्माई', 'इण्डिविड्युअल' और 'सोशल' कल्याण के लिये वर्ण-आश्रम धर्म में रख दिया है।^२ परमात्मा के स्वभाव से, प्रकृति से, उत्पन्न तीन गुण, सत्त्व, रजस्, तमस्, जो ज्ञान, क्रिया, और इच्छा के मूलतत्त्व वा बीज हैं; इन की प्रधानता से, तीन प्रकार के, तीन स्वभाय के, तीन प्रकृति के, मनुष्य, (१) ज्ञान-प्रधान, ज्ञानी, शिक्षक, 'आलिम', (२) क्रिया-प्रधान, रक्षक, शूर, 'आमिल', (३) इच्छा-प्रधान, पोषक, संग्रही, 'ताजिर', (४) इन तीन के साथ चौथी प्रकृति, 'बालक-बुद्धि', जिस में किसी एक गुण की प्रधानता, विशेष विकास, न देख पड़े, 'गुण-साम्य' हो, वह सेवक, श्रमी, 'मजदूर'। ये हुए चार वर्ण, मुख्य 'पेशे'। किसी देश के किसी भी सभ्य समाज में ये चार वर्ण अवश्य पाये जाते हैं; पर उतने विवेक से, और उस काम-दाम-आराम के, धर्म-कर्म-जीविका के,

१ Mineral.

२ Individual ; social.

विभाजन के साथ नहीं, जैसा भारतवर्ष में, प्राचीन स्मृतियों में इन के लिये आदेश किया है।

जैसे समाज के जीवन में चार मुख्य पेशे वैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चार 'आश्रम'; (१) ब्रह्मचारी, विद्या सीखने का, 'तालिबि-इल्म', 'शागिर्द', का; (२) गृहस्थ, 'ग्रानादार', का; (३) वानप्रस्थ, 'गोशा-नशीन', का; (४) बन्यासी, 'फ़कीर', 'दुवेंश' का।

मनुष्य के चार पुरुषार्थ, 'मक्रासिदि जिन्दगी' हैं। धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष वा ब्रह्मानन्द, यानी 'दयानत, दानत, लज्जति-दुनिया, और नजात या लज्जनुल्-इलाहिया'। पहिले तीन आश्रमों में अधिकतर धर्म-अर्थ-काम, और चौथे में विशेष-रूप से मोक्ष, को साधना चाहिये।

तीन (अथवा चार) ऋणों को, 'कर्मों' को, ले कर मनुष्य पैदा होता है। (१) देवों का ऋण, जिन्होंने पंच महाभूतों को सृष्टि, परमात्मा के नियमों के अनुसार फैलाई है; जिन महाभूतों से हमारी पंचेन्द्रियों के सब विषय बने हैं; (२) पितरों का ऋण, जिन की सन्तति, वंश परम्परा से, हम हैं; जिन से हम को यह शरीर मिला है, जो देह हमारे सब अनुभवों का साधन है; (३) ऋषियों का ऋण, जिन्होंने वह महा-संचय, विविध प्रकार के ज्ञानों का, शास्त्रों में भर कर रखा दिया है, जिस की ही सहायता से हमारा वैयक्तिक और सामाजिक जीवन सभ्य शिष्ट बनता है, और जिस के बिना हय पशु-प्राय होते; (४) चौथा ऋण, परमात्मा का, कहा जा सकता है, जो हमारा चेतन ही है, प्राण ही है, जिस के बिना हम निर्जीव होने। इन चार ऋणों के निर्माचन निर्यातन का उपाय भी चार आश्रमों के धर्म-कर्मों का उचित निर्वाह ही है। (१) विद्या-संग्रहण, और सन्तति का विद्यादान, से ऋषि ऋण चुकता है; क्योंकि उस से, प्राचीनों का, ज्ञान के संग्रह में जो भारी परिश्रम हुआ है, वह सफल होता है; (२) सन्तति के उत्पादन, पालन, पोषण से पितरों का ऋण चुकता है; क्योंकि जैसा परिश्रम हमारे माता पिता ने हमारे उत्पादन, पालन, पोषण, के लिये किया, वैसा हम अपने आगे की सन्तति के लिये करते हैं; (३) विविध प्रकार के 'यज्ञ' करने से, 'इष्ट' और 'आपूर्ति' से, देवों का ऋण चुकता है। यथा, वायु देवता से हमारा श्वास-प्रश्वास चलता है, हवा को हम गन्दा करते हैं; उत्तम सुगन्धी पदार्थों के भूप-दीप से, होम हवन से, हवा पुनः स्वच्छ करना चाहिये; जङ्गल काट काट कर हम लकड़ी को जलाने में, मकान और सामान बनाने के काम में, खर्च कर डालते हैं; नये लखरौंवे, बाग, उद्यान, लगा कर, फिर नये पेड़ तैयार कर देना चाहिये; वरुण देव के जल का प्रति दिन हम लोग व्यय करते रहते हैं; नये तालाब, कुएँ, नहर आदि बना कर,

उस की पूर्ति करना चाहिये। ये सब यज्ञ हैं। परोपकारार्थ जो भी काम किया जाय वह सब यज्ञ है। गीता में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। उस में भी, होम-हवन आदि 'इष्ट' कहलाते हैं, और वापी, कूप, तटाक, वृक्षारोपण आदि 'आपूर्त'। इन सब यज्ञों से देव-ऋण चुकता है। (४) परमात्मा का ऋण, मुक्ति प्राप्त करने से, सब में एक ही आत्मा को व्याप्त देखने से, चुकता है। क्रम से, चार आश्रमों में चार ऋण अदा होते हैं। यह याद रखना चाहिये कि सब बात, 'प्राधान्येन', 'वैशेष्यात्' 'भूयसा', कही जाती हैं; 'एकान्तेन', 'अस्यन्तेन', नहीं। संसार में सब वस्तु, सब भाव, सब आश्रम, वर्ण, आदि, सदा मिश्रित हैं; जो जिस समय प्रधान रूप से व्यक्त होता है, उस का नाम लिया जाता है।

ऐसे ही तीन वा चार एषणा, 'हिसं', 'तमा', 'आजू', 'तमन्ना', तृष्णा, आकांक्षा, वासना, मनुष्य को, स्वाभाविक, 'फित्रती', पैदाइशी, होती हैं। (१) जेकैषणा, 'अहं स्याम्', 'मै इस लोक और परलोक में सदा बना रहूँ, मेरा नाश कभी न हो'; इस का शारीर रूप आहार की, गिजा की, इच्छा है; और मानस रूप, सम्मान, यश, कीर्ति, नेकनामी, इज्जत, की स्वाहिश; (२) वित्तैषणा, 'अहं बहु स्याम्', 'मै और अधिक, ज़्यादा, होऊँ'; इस का शारीर रूप, सब अंगों की, हाथ पैर की, पुष्टि, बलवृद्धि, सौन्दर्यवृद्धि; और मानस-रूप, विविध प्रकार के धन दौलत का बढ़ाना; (३) दार-सुतैषणा, 'अहं बहुधा स्याम्', 'प्रजयेय', 'मै अनेका हूँ जो बहुत हो जाऊँ; मेरे पत्नी हो, और बालबच्चे हों, 'अहलो-अयाल हो', 'जौजः व औलाद हों', 'बहुतों पर मेरा अधिकार हो, ऐश्वर्य हो, हुकूमत हो: (४) चौथी एषणा मोक्षैषणा है, 'नजात' की स्वाहिश; इस सब जंगल में, 'फितना, फिसाना, जाल' में, बहुत भटक लिये, अब इस से छुटकारा हो। यह चार एषणा भी, चार पुस्तकों की रूपांतर ही हैं, और चारों आश्रमों के धर्म-कर्म से उचित रीति से पूरी होती हैं।

चारों वर्णों के लिये चार मुख्य धर्म अर्थात् कर्तव्य, 'ऋजं', और चार वृत्तियाँ, जीविका, 'रिज्क'; और चार तोपण, राधन, प्रोत्साहन, (अंग्रेजी में 'स्टिम्युलस', 'इन्सेन्टिव्',), 'मुहर्रिक', 'रागिब', हैं। (१) विद्योपजीवी, शास्त्री, शास्त्रोप-जीवी, विद्वान्, शिक्षक, उपदेष्टा, ज्ञानदाता, 'आलिम', 'मुअलिम', 'हकीम', के लिये, ज्ञान-संग्रह और ज्ञान-प्रचार करना; अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, यानी, विद्या सिखा कर, किसी विषय का ज्ञान दे कर, उस के लिये आदर सहित दक्षिणा ('आन-

१ Stimulus; incentive; honorarium; public work; fee; present; tax.

रेरियम') लेना; किसी 'यज्ञ' में, 'पब्लिक वर्क' में, सार्वजनिक हित के कार्य में, ज्ञान की, 'इल्मी', सहायता दे कर, दक्षिणा, 'फ्री', लेना; वा आदर के साथ जो कोई दान दे, 'भेंट', उपहार, पुरस्कार, दे, 'नजर', 'प्रेजेन्ट' दे, वह लेना । (२) क्रियोपजीवी, 'शस्त्री', 'शस्त्रीपजीवी, रक्षक, आदेष्टा, शासक, प्राणदाता, 'आमिल', 'हाकिम', 'आमिर', 'अमीर' के लिये (अरबी में 'अम्र' का अर्थ आज्ञा है), अन्न-शस्त्र के, हथियार के, द्वारा, दूसरों की रक्षा, हिकाजत, करना; और उस के लिये, जो कर, खिराज, 'टैक्स', लगान, मालगुजारी, राष्ट्र की ओर से व्रतन, मिले, उसे लेना । (३) वार्त्तापजीवी, कृषक, गोपालक, वषिक, रोजगारी, 'ताजिर', पोषक, व्यापारी, के लिये, अन्न वस्त्र आदि जीवनोपयोगी, विविध प्रकार के, आवश्यकीय, निकासीय, और विलासीय पदार्थ, 'नेसेसरीज', 'कम्फर्ट्स्', और 'लक्षरीज',^१ जुखुरियात्, आसायिषान्, और इश्रतीयात्, उत्पन्न करना, और उचित शम ले कर देना, और जो इस रोजगार में लाभ, 'मुनाफा', हो, वह लेना । (४) श्रमोपजीवी, सेवोपजीवी, 'मजदूर', (शुद्ध शब्द फ़ारसी का 'मुज़द-वर्' है)। मृतक, कर्मकर, किंकर के लिये, अन्य तीन वर्गों की सेवा-सहायता कर के, जो मजदूरी, ब्रात, भृति, मिलें, वह लेना ।

यह, चार पेशों के चार प्रकार के धर्म-कर्म, अधिकार-कर्त्तव्य, हक-फ़र्ज, और उन की चार प्रकार की जीविका, हुई । तोषण उन के, ऊपर कहे जा चुके, अर्थात् ज्ञानी के लिये विशेष सम्मान, 'इज़्जत' 'आनर'; शासक के लिये विशेष अधिकार, आज्ञा-शक्ति, ऐश्वर्य, ईश्वर भाव, 'हुकूमत', 'आकिशल् पावर', 'ऑथोरिटी'; पोषक के लिये विशेष 'दौलत', धन-सम्पत्ति, 'वेल्थ'; सेवक सहायक के लिये विशेष कौशल-विबोध, 'खेल-तमाशा' 'तफ़ीह', 'ऐम्यूज़मेंट' 'प्ले' ।

जैसे एक मनुष्य के शरीर के व्यूह ('आर्गेनिज़्म') में चार अंग देख पड़ते हैं, सिर, बाँह, धड़, और पैर; वैसे ही मनुष्य समाज के व्यूह में भी चार अंग, चार अवान्तर, परस्पर सम्बद्ध, संग्रथित, संहत, संचातवान्, व्यूह होते हैं । (१) शिक्षा-व्यूह, 'लर्नेड् प्रोफ़ेशन्स'; (२) रक्षा-व्यूह, 'एक्सिक्युटिव् प्रोफ़ेशन्स'; (३) वार्त्ता-व्यूह, 'कामर्शल प्रोफ़ेशन्स'; (४) सेवा-व्यूह 'इंडस्ट्रियल् प्रोफ़ेशन्स'^२ । शिक्षक वर्ग वा वर्ग और बिद्यार्थी आश्रमी वा वर्ग मिल कर शिक्षा-व्यूह बनता है । शासक वर्ग और वनस्थ आश्रमी मिल कर रक्षा-व्यूह; वानप्रस्थ सज्जन, शासक वर्ग का, परामर्श और उपदेश देते रहते हैं; और उन-के काम को देख रेख करते रहते हैं;

^१Necessaries; comforts; luxuries.

^२Honor; official power, authority; wealth amusement; play.

जैसा इतिहास पुराणों में ऋषियों और राजों के प्रश्नोत्तर की कथाओं से दिखाया है। वणिग् वर्ण और गृहस्थ आश्रमी मिल कर वार्ताव्यूह बनता है। भ्रमी वर्ण और सन्यास-आश्रमी मिल कर सेवाव्यूह सम्पन्न होता है; भ्रमी वर्ण समाज की शारीर सेवा-सहायता करता है; और सन्यासी, आध्यात्मिक।^१

इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का सर्वांग-सम्पूर्ण, उत्तमोत्तम प्रबन्ध, परमात्मा के दर्शन पर निष्ठित प्रतिष्ठित वेद-वेदान्त से निर्दिष्ट, धर्म के अनुसार, बाँधा गया है।

एक पर-ब्रह्म, परम-आत्मा, संख्यातीत, के अंतर्गत दो, अर्थात् पुरुष-प्रकृति; जीव की दो गति, अधोयान-उर्ध्वयान; समस्त संसार की द्वंद्व मयता, (सुख-दुःख, सत्य-मिथ्या, राग-द्वेष, क्रिया-प्रतिक्रिया, तमः-प्रकाश, शीत-उष्ण, अग्नी शोम, धन तरल, मृदु-क्रूर, हँसना-रोना आदि); चार आश्रम ; चार ऋण; चार जीविका; चार तोषण; चार गुणावस्था, (सात्त्विक, राजस, तामस, गुणातीत); चार शारीर अवयव, सिर, धड़, हाथ, पैर ; चार अंतःकरण के अंग, बुद्धि, अहंकार, मनस्, चित्त; चार इन के धर्म, ज्ञान, इच्छा, (संकल्प विकल्पात्मक) क्रिया, स्मृति; चार अवस्था, जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय; चार प्राकृतिक नियम, अर्थात्, (१) जीव का विविध योनियों में विविध शरीरों का ओढ़ना-छोड़ना, (२) क्रिया-प्रतिक्रिया न्याय से परोपकार-रूप पुण्य का फल सुख, और परऽपकार-रूप पाप का फल दुःख, भोगना, (३) वासना के अनुसार कर्म, और कर्म के अनुसार जन्म और मरण, पुनःपुनः; (४) रागात्मक वासना से संसरण में प्रवृत्ति, वैराग्य से संसार से निवृत्ति। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष — यह समग्र दर्शन और धर्म का संग्रह है।

यदि इस के अनुसार मानव प्रजा आचरण करें तो सब का उचित रीति से शिक्षण, रक्षण, पोषण, धारण हो, और सब का कल्याण हो। यह चार वर्ण वा वर्ग वा पेशे, और चार आश्रम, स्वाभाविक हैं; मनुष्य की प्रकृति के ही बनाये हुए हैं; इन का किसी विशेष धर्म, मजहब, 'रिलिजन' से, वा किसी विशेष प्रदेश से, अविच्छेद्य सम्बन्ध ज़रा भी नहीं है। 'काम्युनिज़्म सोशलिज़्म, वालशेविज़्म', 'साम्यवाद' की परिपाटी से, वा 'कैथिज़्म', 'कैपिटलिज़्म', 'पूँजीवाद' की पद्धति से, वा 'लेबेरीज़्म', 'प्रालिटेरियानिज़्म' 'श्रमिकवाद' की रीति से, 'डेमोकैटिज़्म', 'प्रजा-तंत्रवाद', 'सर्वमानववाद' की शैली से, किसी से भी इन सिद्धांतों का आत्यंतिक विरोध नहीं है; यदि विरोध है, तो प्रत्येक के केवल उस अंश से है जो 'आत्यंतिक'

१ Organism; learned professions; executive professions; commercial professions; industrial professions.

है; प्रत्युक्त, सभी इन का उपयोग कर सकते हैं; सभी को शिक्षक; रक्षक, पोषक, सहायक चाहियें ही; जहाँ कहीं मनुष्य हैं और उन का समाज है, वहीं ये चार वर्ग उपस्थित हैं; भारत के प्राचीनो ने इतना ही विशेष किया है, कि मर्यादा बुद्धिपूर्वक बंध दी है, काम-दाम-आराम का बँटवारा उचित रीति से कर दिया है। जब तक मनुष्य के शरीर के अंग, और चित्त के धर्म, और दोनो की बनावट, वैसी रहेगी जैसी इस समय है, तब तक वर्ण और आश्रम के ये सिद्धांत अटल रहेंगे; और इन के प्रयोग से, तथा इन के ही प्रयोग से, सब अतिवाद, 'एक्सट्रीमिज़्म', से उत्पन्न विरोधों का परिहार, और सब वादों का समन्वय, हो सकेगा।^१

एक आश्रम से दूसरे, तीसरे, चौथे में, क्रमशः, सब मनुष्य जायें; तीन ऋण चुका कर, अर्थात् बियाध्ययन-उद्घाटन कर के, सन्तान उत्पन्न कर के, (उतनी ही जितने का वह परिपालन सुख से कर सकें; पशुओं के ऐसी इतनी अधिक नहीं कि उन का पालन न हो सके, और अधिकांश उन में से मर ही जावें, या रोटी के लिये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जावें), तथा विविध लोकोपकारात्मक यज्ञ कर के तब मोक्ष का साधन करें; तो सब को चारो पुरुषार्थ सिद्ध हों।

जो अपने में सब को, और सब में अपने को, देखता है, वही सच्चा स्वराज्य, स्वा-राज्य, उत्तम 'स्व' का राज्य, स्वर्गवत् राज्य, स्थापन कर सकता है। अपने भीतर आँख फेर कर देखने से, संसार के सब भाव, मद्दाव भी असद्दाव भी, पुण्यात्मक भी पापात्मक भी, सभी देख पक जाते हैं। इन को जो इस प्रकार से, अंतर्दृष्टि में, देख लेता है, और उन के भेद को निश्चय से समझ लेता है, इंद्रमय संसार में सत् और असत् के विवेक को भी और संसार को भी पहिचान लेता है, वह फिर अहर्म में मन को नहीं लगने देता। अधिकाधिक धर्म की ओर वैराग्य की ओर, आत्मलक्ष्म ब्रह्मलक्ष्म की ओर, मोक्ष की ओर, चलता है। आत्मा ही सब देवों का देव है, सब इसी में विद्यमान है, यही सब जगत् चलाने वाला है। इस तथ्य को जिसने जाना, वही समता, के, साम्य के, सचे अर्थ को पहिचानता है, वही शरीर छोड़ने पर विदेहमोक्ष, ब्रह्म-पद को पाता है। यज्ञ, अध्ययन, दान, सदाचार, दम, अहिंसा आदि सब उत्तम गुणो, कर्मों, भावों, पुण्यों, व्यवस्थाओं का परम मूल आत्म-दर्शन ही है।

'सब को' आभ्युदयिक सुख, दुनियावरी खुशी, धर्म से अर्जित राक्षेन अर्थ में

१ Religion; communism, socialism, bolshevism; fascism; capitalism; laborism; proletarianism; democracy; extremism.

परिष्कृत परिमार्जित काम का सुख भी, और उन के बाद नैःश्रेयसिक सुख भी, जिस से बड़ कर कोई श्रेयस नहीं है, 'मैं ही मैं सब मैं हूँ, सब सुख मैं हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं'—इन दोनों सुखों को पाने का निश्चित उपाय जो दिखावै वही 'दर्शन' है; यही 'दर्शन का प्रयोजन' है ।

यद् आभ्युदयिकं चैव, नैःश्रेयसिकम् एव च,
सुखं साधयितुं मार्गं दर्शयेत् तद्धि दर्शनम् ।

॥ ॐ ॥

अध्याय ७

दर्शन का इतिहास

यद्यपि भारतीय जाति और सभ्यता अति प्राचीन है तथापि चीन जाति और सभ्यता इस से भी प्राचीन है। तथापि भारतीय सभ्यता ने कई अंशों में चीनी सभ्यता से आगे पैर बढ़ाया। भारतीय ऋषियों ने ४९ अक्षरों की वर्णमाला में समग्र वाक्य को समेट लिया; चीनियों ने प्रायः ५००० अक्षर की वर्णमाला क्या शब्दमाला बनाई, जो आज काल के 'शॉर्ट हॉण्ड' की सी है, पर जिसी को सीखने में कई वर्ष लग जाते हैं, और तिस पर भी उस के लिखने पढ़ने में धोखे का बहुत सम्भव बना ही रहता है; अणुमात्र भी किर्मा रेखा की मोटाई में वा दशा में भेद हुआ कि शब्द दूसरे का दूसरा हो गया। सघाट् काङ्गूसी के समय में (१६६२-१७२३ ई०) एक वृद्ध शब्दकोष बना जिस में ४४००० शब्द-चिह्न हैं। जहाँ यह दोष है वहाँ एक गुण भी है, कि उसी लिपि को चीनी अपनी भाषा में पढ़ लेता है, तो जापानी भी अपनी भाषा में पढ़ लेता है। एक चाल के 'पिन्टोग्राफ', जैसे ३ को संस्कृतज्ञ 'त्रि', हिन्दी भाषा 'तीन', फ़ारसी-दाँ 'सह', अंग्रेज़ 'थ्री', फ़ारसीसी

१ पाठक सज्जनो को इस अध्याय की और पूर्वगत अध्यायों की भाषा में कुछ भेद प्रतीत होगा। कारण यह है। जब तक भारत देश अखंड था तब तक मेरा मत निश्चित था कि इस की राष्ट्र-भाषा-हिन्दी उर्दू मिश्रित 'हिन्दुस्तानी' होनी चाहिये। परन्तु अब, जब एक अदूरदर्शी मनुष्य के अहंकारोन्माद ने हमारी जन्मदात्री भारत माता के, जीते जी, तड़पते हुए दो खण्ड कर ही डाले, तब मेरा वैसा ही निश्चित मत है कि हमारी राष्ट्र-भाषा संस्कृताश्रित हिन्दी ही, और लिपि नागरी ही होनी चाहिये, और ये ही दोनों प्रांतीय मानू-भाषा के साथ, सब लड़की लड़कों को, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अबइस ही स्कूल कालिजों में सिखाना चाहिये, और न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों में प्रयोग कराना चाहिये। मुसलमान लड़के-लड़की भले ही अपने घरों के भीतर उर्दू भाषा और लिपि अपने माँ-बाप के इय से सीखें। पाकिस्तान में सब को, हिन्दू मुसलमान को, उर्दू भाषा और लिपि का प्रयोग करने के लिए विवश किया जा रहा है—इस का उत्तर यही

‘त्रोथा’ आदि । चीन और भारत में कब लिखित वर्णमाला का आरम्भ हुआ, यह कहना असम्भव है ; १०००० वर्ष से तो कम नहीं । पाश्चात्यों की यह रीति हो गई है कि पौरस्त्य अंकों को घटाते ही जाना । उन का मत यह है कि पाणिनि के समय में भारतीय लिखना नहीं जानते थे ; यद्यपि पाणिनि के धातु-पाठ में लिख्, लिप्, आदि धातु उपस्थित हैं । ईसाई पादरियों ने यह निश्चय कर लिया था कि समग्र सृष्टि को, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, नक्षत्र, तारा आदि को, परमेश्वर ने ईसा के जन्म से ४००४ वर्ष पूर्व बनाया । अब पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने निश्चय किया है कि समग्र सृष्टि तो अनादि है, पर सौर सम्प्रदाय की उत्पत्ति भी २०० कोटि वर्ष सम्मित काल से कम पहिले नहीं हुई ; ‘सम्मित’ इस लिये की सूर्य की और पृथ्वी की वर्तमानावस्था, जिसी में दिन, मास, वर्ष आदि का मान होता है, उस के बनते-बनते भी कोटियों वर्ष लग गये । यह २०० कोटि की संख्या, वेदाङ्ग ज्योतिष की संख्या के तुल्यप्राय है, स्यात् पाँच-छः लाख वर्ष का अन्तर हो । अस्तु ।

बृद्धतर होते हुए भी चीन ने भारत को गुरु माना जब उस ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । यों तो चीनी साहित्य का आरम्भ ईसा पूर्व ३० वीं शती में, अर्थात् वेद-व्यास और महाभारत के समय में, माना जाता है, जब सम्राट् फूही ने कई रेखा-त्रिक

है । इस के अतिरिक्त यह भी सर्व-सम्मत निर्बिबाद नितान्त सत्य है कि नागरी वर्णमाला ही शुद्ध वैज्ञानिक है, जैसी कोई अन्य अक्षराबली पृथ्वीतल पर नहीं है; इस में लिखे किसी भी भाषा के शब्दों को यदि उस भाषा का अनुज्ञान उच्च-स्वर से पढ़े तो उस का जानकार झट् समझ जावेगा ; यह गुण किसी अन्य लिपि को प्राप्त नहीं है । साथ ही इस के, यह भी कहना है कि हम को अंग्रेज़ी शब्दों और लिपि से द्वेष करने का कोई कारण नहीं है ; उन को, प्रयोजनानुसार, अपनाया ही चाहिये । एवं, अरबी-फ़ारसी के भी उन शब्दों को जो हिन्दी में सर्वथा मिल गये हैं, यहाँ तक कि गावों में और नगरों को छियाँ भी, जो विशुद्धतम हिन्दी घोलती हैं, उन का प्रयोग करती हैं, और जिन के ठीक तुल्यार्थ पर्याय हिन्दी में वा संस्कृत में सङ्ग में मिलते भी नहीं, यथा ‘सिफ़रिश’ (सुपरिस), ‘शिकायत’ (सिकाइन), चुगली (चुगली) आदि । तथा ‘रोमन’ लिपि में नागरी से भी अधिक गुण यह है कि आज काल पृथ्वी के दो सौ कोटि मनुष्यों में से प्रायः एक सौ कोटि उसे पढ़-लिख सकते हैं ; इस लिये, अन्य देशों के विद्वानों से सम्पर्क बनाये रहने के लिये और उन के उपज्ञो से भारत जनता को अनुवाद द्वारा लाभ पहुँचाने के लिये, अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि का भी ज्ञान हमारे विद्वानों के लिये परम आवश्यक है ।

लिखे, यथा, ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ आदि ; और इस पर विस्तृत व्याख्या भी लिखी ; पर व्याख्या छुप्त हो गई है, मूल त्रिक बच गये । फूही के पीछे, ईसा पूर्व छठी शती तक किसी अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ का पता नहीं चलता । छठी शती में दो बड़े नामी दार्शनिक उत्पन्न हुए—लाओ और कङ्फु ; इन नामों के पीछे त्से, तजू, त्जे शब्द बहुधा आदरार्थ लगा देते हैं ; उस का अर्थ है 'ज्ञानी', 'दार्शनिक' । कङ्फुत्से का रूप पाश्चात्यों ने कॉन्फ्यूशियस् कर दिया है । इन्हीं के समकालीन, भारत में महावीर जिन और बुद्ध देव, तथा ग्रीस देश में पैथागोरास, सॉक्रेटीज और प्लेटो हुए—दस-दस बीस-बीस बरस की बढ़ाई छुटाई से । लाओ का मत प्रायः शुद्ध वेदान्त ही है, जैसा जिन और बुद्ध का भी, और पैथागोरास, सॉक्रेटीज, और प्लेटो का भी । 'पैथागोरास' शब्द को तो, 'कुछ विद्वान् 'बुद्ध गुरु' का रूपान्तर ही मानते हैं, अर्थात् 'बुद्ध थे गुरु जिन के', और यह तो प्रायः निश्चित ही है कि पैथागोरास और प्लेटो भारत में आये और यहाँ के विद्वानों, सन्यासियों, से शिक्षा पाये ; तथा प्लेटो का शिष्य ऑरिस्टोटल (जिस को ईरानी अरबी विद्वान् 'अरस्तू' या 'अरस्तातालीस' कहते हैं), जो सिकन्दर का शिक्षक गुरु था, उस के साथ भारत आया, और यहाँ से न्याय-शास्त्र और राजनीति के सिद्धान्तों को कुछ दूटा-फूटा सीख कर गया ; और उन की नींव पर उस ने कई ग्रन्थ लिखे । सम्राट् चन्द्रगुप्त और उस के गुरु चाणक्य कौटिल्य, अद्वितीय राजनीतिज्ञ, इन के समकालीन थे । एक तो सिकन्दर, महाराज पुरु से पश्चिमी पंजाब की सीमा पर युद्ध में हारा और घायल हुआ था ; दूसरे उस ने सुना कि चन्द्रगुप्त के पास, छः लाख पदाति, बीसियों सहस्र स्त्री और अधारोही, तथा छः सहस्र गजारोही, अस्त्र-शस्त्र कवचादि से सुसज्ज हैं ; इस से उस का उत्साह दूटा और वह लौट गया ।

कङ्फु ने ब्रह्म विद्या आत्म-विद्या के अति गूढ़ प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया, अपितु सद् राजनीति सदाचारनीति के ही प्रचार में मन लगाया और इस से बहुत सुयश कमाया । चीनियों में आज तक भी ब्रह्म विद्या के गूढ़ प्रश्नों पर ध्यान नहीं है, आचार नीति पर ही अधिक है ।

लाओ का एक ही ग्रन्थ, बहुत छोटा, ताओ-ने-किङ्ग, मिलता है; उस के विचार भारतीय उपनिषदों के ऐसे हैं । कङ्फु के कई ग्रन्थ मिलते हैं—शुकिङ्ग, शीकिङ्ग, 'मामयिक सूत्र' ('ऑनोलेक्टरा') आदि । कङ्फु को कहीं रचित रेखात्रिकों में इतनी प्रभूत आस्था थी कि शरीर छोड़ने से दो वर्ष पहिले अर्थात् ७० वें वर्ष में उन्होंने ने एक शिष्य से कहा कि मैं इन पर ५० वर्ष से मनन कर रहा हूँ, और यदि पुनः युवा हो जाऊँ तो ५० वर्ष और मनन करूँ । परन्तु उन्होंने ने अपने मनन का फल लिखा नहीं । 'सर्वमेतत् त्रिकं त्रिकं' से ही स्पष्ट है कि इन रेखाओं की व्याख्या अनन्त

हैं। इस का स्वल्प प्रमाण मेरे लिखे अंग्रेजी ग्रन्थ 'दि सार्यंस ऑफ पीस' तथा महर्षि-गार्ग्यायण-कृत 'प्रणव-वाद' के अंग्रेजी अनुवाद 'दि सार्यंस ऑफ दि सेक्रेड वर्ड' में दिखाया है, कि प्रायः पाँच सौ त्रिकां की चर्चा उन में की है। लाओ सम्प्रदाय में सब से अधिक प्रसिद्ध क्वाङ् (वाच्वाङ्) हुए, ये कङ्-फु सम्प्रदाय के मेङ् के सम-कालीन थे। लाओ से मिलने कङ्-फु गये; लाओ ने कहा मेरा सिद्धान्त है कि जो तुम्हें दुःख दे उस को तुम सुख दौ; कङ् ने पूछा, 'तब जो मुझे सुख दे उसे क्या दूँ? मेरा तो मत है कि जो दुःख दे उस को दण्ड दौ, जो सुख दे उस को सुख'। २०० वर्ष पीछे क्वाङ् ने इस का उत्तर देने का यत्न किया—'भले के साथ तो भलाई कहेंगा ही, पर बुरे के साथ भी भलाई कहेंगा, कि वह लजित हो कर भला हो जाय'। पर संसार ने लाओ को नहीं माना; कङ् को ही माना; और यही ठीक भी है, तथा कङ् से शतगुणाधिक ज्ञानी, शूर, कर्मण्य, नीति-निपुण ईश्वरा-वतार कृष्ण की भी यही आज्ञा है। तीसरी शती ई० में ह्युन हुए, जो अपने को कङ्-फु सम्प्रदाय का मानते थे, पर गुरु से कई विषयों में भिन्न मत रखते थे; यथा परलोक को और भले बुरे देवों और पिशाचादिकों को नहीं मानते थे। एक और दार्शनिक, बहुत प्रसिद्ध, मो-त्ती नाम के, पाँचवी शती ई० पू० में हुए। ये स्वतन्त्र विचार के थे। 'यत् लोकहितं अख्यन्नं तत् मत्पमिति नः श्रुतं', इन का मत था; अंग्रेजी में 'युटिलिटेरियेनिज़्म,' 'दि प्रेस्टेस्ट हॉपिनेस ऑफ दि प्रेस्टेस्ट नम्बर';^१ जो अधिक लोकोपकारी ही, जिस से अधिकतर मनुष्यों को अधिकतर सुख मिले, वही कर्म उचित है। ठीक ही है; सब धर्म-क्राचन की नींव यही है। चौथी शती ई० पू० में एक सज्जन वाङ् चू हुए जो स्पष्ट स्वार्थवादी थे; प्रत्येक मनुष्य को अपना सुख साधना चाहिये, दूसरों की भलाई की चिन्ता क्यों की जाय! यदि इन महाशय की माता ने भी ऐसा ही सोचा होता तो इन को अपना मत प्रसारने का अवसर ही न मिलता, उत्पन्न होने के साथ ही किसी नदी में फेंक दिये गये होते! इस के पीछे कोई विशेष नामी दार्शनिक नहीं हुए। कङ्-फु के मत का प्रचार और आदर सिद्ध हो गया। हाँ, दूसरी ओर बौद्ध धर्म और दर्शन, जो तत्त्वतः वेदान्त और बर्णाश्रम धर्म ही है, चीन देश में बढमूल हुआ। लाओ-वाद बौद्ध-दर्शन में लीन हो गया, और चानुर्वर्ण्य और चानुराश्रम्य में कुछ थोड़ा अन्तर किया गया। चार के स्थान में पाँच वर्ण माने गये; सब से ऊँचा ज्ञानी (ब्राह्मण) फिर वणिक् (वैश्य), फिर कृषक (वैश्य), फिर शिल्पी (वणिक्-शूद्र), अन्त में योद्धा (क्षत्रिय)। मनु के प्रबन्ध में क्षत्रिय द्वितीय है, और कभी कभी तो (यथा महाभारत के राज धर्म पर्व में) प्रथम भी कहा गया है। पर, अब १८९४ ई० के जापान-चीन के युद्ध के

१ Utilitarianism, the greatest happiness of the greatest number.

पीछे, जिस में चीन नितरां परास्त हुआ, तथा उस के पीछे जो जापान से तथा पाश्चा-
 यों से निरन्तर युद्ध होते रहे हैं, जिन में चीन प्रायः हारता ही रहा है, चीन में क्षत्रिय
 की आवश्यकता इतनी अधिक प्रतीत हुई है कि वह ब्राह्मण से भी ऊँचा स्थान पा रहा
 है। एक बात चीनी वर्ण-धर्म में अत्युत्तम यह सदा रही है, कि 'कर्मणा वर्णः' का
 सिद्धान्त माना गया, नीचे वर्ण से ऊँचे में जीते जी संक्रमण, तथा अन्तर्वर्ण विवाह,
 भी होता रहा। इसी से वहाँ प्रजा में 'संघता' बनी रही, और इसी से कई सहस्र वर्ष
 तक वहाँ एक अखंड साम्राज्य बना रहा। भारत में, प्रस्युत इस के, शंकराचार्य
 (७ वीं ८ वीं शती ई०) के पीछे 'जन्मना वर्णः' के दुष्ट सिद्धान्त के अपनाने से
 वह संघ-शक्ति नष्ट हो गई और देश नरक में गिर गया।

विश्व-कोष ('एन्साइक्लोपीडिया') का आरम्भ चीन ही में हुआ। यों तो
 और भी कई, पहिले बने, पर नामी 'ताय-पिङ्-यु-लान्' हुआ जो १०वीं शती ई०
 में तत्कालीन सम्राट् की आज्ञा से और पर्यवेक्षण में बना। चीन के अनेक सम्राट्
 बड़े विद्वान् भी हुए। इस के पश्चात् सब से बृहत्काय और अधिक आहत 'युङ्-लो-ता-
 तियेन' नाम का विश्व-कोष बना, विद्वान् सम्राट् युङ् लो की आज्ञा से १५वीं शती
 ई० में। युङ्-लो का उद्देश्य था कि इस में कङ्फु के विधान पर जो कुछ भी लिखा
 गया हो, तथा इतिहास, दर्शन, कला, और विज्ञान के सब उपलभ्य ग्रन्थ एकत्र कर
 दिये जायँ। फल यह हुआ कि २२,९३७ संचिकाओं (जिन्दों)का एक बृहत्-पुस्तकागार
 ही बन गया। इतना बड़ा ग्रन्थ छापना असम्भव था, इस लिये केवल तीन ही हस्त-
 लिखित प्रतियाँ बनाई गईं। स्मरण रहे कि छापने की कला भी चीन देश में ही
 प्रथम प्रथम उपजी, किन्तु आदि में पूरा पत्र का पत्र-काष्ठ के फलक पर खोद लिया
 जाता था; अलग अलग 'टाइप' नहीं थे; अब तो सीने आदि के, पाश्चात्यां की
 देखा-देखी, बनने और बतें जाने लगे हैं, तथा 'स्टीरियो-टाइपिङ्' के रूप में आदिम
 'ब्लॉक-प्रिंटिङ्' का भी पुनः प्रयोग होने लगा है। 'मिङ्'-राज-वंश के पतन पर दो
 प्रतियाँ नष्ट हो गईं, और १९०० ई० में 'बॉक्सर' उपद्रव में तीसरी भी। १८वीं
 शती ई० में 'तू-शू-ची-चेङ्' नामक विश्व-कोष, सम्राट् काङ्-ह्सी के आदेश से आरम्भ
 किया गया और उन के पीछे सम्राट् युङ्-चेङ् के काल में पूर्ण किया गया। १९३७
 ई० में फुङ् नामक सज्जन ने 'चीनी दर्शन का इतिहास' छपाया है।

अब जापानी दर्शन की ओर ध्यान देना चाहिये। इस देश का इतिहास उतना
 पुराना नहीं है जितना चीन वा भारत का। प्रायः ७५० ई० पू० में आरम्भ हुआ,
 जिसी समय पश्चिम में रोम नगर की नींव रॉम्युल्स ने डाली और रोम साम्राज्य का
 आरम्भ किया। आरम्भ तो हुआ, और इस में सन्देह नहीं कि पहिले सम्राट् जिम्मू
 तैसो ७वीं शती ई० पू० में हुए, पर ठीक ठीक इतिहास का क्रम ८वीं शती ई० से ही

मिलता है। इस शती के पूर्वार्ध में दो ग्रन्थ, खोजिकी और निहोंगी, को सम्राज्ञियों की प्रेरणा से संकलित किया गया। इन की ही वहाँ के वेद-पुराण मानना चाहिये; इन में परम्परागत आगम (ट्रॉडिशन), राजाओं के नाम और चरित, धार्मिक विश्वास, दार्शनिक विचार आदि एकत्र कर दिये हैं। बौद्ध-धर्म और दार्शनिक विचार जापान में, बुद्ध देव के सौ दो सौ वर्ष पीछे ही बौद्ध परिम्राजक भिक्षुओं के हाथों पहुँच गये थे, और तब से आज तक इन्हीं का वहाँ प्राबल्य और प्रचार रहा है। १९ वीं शती ई० में ईसाई जे.स्विट पादरी पहुँचे और उन्होंने ने सहस्रों जापानियों को ईसाई बनाया; और तब से प्रायः १९ वीं शती के मध्य तक इन दोनों मतों का वहाँ संघर्ष और परस्पर मारण उच्चाटन होता रहा। ईसाइयों पादरियों की कृतार्थता का हेतु बौद्ध लामाओं भिक्षुओं की श्रुता, दुष्टता, और प्रजापीडन ही हुआ, जैसे भारत में ब्रह्मण्यम्न्यों, क्षत्रियम्न्यों, वैश्यम्न्यों की श्रुता और 'दू-मत' नीति से इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म यहाँ फैले। जापान का आदिम धर्म 'शितो' था; कुछ सज्जनो का मत है कि यह शब्द 'सिन्धु' 'हिन्दु' का ही रूपान्तर है; और यह प्रायः सत्य ही है, क्योंकि सहस्रों वर्षों से भारत नेपाल तिब्बत बल्ख (वाहिक), केकय (तुर्किस्तान, किर्गिस्तान), चीन, जापान, कोरिया (उत्तर कुरु) आदि देशों में आना जाना रहा है; महाभारत में चीन और चीनांशुक (चीन के बने रेशमी कपड़ों), और रामायण में 'नेपाल-कम्बलों', तथा केकय देश के पहाड़ी शिकारी भयङ्कर कुत्तों की चर्चा की है। प्रायः पैंतालीस वर्ष हुए, एक जापानी सज्जन ओकाकुरा ने एक पुस्तक 'ईस्टर्न आइडियल्स' लिखी, उस में जापान में पूजे जाते बहुतेरे हिन्दू देवताओं का बहुत सरस और विचारपूर्ण वर्णन किया है। आज भी, सारनाथ में, अनागारिक धर्मपाल जी के अथक परिश्रम से, जब बुद्धदेव, जिन्होंने उसी सारनाथ में २५०० वर्ष पहिले 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' किया, और साठ भिक्षुओं को यह आदेश दे कर पृथ्वी के चारों ओर भेजा कि "चरथ, भिक्षवः!, चारिकं बहुजनमुखाय, बहुजनहिताय, कल्याणाय देवमनुष्याणां", वे, साठ करोर अनुयायियों को ले कर पुनः पथारे हैं—तब उन के नये सुन्दर मन्दिर के भीतर भित्तियों पर, तीन वर्ष महाप्रयास कर के, जापानी चित्रकारों ने जो चित्र बनाये हैं, वे सब हिन्दू देवी देवों के ही हैं; बुद्ध-देव के विशुद्ध जीवन में उन्होंने ने किम प्रकार से उन की सहायता की, अथवा उन के आरम्बल, वैराग्य, और लोकोपकार-परायणता की परीक्षा के लिये विद्वत् डाले—इन्हीं इतिवृत्तों के चित्र हैं। अस्तु।

किन्तु अब प्रायः अस्सी वर्ष में, जापान में यह सब भाव बहुत बदल गये हैं; पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण और पाश्चात्य विज्ञान का आदर और अभ्यास अधिकाधिक बढ़ता गया है, और अद्भुत प्रगति भी सामाजिक जीवन के सभी अङ्गों में हुई है;

एवं दर्शन की ओर ध्यान कम हो गया है। तौ भी वहाँ के विश्वविद्यालयों में, इस शास्त्र के पंडित हैं ही और इस की शिक्षा देते हैं, और अध्येता उसे लेते हैं। पाँचवी शती ई० के अन्त और छठवीं के आदि में सम्राट्-कुमार शोतोकु हुए; अद्वितीय महापुरुष थे; उन के भतीजे सम्राट् की अवयस्कता (माइनोंरिटी) के हेतु से ही स्थानापन्न सम्राट्, 'भोज', के रूप से राजकार्य चलाते थे; जब उन्होंने ६२१ में शरीर छोड़ा तो समग्र देश में वृद्ध ऐसा रोए मानो उन का निजी पुत्र चला गया और युवा ऐसा मानो पिता छोड़ गया। इन महापुरुष ने, शिन्तौधर्म, कल्फु आचारनीति, और बौद्ध धर्म और दर्शन का बड़ा सुन्दर समन्वय किया, और देश में उस का प्रचार किया। इस समय जापान में प्रायः बारह सम्प्रदाय बौद्ध धर्म के हैं; उन में आठ प्राचीन और चार नवीन हैं। इन में निचिरेन् नामक सज्जन का प्रचार किया हुआ 'जैन' (ध्यान) मार्ग अधिक प्रसिद्ध है। इस में अब भी सच्चे योगी होते हैं जो समाधिस्थ हो कर दूर की बातों को देख लेते हैं, जिस की साक्षी पाश्चात्यों ने भी किया है। निचिरेन् बारहवीं शती ई० में हुए।

सुषिबरा नामक ज.पानी विद्वान् ने, थोड़े वर्ष हुए, 'हिन्दू लॉजिक् ऐन् प्रिन्सिपल्स इन् चाइना ऐण्ड जापान' नाम का एक ग्रन्थ छपाया है, जिस में भारतीय न्याय की अच्छी विवेचना की है। अन्य जापानी विद्वानों ने भी भारतीय दर्शनों पर गम्भीर ग्रन्थ लिखे हैं। यथा यामा-कामी-सोगेन ने 'सिस्टेम्स ऑफ बुद्धिस्टिक् थॉट', जिस में बौद्ध न्याय के ग्रन्थों पर अच्छा विचार किया है। शर्वाट्स्की नामक रूसी विद्वान् ने भी बौद्ध दर्शनों पर कई अच्छे ग्रंथ लिखे हैं।

तिब्बत, बर्मा, स्याम, जावा, सुमात्रा, सिंहल द्वीप आदि देशों में बौद्ध और हिन्दू धर्म का ही प्रचार रहा; दर्शन भी ये ही थे। हाँ, तिब्बत आदि उत्तरीय देशों में महायान सम्प्रदाय का प्राबल्य रहा है, और सिंहल (सीलोन) में हीनयान का। इन दोनों का वही भेद है जो रामानुजाचार्य के भक्तिप्रधान ज्ञानमार्ग विशिष्टाद्वैत और शंकर के ब्रिक्ति-प्रधान ज्ञानमार्ग अद्वैत का। दोनों में कई कई अवान्तर सम्प्रदाय हो गये हैं। यह भी प्रकृति का नियम ही है; परमात्मा की एकता से सर्वत्र ऐक्य, समन्वय, और विरोध-परिहार, तथा प्रकृति की नानाता से सर्वत्र अनैक्य, भेदभाव, और विरोध। आज हिन्दू-धर्म में पाँच सात सौ परस्पर विवदमान पंथ हैं, इस्लाम में प्रायः सौ, ईसाइयों में प्रायः पाँच सौ, एवं बौद्धों में भी पचासों, तथा जैनो में भी। तिब्बत में, १४वीं शती ई० में एक बड़े प्रतापी दलाइ लामा 'त्सोङ्खा पा' हुए जो गौतम बुद्ध के अवतार ही माने जाते हैं। इन्होंने तिब्बत के राज्य-प्रबन्ध की, तथा ऋषियों के उच्चावच अधिकारों को, नया रूप दिया, और ज्ञानप्रचार का

बहुत प्रोत्साहन किया। तिब्बत की राजधानी ल्हासा के राजमहल 'पोताला' में बहुत बड़ा पुस्तकागार है।

बुद्धदेव ने जनता को सुख से बोध्यं हों, इसलिए अपने व्याख्यान उस समय की प्रचलित बोली पाली में दिये; पर उन के सौ दो सौ वर्ष पीछे ही, संस्कृत के ऐसा माहात्म्य है कि सब बौद्ध ग्रंथकारों ने संस्कृत में ही लिखना आरम्भ कर दिया। सब से अधिक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ सब संस्कृत में ही हैं। विख्यात ही है कि संसार के दुःखों, तथा जनन-मरण के पौनःपुन्य से मोक्ष पाने के ही लिये बुद्धदेव ने वैराग्य और ज्ञान का उपदेश किया; पर यह प्रसिद्ध नहीं है कि उन्होंने ने सद्गार्हस्थ्य और सत्समाज-व्यवस्था के उपायों का भी उपदेश किया, और वही किया जो उन से सहस्रों वर्ष पहिले भगवान् मनु और कृष्ण ने किया। समाज-व्यवस्था में, उन के समय से कुछ शतियों पहिले से, 'जन्मना वर्णः' का जो विष भर गया था, और जिस से हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म मुमूर्षु हो रहा था, उस का उन्हो ने मनु-कृष्णादि-अभिमत' कर्मणा वर्णः' के सिद्धान्तों का पुनः प्रचार कर के अपनोदन किया, भारतवर्ष को बारह सौ वर्ष के लिये नया जीवन दिया, और इसी परिष्कृत परिशोधित सनातन-आर्य-बौद्ध-मानव धर्म को पूर्व में चीन, जापान, बर्मा आदि, उत्तर में तिब्बत, साइबेरिया, दक्षिण में सीलोन, जावा, सुमात्रा, बाली आदि, पश्चिम में फिलिस्तीन, सीरिया आदि तक फैलाया, और बृहत्तर भारत की नीव डाली। इन विषयों में वेदान्त-धर्म और बौद्ध-धर्म में मनाक् भी भेद नहीं है; तथा दोनों में पुनः वही भ्रष्टता उत्पन्न हो गई, अर्थात् कर्म मार्ग के सर्वथा उच्छेद का प्रयत्न, तथा अस्वरूप मूर्तियों की पूजा। इस विषय पर मैंने 'समन्वय' और 'पुरुषार्थ' नामक हिन्दी और 'मानव-धर्म-सार' नामक संस्कृत ग्रन्थों में विस्तार से लिखा है।

बौद्ध दर्शन के चार सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, (१) वैभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) योगाचार, (४) माध्यमिक; पाचवाँ एक शून्यवाद भी कहा जाता है। दर्शन के अन्तिम प्रयोजन के विषय में सब में एकवाक्यता है; सभी निर्वाण अर्थात् मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। (१) के प्रसिद्धतम ग्रन्थकर्ता वसुबन्धु (चौथी शती ई०) हुए; (२) के कुमारलब्ध; (३) के अरसंग और दिङ्नाग (दोनों ४ र्थ शतीय); (४) के नागार्जुन और शान्तरक्षित; नागार्जुन अद्भुत विद्वान् हुए, न केवल अद्वितीय दार्शनिक अपितु अद्वितीय वैज्ञानिक और दक्षिण मार्गी तान्त्रिक; किंवदन्ती है कि आयुर्वेद में रसौषधों का आविष्कार और प्रचार प्रथम-प्रथम इन्होंने ही किया; इन के सैकड़ों वर्ष पीछे गौरक्षनाथ ने उस को कुछ आगे बढ़ाया; ये प्रायः दूसरी शती ई० में हुए। सर्वों के कुछ कुछ ग्रन्थ मिलते हैं और अब कई छप भी गये हैं। दिङ्नाग प्रकांड पण्डित और बड़े तार्किक

हुए; इन को लोग कालिदास का समकालीन मानते हैं क्योंकि 'मेघदूत' में श्लेषात्मक ये शब्द मिलते हैं, 'दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्' ।

जैन दर्शन का भी प्रयोजन आत्यंतिक दुःख-निवृत्ति और मोक्ष ही है । महावीर जिन ने भी चातुर्वर्ण्य का संशोधन वैसे ही स्पष्ट शब्दों में किया है जैसा गौतम बुद्ध ने अर्थात् 'कर्मणा वर्णः' का प्रचार और 'जन्मना वर्णः' का खंडन । यों तो ग्रन्थ बौद्धों के भी जैनो के भी बहुत हैं, पर बौद्धों में 'धम्म पद' और 'खुद्दक पाठ' का वही स्थान है जो सनातन धर्मियों में भगवद् गीता का; तथा अब तीन चार वर्ष हुए कुछ जैनी सज्जनों ने 'महावीर वाणी' नामक ३५० प्राकृत श्लोकों के एक बहुत उत्तम ग्रन्थ को छपवा कर प्रकाश किया है जिस में समय समय पर स्वयं जिन के कहे हुए श्लोकों का संग्रह किया है; यह ग्रन्थ भी धम्मपद और गीता का समकक्ष है ।

जैनो में उमा स्वामी को (जिन को उमा स्वाती भी कहते हैं) तो श्वेताम्बरदिगम्बर दोनों सम्प्रदायों के अनुयायी बहुत आदर से देखते हैं । इन दोनों सम्प्रदायों का भी भेद वैसा ही है जैसा महायान और हीनयान का । उमा स्वामी का प्रसिद्धतम ग्रन्थ 'तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र' वा 'तत्त्वार्थ-सूत्र' है । थोड़े से सूत्रों में समग्र सिद्धान्त एकत्र कर दिये हैं । शुद्ध अद्वैत वेदान्त को ही थोड़े थोड़े शब्दों में इस में कहा है । यह सज्जन प्रायः दूसरी शती ईसवी में हुए । जैन सम्प्रदायों के अन्य प्रकांड विद्वान् और ग्रन्थकार समन्तभद्र, कुन्द कुन्द, आदि बहुत हुए; पर सब से अधिक प्रसिद्ध और बहुमुखी विद्वान् हेमचंद्राचार्य हुए । गुजरात-देशी राजा कुमारपाल के ये प्रधान गुरु, उपदेशक, मंत्री, पुरोहित, सब कुछ थे । प्रसिद्ध है कि इन्होंने प्रायः अर्धश कोटि श्लोकात्मक ग्रन्थ लिखे, और सनातनियों ने भी उन का वैसा ही आदर किया जैसा जैनो ने, तथा इन को 'कलियुग सर्वज्ञ' और 'कलियुग वेदव्यास' की पदवी दिया । 'हैम' कोष इन का प्रसिद्ध है, पर अब तक छपा नहीं है; यह खेद का विषय है, क्योंकि प्रचलित 'अमर कोष' से बहुत बड़ा है । 'देशिनाममाला' नामक ग्रन्थ में अपने समय के भूगोल का वर्णन किया है । 'त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित' नाम जैन पुराण लिखा है; इत्यादि । अहिंसावादी जैन होते हुए भी, कुमारपाल को राजकीय क्षात्र धर्म का ही उपदेश किया, और उपद्रवियों, आततायियों, प्रजापीडकों आक्रामकों से युद्ध करवा के उन दुष्टों को मरवाया । इन का समय १२ वीं शती ई० है । स्मरण रखने की बात है कि आज तक सनातनी पंडितों में भी बालक को संस्कृत-ताम्रयनारम्भ में 'अमर कोष' ही रटाते हैं, जो अमरसिंह जैन की कृति है । प्रथा है कि इन्हीं के शिष्य अमरचन्द्र सिद्ध कवि हुए जिन का महा काव्य 'बाल-भारत', प्रायः चालीस वर्ष हुए, बम्बई की 'काव्य-माला' में क्रमशः छपा तथा पीछे स्वतंत्र

पुस्तक रूप से; प्रचलित माघ, क्रिरात, ऋतुसंहार आदि काव्यों से बहुत अधिक सुन्दर और अश्लीलता-रहित, नैषध और रघुवंश के समकक्ष काव्य है। ये ईसा की १३ वीं शती में गुजरात प्रान्त में राजा वीसल देव के प्रधान सभापंडित हुए। खेद है कि 'बाल भारत' का आदर पठन पठनार्थ पंडितों में नहीं है; होना चाहिये। ऐसे ही आयुर्वेदाचार्य भिषक् शिरोमणि बाग्भट भी, जिन का ग्रन्थ 'अष्टांगहृदय', सुश्रुत चरक के समकक्ष माना जाता है, सिन्धु-प्रान्त-निवासी जैन ही थे; इन का काल प्रायः १२ वीं शती ई० समझा जाता है। निष्कर्ष यह है कि जैनो में भी बड़े-बड़े विद्वान्, सब शास्त्रों के, हो गये हैं।

यद्यपि सनातनियों, जैनो, बौद्धों में परस्पर राजस तामस संघर्ष होता रहा, और कभी कभी बहुत रक्तपात भी, तथापि अधिकतर शास्त्रों की रचना और ज्ञानो के विस्तार में सार्विक प्रतिस्पर्धा ही रही, जिस का फल यह हुआ कि तीनों ने उत्तम उत्तम ग्रन्थ विविध शास्त्रों और विषयों पर लिखा और भारत का मुख उज्ज्वल किया; और अधिकांश एक ही घर में दो के या तीनों के मानने वाले सम्बन्धी मेल से रहते थे, जैसा जापान में, कि पिता शिन्तोई माता बौद्ध, वेदा ईसाई। भारत से बौद्ध धर्म के लोप का रूप और उस के हेतु मैंने अन्य उपर्युक्त हिन्दी और संस्कृत ग्रन्थों में दर्शाये हैं।

अब भारत के दार्शनिकों को देखिये। प्रसिद्ध ही है कि प्रायः दस सहस्र वर्ष पूर्व, अर्थात् वैदिक और पौराणिक काल में, उपनिषत् लिखे गये। दश, अथवा कौशीतकि और श्वेताश्वतर को मिला कर, क्यों कि इन पर भी शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, द्वादश उपनिषत् मुख्य और प्राचीन माने जाते हैं। इन में भी माध्यन्दिनी शाखा का ईशोपनिषत् मुख्यतम है, क्योंकि शुक्ल यजुः की संहिता भाग का ४० वाँ और अंतिम अध्याय है। इस को छोड़ एक ही उपनिषत् ऐसा है जो भी संहिता का अंग है, अर्थात् कृष्ण यजुः की मैत्रायणी शाखा के संहिता भाग का चालोसवाँ अध्याय, जो मैत्रायणी उपनिषत् कहाता है। इस उपनिषत् का विशेष यह है कि इसी में सत्व-तमस्-रजस् और ज्ञान-इच्छा क्रिया और विष्णु-शिव-ब्रह्मा की पर्यायता स्पष्ट कही है। यों तो सत्व-तमस्-रजस् शब्द दसियों उपनिषदों में मिलते हैं, पर कहीं दूसरे अर्थों में, कहीं अस्पष्टार्थ रूप से जिस का स्पष्टीकरण भाष्यकार ने किया है। उपनिषदों में पचासों ऋषियों के नाम दिये हैं, जिन की जीवनी का कुछ भी पता नहीं चलता, दो चार को छोड़ कर, जिन की चर्चा पुराण-इतिहास में की गई है; यथा उद्दालक और उन के नियोगज पुत्र श्वेतकेतु, जिन्होंने, महाभारत के अनुसार, प्रथम प्रथम भारत में विवाह और श्राद्ध की मर्यादा चलाई; इन मूल उपनिषदों के पीछे, समय समय पर सतत नये नये उपनिषदों की लीग बनाते रहें; यहाँ तक कि

सुगली राज मे, प्रायः शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह के (जो वेदान्त का बहुत रसिक था) समय मे एक अल्लोपनिषत् भी बन गया । अस्तु !

उपनिषदों मे ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, और तत्सम्बद्ध अध्यात्मविद्या का प्रतिपादन किया है—यह प्रसिद्ध ही है । “ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा”, “अध्यात्मविद्या विधानां ।” पर “मुंडे मुंडे मतिभिन्ना ।” उपनिषत्, गीता, और बादरायणीय ब्रह्मसूत्र की, जो ‘प्रस्थानत्रय’ कहे जाते हैं, व्याख्या विविध प्रकारों से की गई है । शंकर और रामानुज की चर्चा ऊपर की गई; इन के अतिरिक्त, आठ दस भाष्य और हैं जिन मे पाँच तो प्रसिद्ध हैं, शेष अप्रसिद्ध और लुप्तप्राय । गीता एक अद्भुत ग्रन्थ है; सैरुषों अनुवाद पचासों भाषाओं मे इस के, तथा सहस्रों व्याख्या कई कई भाषाओं मे इस पर, लिखे और छापे गये, और अब भी जा रहे हैं । शंकराचार्य का समय ७वीं ८वीं शती ई० माना जाता है । ब्रह्मसूत्र पर इन के भाष्य का नाम शारीरक-भाष्य और मत ‘अद्वैत’ है । शंकर के प्रगुरु गौड़पाद की मांडूक्य कारिका सर्वमान्य ग्रन्थ है; इस मे सुगत बुद्ध का आदर-सहित उल्लेख है । रामानुज का ११ वीं १२ वीं; ब्रह्मसूत्र पर इन के भाष्य का नाम श्री-भाष्य है, और मत ‘विशिष्टाद्वैत’ । वल्लभाचार्य का समय १५वीं १६वीं है; इन के भाष्य का नाम अणुभाष्य और मत ‘शुद्धाद्वैत’ । यूरोपीय मार्टिन लूथर और पंचनदीय गुरु नानक के सम-कालीन थे । इन के मत का बहुत प्रचार हुआ क्योंकि विरक्ति का प्रयोजन नहीं, कृष्ण की भक्ति, पूजा, और उन्हीं का अनुकरण करो—दुष्ट-दमन, राक्षस-हनन, कौरव-पांडव युद्ध मे अर्जुन के सारथ्य-करण का नहीं—रास लीला, चोरहरण लीला, दही-माखन-चोर लीला का । आज भी जहाँ जहाँ बल्लभ-कुलियों के गोपाल मंदिर हैं वहाँ वहाँ अच्छे से अच्छा भोजन पान, व्यभिचार, वेग से चल रहा है । वाल्लभ ‘दर्शन का प्रयोजन’ यह है । इस का वर्णन मैं ने ‘पुरुषार्थ’ ग्रन्थ मे विस्तार से किया है । वाल्लभ के मत को ‘पुष्टिमार्ग’ भी कहते हैं; ठीक ही है; इस मत के गोस्वामी महोदय प्रायः पुष्ट ही, स्थूल ही, देख पढ़ते हैं, यदि व्यभिचार-जनित उपदंश मूत्र-कृच्छ्र आदि रोगों से प्रस्त न हो गये हों तो । इन के समकालीन विज्ञान भिक्षु सन्यासी अच्छे विद्वान् हो गये; सब दर्शनो पर इन के भाष्य हैं; ब्रह्म सूत्र के भाष्य का नाम ‘विज्ञानाभृतभाष्य’ ही है । कपिल के सांख्य सूत्र तो मिलते नहीं; उन के पारम्परिक शिष्य ईश्वर-कृष्ण की सांख्य-कारिका ही अब इस दर्शन का मूल और प्रामाणिकतम ग्रन्थ माना जाता है । ईश्वर-कृष्ण प्रायः ईसा मसीह के समकालीन थे । विज्ञान भिक्षु ने सांख्य-सूत्र रच डाले और उन पर ‘सांख्य-प्रवचन-भाष्य’ भी लिख दिया । ब्रह्मसूत्र के मुख्य भाष्यकार ये पाँच ही है; अन्यो का प्रचार नहीं के तुल्य है । वाल्लभ सम्प्रदाय मे त्रिरत्न के साथ चतुर्थ रत्न श्रीमद्भागवत है; जो अन्य तीन रत्नों से, क्या वेदों से भी, बढ़ कर है; भागवत पर वाल्लभी टीका ‘सुबोधिनी’ ही अधिक पढ़ी पढ़ाई

जाती है, अणु-भाष्य तो नाम मूत्र को; पर श्रीधर की टीका सब से अच्छी है। रामानुज की एक गर्वोक्ति है जिस से उन के समय में माना हुआ दर्शनो का काल-क्रम जाना जाता है;

गाथा ताथागतानां गलति, गमनिका कापिली कापि लीना,
क्षीणा काणाद-वाणी, द्रुहिण-हर-गिरः सौरभं नारभन्ते,
क्षामा कौमारिलोक्तिः, जगति गुरुमतं गौरवाद् दूरवान्तं,
का शंका शंकरादेः भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीं ।

ताथागतों चौद्धों की गाथा गल गई, कापिल सांख्य कहीं लीन हो गया, काणाद अक्षपाद की वैशेषिक वाणी क्षीण हुई, जैमिनि-कृत मीमांसासूत्र पर शाबर भाष्य की तंत्रवार्तिक नामक टीका रचने वाले कुमारिल की उक्तियों क्षाम हो गई, गुरु प्रभाकर का मीमांसा मत अति गुरु गरिष्ठ दुर्बोध होने के कारण दूर फेंक दिया गया, शंकरादिकों की क्या शंका है जब रामानुजाचार्य त्रिवेदी के पांडित्य के भद्रासन पर विराजमान हैं ।

प्रभाकर को 'गुरु' पदवी कैसे मिली—इस के सम्बन्ध में पंडित मंडली में प्रसिद्ध एक रोचक कथा है। प्रभाकर, अन्य शिष्यों के साथ पढ़ रहे थे, गुरु जी पढ़ा रहे थे, जिस हस्तलिखित ग्रन्थ को पढ़ा रहे थे, उस में एक स्थान पर आया "पूर्व-तुनोक्तमिदानीमपिनोच्यते", जिस का अर्थ होता है, 'पहिले तो नहीं कहा अब भी नहीं कहा'; गुरु जी चक्र में पड़े; इस दीर्घ शंका में पड़े उन को लघु शंका लगा, उस को निवृत्त करने को उठ कर दूसरे स्थान को गये; इमी अवसर में प्रभाकर ने पन्ने के मर्म (हाशिये) पर लिख दिया, "पूर्व तुना उक्तं, इदानीं अपिन उच्यते", 'पहिले तु-शब्द से कहा, अब अपि-शब्द से कहते हैं। गुरु जी लौटे देखा, बहुत प्रसन्न हुए, पूछा 'किसने यह टिप्पणी की?'; अन्य शिष्यों ने बताया कहा 'आज से, मैं नहीं, तुम गुरु हो' ! संस्कृत की आधी से अधिक कठिनार्द इहं हेतु से है कि संधि का छेद नहीं किया जाता और पहिले, जब छापने की विधि नहीं ज्ञात थी तब, सब शब्द एक साथ सटा कर हाथ से लिखे जाते थे। यदि संधियों का छेद कर दिया जाय, और शब्द अलग अलग लिखे और छापे जायें तो संस्कृत बहुत सरल हो जाय।

एक मेरे मित्र विद्वान् पंडित ने वार्त्तालाप में प्रसन्न-प्राप्त कहा कि 'दो ही तं दर्शन हैं, अद्वैत वेदान्त वा नास्तिक चार्वाकीय ; सब आत्ममय ब्रह्ममय है, सब अपने हैं, हमी हैं, सब संसार का रोना हैंसना हमारा ही हैंसना रोना है; वा खाओ पीयो, मौज करो, "आप मरे जग परलो"; "यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्

ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः”, जब तक जीयै, सुख से जीने का जतन करै, ऋण काढ़ के धी पीयै, भस्म हो गया देह कहीं फिर आता है ! !’—पंडित जी स्वयं नैयायिक थे, पर आस्था वेदान्त ही में थी ।

कुमारिल, शंकर से कुछ पहिले हुए; मंडन मिश्र, पहिले मीमांसक और कर्म-कांडी, शंकर से जल्प में परास्त होने के पीछे अद्वैती सन्यासी, उन के समकालीन थे; कुछ का कहना है कि इन्हीं ने सुरेश्वराचार्य के नाम से शंकर के उपनिषद्वाक्यों पर वार्तिक लिखे, जिन में वृहदारण्य का बहुत प्रसिद्ध है; ‘वार्तिकान्ता ब्रह्मविद्या’, ऐसी प्रथा है । कुछ लोग कहते हैं कि मंडन से सुरेश्वर भिन्न थे । जो हो । इतिहास का भारत में सदा अभाव रहा है । यों तो अद्वैतवाद पर बहुत ग्रन्थ लिखे गये हैं, पर सुरेश्वर के शिष्य सर्वज्ञ मुनि का संक्षेप-शारीरक, चित्सुख की चित्सुखी, मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत-सिद्धि और नैषध-काव्य-रचयिता श्री-हर्ष के खंडन-खंड-खाद्य का विशेष आदर है । श्री-हर्ष, स्थानेश्वर (वा स्थाण्वीश्वर) के महाराज जयचन्द्र (भारत के अन्तिम भारतीय सम्राट् पृथ्वीराज के समकालीन) के सभा पंडित थे; चित्सुख, १३वीं शती ई० में हुए; मधुसूदन बंगाली थे, काशी में ही इन्हीं ने अपने सब ग्रन्थ लिखे; वल्लभ के समकालीन थे; इन का एक ग्रन्थ ‘हरिभक्तिरसायन’ भी है, पर उपलभ्य नहीं है; अन्य ग्रन्थों में उद्धृत उस के श्लोकों से ही उस का पता चलता है । महासमुद्र विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय सम्राट् वुक्कराय के महाविद्वान् महामंत्री (प्रसिद्ध वेद भाष्यकार सायण के भाई) माधव ने सन्यास लेने के पीछे अद्वैतवाद पर कई अति उत्तम ग्रन्थ लिखे जिन में पंचदशी तो बहुत ही प्रसिद्ध है; ये १४वीं शती ई० में हुए ।

कणाद, अक्षपाद गौतम, कपिल, दुहिण, हर आदि सब बुद्ध के पीछे और ईसा से पहिले हुए; यद्यपि इन के मत इन से बहुत पहिले से चले आते हैं; इन लोगों ने उन्हीं पुरानी बातों को नये शब्दों में फिर से सूत्र भाष्यादि रूप में लिख दिया ।

व्याकरण दर्शन का स्फोटवाद भारत की विशेषता है । इस विषय पर अन्य किसी देश में विचार नहीं हुआ । कहा जाता है कि इस का आरम्भ पाणिनि ने किया, पर यह भूल है; वेद संहिता की एक ऋचा में यह समग्र दर्शन रख दिया है,

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि,
तानि विदुर् ब्राह्मणाः ये मनीषिणः,
गुहा त्रीणि निहिताः न इङ्गयन्ति,
तुरीयां वाचं अभि मनुष्याः वदन्ति ।

वाक् के चार क्रम हैं, विकासन में; चौथी तुरीया वैखरी वह जिस का मनुष्य मुख से उच्चारण करते हैं; अन्य तीन परा, पश्यन्ती, मध्यमा, गुहा में छिपी हैं ।

परावाक् परमात्मा का काम-संकल्प ही, त्रिकाल-संग्राही; पश्यन्ती कारण शरीर की, मध्यमा सूक्ष्म शरीर की, बोली है ।

पाणिनि का समय कुछ लोग बुद्ध से सौ दो सौ वर्ष पहिले, कुछ इतना ही पीछे बताते हैं; ठीक कहना कठिन है । पैशाच भाषा मे लक्षश्लोकात्मक बृहत्कथा के (जिस का उत्तम संस्कृत श्लोकों मे सोमदेव भट्ट ने, ११वीं शती ई० मे काश्मीर के महाराज अनन्तराज की विदुषी रानी सूर्यवती देवी की इच्छा से २४००० श्लोकों मे अनुवाद किया) रचयिता गुणाढ्य कवि ने, ग्रन्थ के आदि मे 'कथापीठ-लम्बक' मे पाणिनि, व्याडि, वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन (उपनाम वररुचि), पतंजलि, चाणक्य, चन्द्रगुप्त आदि सब को समकालीन बना दिया है । यह स्पष्ट ही मिथ्या है । पतंजलि, चाणक्य, चन्द्रगुप्त तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इन के समय ज्ञात हैं; अन्तिम दो, सिकन्दर के समकालीन, ४थी शती ई० पू० के अन्त और दूसरी के आदि मे हुए; तथा पतंजलि, "यवनः साकेतं (अयोध्यां) रुधे" और "पुष्यमित्रं याजयामः" आदि उन के महा-भाष्य-स्थ वाक्यों से ई० पू० दूसरी शती के अंत मे वर्तमान प्रमाणित होते हैं ।

चाणक्य (विष्णुगुप्त, कौटल्य, वात्स्यायनाद्यपरनामक) के रचे जगत्प्रसिद्ध पंचतंत्र मे एक श्लोक मिलता है जिस से जान पड़ता है कि चाणक्य से कुछ ही पूर्व पाणिनि, जैमिनि, पिंगल, कात्यायन आदि हुए,

सिंहो व्याकरणस्य कर्त्तुर् अहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः ,
छन्दो-ज्ञान-निधिं जघान मकरो वेलातटे पिंगलं ,
मीमांसाकृतं उन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिं जैमिनिं ,
मोहेन ऽवृत-चेतसां अतिरुषां कोऽर्थः तिरश्चां गुणैः ।

व्याकरणकार पाणिनि को सिंह ने मार डाला, छंदःसूत्र के रचयिता पिंगल को मगर खा गया, मत्त हाथी ने मीमांसासूत्रकार, जैमिनि को कुचल डाला; अज्ञान से अन्धे पशुओं को गुणो की क्या पहिचान ! कोई लोग दूसरी पंक्ति के स्थान मे यों पढ़ते हैं ।

कुम्भीरो निजधान वार्त्तिककरं कात्यायनं सन्मुनिं ,

मगर ने पाणिनिसूत्र पर वार्त्तिक रचनेवाले कात्यायन को मार डाला ।

चतुर्दश माहेश्वर सूत्र तो पाणिनि से बहुत पुराने हैं, और व्याकरण भी उन के पहिले ही बहुत बने थे; आठ का नाम तो स्वर्ण पाणिनि ने कहा है; बृहत्कथा मे औरों के नाम भी, रौचक कहानियों के साथ, कहे हैं । पर पाणिनि ने उन प्राचीनो के

उत्तम अंश को समेट कर अपने समय के लिये नया संस्करण कर दिया, इस से उन का नाम बहुत विख्यात हो गया। अस्तु।

ऊपर कह आये हैं कि प्राचीन षट् आस्तिक सूत्र भाष्यकारों में कोई वैभक्त्य नहीं है, केवल शब्दों का भेद है, जिस भेद से एक ही वस्तु सत् के, एक ही तथ्य के, नये नये अंग, अंश, अल, रूप देख पड़ते हैं। किन्तु, अर्वाचीन दार्शनिकों ने तो भेद ही पर बल दिया है, विरोध ही को बढ़ाया है, और भाषा को अधिकाधिक जटिल और दुर्बोध करते गये हैं। गंगेश (१२वीं शती) ने नव्यन्याय का आरम्भ किया; उन के शिष्य प्रशिष्यों ने 'अवच्छेदकावच्छिन्न' की 'शार्गाली' भाषा को बहुत बढ़ाया। उन की देखादेखी नव्यव्याकरण, नव्यमीमांसा, नव्यवेदान्त भी आरम्भ हुए; पुरुषार्थ-साधकता पर ध्यान नहीं, पांडित्य-प्रदर्शन ही प्रयोजन और अभीष्ट। सब संस्कृत वाङ्मय अष्ट हो गया। सहस्रों ग्रन्थ लिखे गये; उन की चर्चा करना व्यर्थ है।

अब यूरोप-एशिया के मध्य भाग, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, अरब, शाम, रुम फ़िलिस्तीन आदि के दर्शन की कथा सुनिये। यहाँ दार्शनिकों की दो परम्परा है, एक तो यूनानी (ऐयोनियन, यवनी) ग्रीक देशी मुक्तात (सॉकाटीज), अफ़लातूँ (प्लेटो), अरस्तातालीस (ऑरिस्टॉटल) की, दूसरी सूफ़ियों की। प्लेटो और ऑरिस्टॉटल के ग्रन्थों का उन्था अरबी और इब्रानी ('हीब्रू', यहूदी) भाषाओं में किया गया, और उस पर अरबों ने, इस्लाम की (७वीं-८वीं शती ई०) उत्पत्ति के पीछे, और यहूदियों ने उस के बहुत पहिले से ही, अच्छी अच्छी शरहें, टीका, लिखीं। अरबों ने प्रायः यहूदी अनुवादों में ही अनुवाद किया, क्योंकि यहूदी धर्म और भाषा बहुत पुरानी हैं, और उन का सम्पर्क ग्रीकों से बहुत अधिक था, देशों की सीमा मिलने के हेतु से। यहूदियों में प्रसिद्ध दार्शनिक नाम ये हैं—फ़ाइलो (ई० पू० १००), सादिया (१०वीं शती ई०), बाखिया इब्न-पकूदा (११वीं), इब्न-जबीरुल् (११वीं), अल्मैमू (१२वीं), जर्जुनैद (१३वीं), करिष्क (१४वीं)। इन में कुछ तो अफ़लातूनी सूफ़ी (इश्राकी, प्रातिभ, वेदान्ती), कुछ अरस्तूनी नैयायिक (मश्राई, तार्किक)। सब से प्रसिद्ध नाम फ़ाइलो (वेदान्ती) और अल्मैमू (नैयायिक) हैं। मैमू का जन्म क़र्दबा (कार्बोवा), स्पेन के नगर, में हुआ, और वहीं इन्हीं ने पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित विद्वान् हुए; पर जब इन की अवस्था प्रायः चालीस वर्ष की हुई तब वहाँ नया मुसल्मान राजा हुआ जिस ने यहूदियों की यातना और हत्या आरम्भ की; तब ये मिस्र देश में काहिरा (केयरो) में आये; और भी कई स्थानों में भागते फिरे; अन्त में सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन का आदर किया, इन को शरण दिया, अपना वैद्य बनाया (क्योंकि 'तिब्ब' के भी बड़े पंडित थे), अपनी राजधानी बग़दाद में

बसाया; वहीं इन्होंने ने अन्त में १२०४ ई० में ७९ वें वर्ष में शरीर छोड़ा। पर यहूदी दर्शन का अधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'क्रब्बाल' है, जो शुद्ध औपनिषद वेदान्त ही है। उस की भाषा भी बहुत कुछ उपनिषदों की सी है। कब लिखा गया, इस का पता नहीं; यहूदी रब्बियों (ब्राह्मणों, ब्रह्मणादियों) का विश्वास है कि महर्षि मूसा के ही समय में इस का आरम्भ हुआ, अर्थात् ई० पू० १७वीं शती में; वा इस से भी पहिले यहूदियों और दोनों के आद्य प्रजापति इब्राहीम (एब्रहम, अब्रहम, ब्राह्म) के ही समय से (ई० पू० बीसवीं शती)। कुछ लोगों का कहना है कि भारत के ब्राह्मण ही अब्रहम थे, और वे यहाँ से वेदान्त दर्शन अपने साथ ले गये। यहूदी, अरब, असुर, (असीरियन्), खल्दी (कॉल्डीयन्) आदि सब नूह (ई० पू० २५००) की संतान, अतः चचेरे भाई हैं; और इसी हेतु से इन में सदा बापा-बैर और मारकाट होती रही, जैसे कौरव-पांडवों में। इन्हीं नूह के वंश में अब्रहम भी हुए। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ईरानी (आर्यानी, आर्य) धर्म की पुस्तक जिन्द-अविस्ता वेदों का ही एक शाखा है, और वेद और जिन्द (छन्द) की भाषा में वैसा ही भेद है जैसा आधुनिक हिन्दी और मराठी या गुजराती या बँगला में। इन्हीं ईरानियों की शाखा प्रशाखा, यहूदी, अरब, आदि, और पीछे यवन आदि, हुए। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये त्यों-त्यों बोलियों बहलती गईं, अंततः परस्पर अबोध्य हो गईं। अस्तु। क्रब्बाल की बात चली थी। इस के वर्तमान रूप में दो भाग हैं, पहिले का नाम सफ़िर यत्-जिरा, अर्थात् सृष्टि-अध्याय; दूसरे का जोहर, अर्थात् ज्योतिरध्याय। जैसे एक वेद का संस्कार कर के वेदव्यास ने चार वेद बना दिये, वैसे ही पुरानी क्रब्बाल की बिखरी बातों का संस्कार कर के किसी ने या किन्हीं ने यह नया रूप बना दिया; किस ने यह किया, इस का पता नहीं। पहिले अध्याय का समय नवीं और दूसरे का तेरहवीं शती कहा जाता है।

अरबों में अधिक प्रसिद्ध अल् किन्दी (नवीं शती), अल् फ़गवी (दसवीं) इब्न सीना बगदादी (११ वीं), अबू रुसद कर्दबाइ (१२ वीं) हुए; इन में सब में अधिक प्रसिद्ध अन्तिम दो हुए। ये सब अरस्तूनी नैयायिक परम्परा वाले थे।

सूफ़ी परम्परा में शम्स तब्रेज़ (जिन को कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय केशवानन्द सन्यासी थे, नाम बदल कर वेदान्त का उपदेश करने के लिये ईरान चले गये थे); इन के शिष्य मन्सूर हल्लाज (८५८-९२२ ई०) बगदादी, जिन को शरई मुल्लाओं ने फाँसी दिलवा दी क्योंकि ये 'अन् अल् हकू', 'अहं ब्रह्म', पुकारते फिरते थे; गिज़ाली तूसी (१०६६-११११ ई०); उमर खय्याम (११ वीं); शाहाबुद्दीन मुहरावर्दी (११५६-१२३४ ई०); इब्न अरबी, जो स्पेन के एक नगर में ११६५ में जन्मे, और दमिश्क में आ कर बस गये और वहीं १२४० में मरे; मौलाना रूमी

बल्खी (१३ वीं); इन्हीं के समकालीन और परम मित्र फ़रीदुद्दीन अत्तार, और अब्दुल् करीम जीली (१४ वीं); शहाबुद्दीन शबिस्तरी (१४ वीं) हुए। प्रायः तीन सौ वर्ष पीछे, औरंगज़ेब के समय में, सर्मद, जिन का जन्म प्रायः फ़िलिस्तीन में यहूदी कुल में हुआ था, बहुत देशों में घूमते हुए, और ईसाई और मुस्लिम धर्म का भी पर्याय से ग्रहण करते हुए, अन्त में दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली की गलियों में मंसूर के ऐसा 'अनल् हक्' पुकारते फिरे, सर्वथा नम्र दिगम्बर हो कर; इस हेतु दुराग्रही शरई 'कर्मकांडी' औरंगज़ेब ने इन को फाँसी दिलवा दी। इन के बिगरे हुए शेर मिलते हैं, बहुत मीठे हैं। औरंगज़ेब ने जब पूछा—'वरहना, नंगे, क्यों फिरते हो?' तो उत्तर दिया,

पोशान्द लिवास हर् कि रा ऐव दीद्,
वे-ऐवाँ रा लिवासि उर्यानी दाद् !

तरे ऐसे पापी, ऐवों से भरे, के ऐवों को छिपाने के लिये कपड़े का प्रयोजन है; मेरे ऐसे बे-ऐव, निर्दोष, के लिये बच्चों का पहिरावा अर्थात् नम्रता ही उचित है। जब फाँसी पर चढ़ाने को ले चले तब हँसे और बोले,

असः बूद् आवाज़्प मंसूर कुहन् शुद्,
मन् जल्वा दिहम् वारि दिगर् दार् ओ रसन् रा !

बहुत समय बीत गया, इस से मंसूर की बोली मन्द पड़ गई, सुन नहीं पड़ती, इस लिये मैं दार, दार, लकड़ी और रसन्, 'रसना', रस्सी के द्वारा फाँसी पा कर पुनर्-वार उसे जैँची करूँगा, जगत् को सुनाऊँगा !

सूफ़ियों में यह बड़ा विशेष गुण रहा है कि वे परम धार्मिक वेदान्ती होते हुए भी जीविका के हेतु कोई न कोई व्यवसाय करते रहे; यथा मंसूर, हल्वाज अर्थात् थुनिया थे; उमर ख़य्याम च़ेमे, तम्बू, वितान बनाया करते थे; फ़रीदुद्दीन अत्तार इत्र, पुष्पसार सुगन्ध, बनाते और बेचते थे; मौलाना रूम, महाजनी लेन-देन करते थे। उमर ख़य्याम गणित और ज्योतिष के भी बहुत बड़े पंडित थे, पर अब तो उन की प्रसिद्धि 'रुबाइयात' के कारण ही है; ये प्रायः पाँच सौ 'चतुष्पदी' (रुबाई) फ़ारसी भाषा के श्लोक हैं, जिन का अनुवाद कई यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। इब्न अरबी और जीली के कुछ छोटे अरबी भाषा के ग्रन्थों का सरस अनुवाद निकल्सन् ने पद्यों में किया है। इन्हीं ने मौलाना रूम की तीस सहस्र श्लोकों की फ़ारसी भाषा की 'मस्नवी' का भी अंग्रेज़ी अनुवाद किया है। यह मस्नवी सूफ़ियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है, यहाँ तक

कि कुरान से बढ़ कर नहीं तो उस के तुल्य ही इस का आदर है। सूफियों में कहावत है,

मन् चि गोयम् वस्फिः आँ आली जनाब,
नीस्त पैगम्बर चले दारद् किताब ।

इन महात्मा की जितनी भी बड़ाई की जाय थोड़ी है; नाम मात्र को पैगम्बर नहीं कहलाते पर किताब तो इन की कुरान सी ही हैं। स्वयं मौलाना ने कहा है,

मन् जि क्रूर-आँ मगज़ रा वर्दाश्तम्,
उस्तुखाँ रा वर् सगाँ अन्दाश्तम् ।

मैंने कुरान का सत्तसार निकाल कर इस पुस्तक में रख दिया है, और उस की सूखी हड्डी, कर्मकाण्डी शरई कुत्तों के ऊपर फेंक दी है !

यों तो शेख़ सादी शीराज़ी (११८४-१२९१ ई०) भी सूफ़ी थे, और कोई कोई शेर इन के बड़े ही मार्मिक हैं, यथा

नमाज़े ज़ाहिदाँ क्रहो सूज़ूदस्त ।
नमाज़े आशिकाँ तर्के वजूदस्त ।

सूखे कर्मकाण्डी मुल्लाओं ज़ाहिदों की नमाज़ तो उठना बैठना है, पर परमेश्वर के सच्चे आशिकों, प्रेमियों, भक्तों की नमाज़ अपने को भूल जाना, स्वार्थ की मिटा देना, ही है ।

तरीकत् वजुज़ ख़िद्मते ख़ल्क़ नीस्त,
ब तस्बीहो सज़ादः ओ दल्क़ नीस्त ।

परमात्मा को पाने का उपाय लोक सेवा को छोड़ दूसरा नहीं; माला फेरना और आसन बिछाना और कथरी गुदड़ी ओढ़ना उपाय नहीं ।

अक़्बर इलाहाबादी की, जिन को मरे प्रायः पैंतिस वर्ष हुए होंगे, प्रसिद्धि उत्तम हास्य रस की कविता की है, पर इन्होंने भी कुछ शेर बड़े मार्मिक शुद्ध वेदान्त के भी कहे हैं, यथा

ज़ाहिदे गुम्राह के मै किस तरह हम्राह हूँ ?
वह कहै अल्लाह है, औ मै कहूँ अल्लाह हूँ !

अरबी फ़ारसी दार्शनिकों के सम्बन्ध में एक रोचक ऐतिहासिक घटना का वर्णन आवश्यक है क्योंकि वैसा इतिवृत्त "न भूतो, न भविष्यति" ! राजा लोग प्रायः शौर्य

वीर्य के यश द्वारा अपने अहंकार के तर्पण के लिये, अथवा कामीय वासना की पूर्ति के अर्थ सुन्दर स्त्रियों के लिये, अथवा लूटपाट द्वारा धन और भूमि के लिये युद्ध करते रहे हैं; दार्शनिक विद्वान् के लिये युद्ध एक ही हुआ है ! सहस्र-रजनी-चरित्र मे प्रसिद्ध हार्लैं रशीद के पुत्र खलीफा और सुल्तान मामू रशीद (नवीं शती) को ज्ञात हुआ कि बाइज़ांटियम् (अब कुस्तुन्तुनिया, कॉन्स्टान्टिनोपल) मे एक बड़े विद्वान् दार्शनिक लीयो नामक अत्यन्त दरिद्रावस्था मे दुःख से जी रहे हैं । मामू ने उन को निमंत्रण भेजा कि मेरे पास आइये और सुख सम्पन्नता से जीवन बिताइये । लीयो ने बिना अपने सम्राट् थियोफ्राइल्स् की अनुमति के दूसरे राजा का आश्रित होना उचित नहीं समझा, विशेष कर के ऐसी अवस्था मे जब दोनों राजाओं मे अन्य कारणो से वैमनस्य था । थियोफ्राइल्स् ने मना कर दिया और उन को अच्छी वृत्ति देना आरम्भ किया, एक बड़ी पाठशाला की मुख्याध्यापकता और अध्यक्षता भी उन को सौंपी । इसपर ८३० मे, मामू ने युद्ध की घोषणा कर दी । प्रायः तीन वर्ष तक संग्राम होते रहे और बहुत जन-धन का विनाश हुआ ; अन्ततः रोग से मामू की ८३३ मे मृत्यु हो गई और युद्ध शांत हुआ । लीयो ने अग्नि की ज्वालाओं के संकेतों से युद्धों मे हार जीत के समा-चार दूर से बहुत शीघ्र भेजने के उपाय का आविष्कार किया था । उस समय मे जत्र तार, रेडियो, आदि नहीं थे, यह उपज वही अद्भुत मानी गई ।

अब अन्त मे पाश्चात्य दार्शनिकों, अर्थात् यूरोप ओर अमेरिका के दार्शनिकों की दृष्टियों को देखना चाहिये । अलेक्ज़ांडर हर्जबर्ग नामक जर्मन विद्वान् की पुस्तक 'दि साइकालोजी ऑफ् फ़िलॉसोफ़र्स' की चर्चा कई बार पूर्वाध्याओं मे की जा चुकी है । उस मे उस ने तीस प्रसिद्धतम दार्शनिकों की जीवनी लिखी है । प्रसिद्धतमता का लक्षण यह है कि जव दार्शनिकों और बादों की चर्चा ग्रन्थ मे वा मौखिक वार्त्तालाप मे हो तो इन के नाम निश्चयेन लिये जायें, चाहं अन्यों के लिये जायें वा नहीं ; एवं दर्शन के इतिहासों मे इन के नामों और वादों का उल्लेख और विवरण अवश्य हो, चाहे औरों का हो या न हो । इस कसौटी से परख कर, हर्जबर्ग ने तीस नाम चुने हैं जिन मे केवल दो तीन पर यह निष्कर्ष ठीक नहीं बैठता; वे ये हैं—

१. सॉक्राटीज़्	(ग्रीस देश मे	जन्म वर्ष ४६९ ई० पू०, मृत्यु ३९९)
२. प्लेटो	(" " " "	४२८ " " ३४७)
३. ऑरिस्टॉटल्	(" " " "	३८४ " " ३२२)
४. एपिक्यूरस्	(" " " "	३४२ " " २७०)
५. सेंट ऑगस्टिन्	(उत्तरी अफ़्रिका	" ३५४ ई० " ४३० ई०)
६. झॉर्जानो ब्रूनो	(इटली	" १५५० " " १६०० ")

७. बेकन	(इङ्लंड)	१५६१	१६२६
८. हॉब्स	(")	१५८८	१६७९
९. डेकार्ट	(फ्रांस)	१५९६	१६५०
१०. लॉक	(इङ्लंड)	१६३२	१७०४
११. स्पाइनोज़ा	(हॉल्लैंड)	१६३२	१६७७
१२. मालेब्रांश्	(फ्रांस)	१६३८	१७१५
१३. लाइब्निज़	(जर्मनी)	१६४६	१७१६
१४. बर्केली	(आयरलैंड)	१६८५	१७५७
१५. ह्यूम्	(इङ्लैंड)	१७११	१७७६
१६. रूसो	(फ्रांस)	१७१२	१७७८
१७. कान्त	(जर्मनी)	१७२४	१८०४
१८. फिश्ते	(")	१७६२	१८१४
१९. हेगेल	(")	१७७०	१८३१
२०. शेल्लिङ्	(")	१७७५	१८५४
२१. हर्बर्ट	(")	१७७६	१८४१
२२. शोपेनहावर	(")	१७८८	१८६०
२३. कॉम्यूते	(फ्रांस)	१७९८	१८५७
२४. फोल्नर	(जर्मनी)	१८०१	१८८७
२५. फ़्युअर्बाख्	(")	१८०४	१८७२
२६. मिल	(इङ्लैंड)	१८०६	१८७३
२७. स्टर्नर	(जर्मनी)		अज्ञात
२८. हर्बर्ट स्पेन्सर्	(इङ्लैंड)	१८२०	१९०३
२९. हार्टमॉन्	(जर्मनी)	१८४२	१९०६
३०. नीचे	(जर्मनी)	१८४४	१९००

स्टर्नर का नाम, मेरे देखे हुए ग्रन्थों में से किसी में भी नहीं मिला, सिवा एक के, अर्थात् हार्टमान के 'फिलासोफी आफ् दि अन्कांशस्' की तीसरी जिल्द के पृष्ठ ९७-९८ पर; जन्म और मृत्यु की तिथियाँ नहीं लिखी हैं; पर यह लिखा है कि बहुत वर्षों तक निजंन जंगल के बीच एक मकान में प्रायः अकेले ही रहा करते थे; आठवें दसवें एक परिचित मनुष्य उतने दिनों को पर्याप्त खाने पीने की सामग्री पास के किसी ग्राम से क्रय कर के दे जाया करता था; ध्यान में, लिखने में, पढ़ने में

अधिकांश समय बिताते थे; कारण ठीक ज्ञात नहीं; स्यात् असाध्य रोग के हेतु संसार से विरक्त हो रहे थे ।

उक्त तीस में नम्बर १, २, ३, ४, ७, ९, ११, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २२, २३, २६, २८, २९, अधिक प्रसिद्ध हैं; और इन में भी प्रसिद्धतम न० २, ३, ४, ७, ११, १४, १५, १७, १८, १९, २२, २३, २८, और २९ । सेंट ऑगस्टिन की प्रसिद्धि उन के दर्शन के लिये उतनी नहीं है जितनी अपने पापों के प्रख्यापनात्मक ग्रन्थ 'कॉन्फेशन्स' के हेतु है; इस में कहा है कि मैं यौवन में बड़ा दुराचारी 'व्यभिचारी' वेश्यासाक्त आदि रहा, फिर अन्तरात्मा की प्रेरणा में एक दिन उस भ्रष्टता से घोर घृणा हुई, पश्चात्ताप हुआ, ईसा मसीह में भक्ति हुई । फिर तो ऐसे तपस्वी हुए कि तत्कालीन रोम-साम्राज्यान्तर्गत उत्तरी आफ्रिका के ह्विपो नामक नगर के 'बिशप' नियुक्त हुए और 'मेंट' ('सन्त' का ही रूपान्तर) की पदवी से विभूषित हुए । बेकन की प्रसिद्धि ग्रन्थ दर्शन के हेतु इतनी नहीं है जितनी 'ऑड्वॉन्समेंट ऑफ़ लर्निंग्' नामक ग्रन्थ के लिये जिस में उन्होंने विज्ञान और योग्या ('एक्सपेरिमेंट्') के द्वारा निश्चित ज्ञान पर बल दिया है; और इस हेतु से वे आधुनिक विज्ञान के प्रवर्तक और पितामह माने जाते हैं । स्पाइनोजा की विशेषता यह है कि दरिद्र यद्दी घर में जन्मे, और समस्त आयु उन्होंने हीरा-तराशी के व्यवसाय से जीविकोपार्जन किया, यद्यपि जब उन के ग्रन्थ छपे और उन के कारण बहुत यश फैला तब कई राजाओं ने उन को बहुत आदर से निमंत्रण भेजा और विश्वविद्यापीठों में ऊँचे वेतन पर अध्यापक नियुक्त करने को कहा, पर वे सदा इनकार ही करते रहे; तथा आमरण अविवाहित ब्रह्मचारी ही रहे; सम्पत्ति के अभाव से जनित क्लेशों के कारण बहुत अल्पायु हुए । बड़े दार्शनिकों में भी ये बहुत बड़े माने जाते हैं । यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रायः छः-सात सौ वर्ष से ऑम्स्टर्डैम् नगर में, जो हॉल्लैण्ड की राजधानी है, और जहाँ स्पाइनोजा ने जीवन बिताया; तथा काशी में स्यात् दो सहस्र वर्ष से; हीरा-तराशी का काम हो रहा है; अन्य कहीं नहीं; चाहे अब अन्य नगरों में भी होने लगा हो; तथा ईरान और चीन के पुराने सभ्य देशों में भी रहा हो, क्योंकि इन दोनों देशों में हीरा आदि जवाहिरों के बड़े बड़े संचय रहे हैं । चोरी के जवाहिर प्रायः उक्त दो नगरों में आ कर पुनः धिसवा कटवा लिये जाते रहे हैं कि पकड़े जाने पर पहिचाने न जायें । अस्तु ; प्रसङ्गवशात् बात कुछ बहक गई, अब पुनः प्रसक्त विषय पर आना चाहिये । बकैली का दर्शन प्रायः शुद्ध अद्वैत वेदान्त ही है । रूसो की प्रतिष्ठा दर्शन के कारण उतनी नहीं है जितनी 'सोशल कान्ट्राक्ट' नामक ग्रन्थ के लिये, जिस में उन्होंने ने यह दिखाने का यत्न किया है कि 'समाज' का 'आरम्भ' जनता के

पारम्परिक समय (प्रतिज्ञा, इकार, कॉन्ट्रॉक्ट) से हुआ। यह बात महाभारत के शांतिपर्व के राजधर्म पर्व के अ० ६६ में कहे श्लोकों का अनुवाद है,

अराजकाः प्रजाः पूर्वं विनेशुः इति नः श्रुतं ,
परस्परं भक्षयन्तो मत्स्याः इव जले कृशान् ,
समेत्य ताः ततः चक्रुः समयान् इति न श्रुतं ।...
ताः तथा समयं कृत्वा समये न ऽवतस्थिरे ,
सहिताः ताः तदा जग्मुः असुखार्त्ताः पितामहं—
अनीश्वराः विनश्यामो, भगवन् !, ईश्वरं दिश ;
ताभ्यो मनुं आदिदेश ॥ १७-२१.

पुरा काल में सबल मनुष्य दुर्बलों को खा जाते थे, जैसे बड़ी मछलियाँ छोटियों को। तब सबने एकत्र हो कर आपस में समय, इकार, किया कि जो दूसरों को कष्ट दे उस को अपनी मंडली से निकाल देंगे। पर इस प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहे। रोते हुए ब्रह्मा पितामह के, जाति के उद्धतम महापुरुष के, जिन का दुष्ट और सज्जन दोनों ही आदर करते थे, क्योंकि दोनों उन के सन्तान थे, पास गये, कहा, भगवन् !, हम लोगों को एक राजा, ईश्वर, दंडधर, दीजिये जो दुष्टों को दंड दे; ब्रह्मदेव ने मनु को राजा बनाया।

कान्त् तो प्रसिद्धों में भी प्रसिद्ध हैं; इन्होंने यूरोप में वह काम किया जो भारत में गंगेश और उन के अनुयायियों ने किया; नये दुर्बोध मुखपूरक शब्द गढ़े, जिन के अर्थों के वाचक पुराने सरल सरल चिराभ्यस्त शब्द उपस्थित थे। पर मनुष्य की उलटी प्रकृति ही है; 'जिस की बोली का अर्थ दूसरों को समझ न पड़े वही बड़ा पंडित' !। इन के समग्र दर्शन का सार वही है जो वैशेषिक के तीन शब्दों में है, पर-सामान्य, परा-ऽपर-जाति, चरम-विशेष; तथा आचारनीति में वही पुरानी बात 'जो अपने लिये चाहो वह दूसरे के लिये चाहो, जो अपने लिये न चाहो वह दूसरे के लिये मत चाहो'। पर इस सूत्र को व्यवहार में लाने के लिये जिस समाज-व्यवस्था की आवश्यकता है उस का कहीं खरप में भी इन को दर्शन नहीं। हैगेल की भी कुछ ऐसी ही सी कथा है। फिरते निश्चयेन शुद्ध अद्वैत वेदान्ती हुए और इन्होंने ने पहिचाना कि परमात्मा ही एक परसामान्य सर्वव्यापी सर्वसंप्राप्ती है; पर समाज-व्यवस्था का मर्म इन को भी, अथ कि, किसी भी पाश्चात्य दार्शनिक को नहीं विदित था न आज तक है। हाँ, फ्लेटो ने, जो भारतीय व्यवस्था की अवस्था ग्रीस में गये भारतीय यात्रियों से सुना, वाँ स्वयं भारत में भ्रमण कर के देखा, उसके भरोसे उस की कुछ

टूटी फूटी अशुद्ध रूपरेखा अपने 'रिपब्लिक' नाम के ग्रन्थ में लिख दी है। शोपेनहावर और हार्टमॉन के ग्रन्थ तो योग-सूत्र—'प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न-उदाराः वृत्तयः'—की बहुत विस्तीर्ण, बहुत रोचक, वैज्ञानिक टीका है। शोपेनहावर ने यह भूल की कि ज्ञान, 'आइडिया', और इच्छा, ईहा, 'विल्', को पृथक्-कार्य समझा; हार्टमॉन ने इस का प्रतिशोध किया, सिद्ध किया कि दोनों अपृथक्-कार्य, अयुत-सिद्ध, हैं, जो भारतीय दर्शनो का सर्वसम्मत सिद्धान्त हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर भी आजीवन अविवाहित ब्रह्मचारी रहे, ज्ञान-पिपासा की शान्ति में ही निमग्न रहे; ये अघ्यात्म विषय के खोजी और सूक्ष्म-दर्शी नहीं रहे; इन का यत्न, क्रम-विकास-वाद, 'ईवोल्युशन थियरी', के अनुसार, समग्र सृष्टि का इतिहास और सब शास्त्रों का समन्वय करने के लिये था; मानो अंग्रेजी शब्दों में पुराण लिखा; बड़े सचरित थे; देश-देशान्तर में यश फैला, बड़ा आदर हुआ; ब्रिटिश सरकार ने कई बेर इन को महासम्मान-सूचक पदवी देना चाहा, पर ये अस्वीकार ही करते रहे, क्योंकि राज-नीति के विषय में संघराज्य के विश्वासी थे, एकराज्य के नहीं। सम्राट् भुत्सुहितो के समय में जापान की सरकार ने इन से सत्-शासन प्रजा-शिक्षा आदि के विषय में परामर्श की प्रार्थना की; और इन्होंने दिया; पर शिक्षा आदि के विषय का परामर्श अंशतः माना और कार्यान्वित किया गया, किन्तु शासन-विषयक संघराज्य, महाजनतंत्र, के प्रकार का नहीं माना गया, क्योंकि जापानी जनता ढाई सहास्र वर्ष से एकसम्राट् की भक्त हो रही है। इस प्रकार से दार्शनिक विद्वान् से शासकवर्ग का परामर्श मागना पूर्व ही की परम्परागत चाल रही है, कि ऋषि लोग राजाओं का शिक्षण नियंत्रण करते रहे; पच्छिम में यह प्रकार न रहा, न है। मिल् भी तार्किक तो बहुत अच्छे हुए, पर इन की प्रसिद्धि और अध्यात्म दर्शन के लिये उतनी नहीं जितनी इन के तर्क और अर्थशास्त्र सम्बन्धी 'प्रिंसिपल्स ऑफ् लॉजिक्' और 'प्रिंसिपल्स ऑफ् पोलिटिकल् ईकॉनोमी' नामक ग्रन्थों के। इन के 'युटिलिटेरियनिज़्म', 'लिबर्टी', और 'सब्जेक्शन ऑफ् विमेन्' भी बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 'लॉजिक्' में अन्वय-व्यतिरेक से अनुगम, 'इंडकेशन', करने के प्रकार का विस्तृत वर्णन है; 'पोलिटिकल् ईकॉनोमी' में 'मनी', सिक्का, के अर्थ और उद्देश्य, और 'सल्लाई' और 'डिःगंड' 'उपस्थित प्राप्य वस्तु' और 'मांग' 'खपत' के घटाव बढ़ाव से मूल्य के बढ़ाव घटाव आदि विषयों पर अच्छा विस्तृत विचार किया है। 'युटिलिटेरियनिज़्म' में आधुनिक शब्दों में भारतोक्त सिद्धान्त "यत् लोकहितं अत्यन्तं तत् सत्यं इति नः श्रुतं" का विवरण किया है; 'लिबर्टी' में 'स्वतंत्रता' के ठीक अर्थ पर विचार है; 'सब्जेक्शन ऑफ् विमेन्' में स्त्रियों को पददलित नहीं रखना चाहिये, सब प्रकार के अधिकारों में पुरुषों के तुल्य मानना चाहिये, इस पर बल दिया है।

उक्त तीस दार्शनिकों के पीछे भी, १९ वीं शती में, कई ऐसे हुए जिन्होंने नै अन्धली ख्यति पाई, जैसे बर्ग्सन् (फ्रांस), क्रोशे (इटली), रसेल (इङ्लैण्ड). सानटाना (स्पेन में जन्मे, यू० स्टे० अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तेइस वर्ष प्रोफेसर रहे, ब्रिटन में कई वर्ष रह कर मरे), विलियम जेम्स (यू० स्टे० अमेरिका), जान डिवी (यू० स्टे० अमेरिका) । इन में भी बर्ग्सन् और जेम्स अधिक विख्यात हुए । बर्ग्सन् कुछ वेदान्तोन्मुख, प्रतिभावादी, तर्क-शंकी हुए । जेम्स तर्क और प्रतिभा दोनों में विश्वास करते थे; इन के सभी ग्रन्थ 'वैरायेटीज़् आफ् रिलिजिस् एक्सपीरियेंस्,' 'प्रिसिपल्स् ऑफ् साइकॉलोजी, 'प्रोग्मॉटिज़्म', आदि बहुत फैले; कारण यह कि भाषा नितान्त रोचक, अर्थ सुस्पष्ट, बीच बीच में हँसी भी, विज्ञान और अध्यात्मविद्या का संमिश्रण भी; पर इन के विचारों और शब्दों में सब से अधिक प्रसिद्ध 'मॉरल् एक्टिविटीज़् ऑफ् वार' हुआ, अर्थात् 'शस्त्र-युद्ध का नैतिक तुल्य' । जिन अल्पदर्शियों का यह कहना और यह आशा है कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी बदल सकती है और बदल जायगी कि उस में द्वेष और क्रोध मनाक् भी न रह जाय, और केवल राग और काम, स्नेह और प्रेम ही प्रेम बच जाय, उन का इन्होंने ने ठीक ही अपहास और तिरस्कार किया है, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति सुतमां नितमां द्वंद्व-न्याय से ओत-प्रोत है ; पर अब प्रश्न यह है कि इस द्रोहांश वैरांश का उन्नयन उत्कर्षण, 'सर्वलिमेघन', कैसे किया जाय कि उस का वेग भी शांत हो जाय, दुष्टेच्छा की पूर्ति भी हो जाय, और फल मानव जाति के लिये हानिकारक न हो कर हितकारक हो । इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने ने इस प्रकार दिया है कि देश देश की सरकारों को चाहिये कि सब स्वस्थ स्त्री-पुरुषों को अपने अपने जीविकोपार्जक व्यवसायों से दो, तीन, चार घंटा बचवा कर, (विशेष कर युवा-युवतियों को, क्यों कि अधिकतर यौवन में ही शक्तियाँ और राग-द्वेष आदि सब शोभ और वेग प्रचण्ड होते हैं), सार्वजनिक कार्यों में लगावें, यथा दड़ी बड़ी नहरें खोदना, पहाड़ काटना, पर्वतों के भीतर से रेल मोटर आदि के लिये सुरङ्ग बनाना, जंगल काट कर उपजाऊ भूमि बनाना, खेती के लिए हल-चैल चलाना, ऊषर भूमि को उर्वरा करने के लिये उस में पेड़ लगाना, पानी लाना, हिंस्र बन्ध पशुओं से, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भेड़िया, भालू, अजगर, विषधर सर्प, मगर, घड़ियाल, आदि को मारना, समुद्र-यान वायु-यान में चल कर वात्याओं से, समुद्र की पर्वताकार लहरों से, इंशा के वृक्षोन्मूलक थपेड़ी से लड़ना, समुद्र के महात्मत्स्यों का, तिमिञ्जिलों, 'ह्रल्लों' 'शाकॉं,' का शिकार करना-इत्यादि । अस्तु । इन के पीछे भी सैकड़ों अपितु सहस्रों दर्शन की जीविका प्रोफेसरी आदि द्वारा, करने वाले हुए हैं और होते जाते हैं; पर ये कोई नई बात नहीं कहते, प्रत्युत शार्गाली भाषा; 'आर्गन' ही (पृ० २१३) बढ़ाते हैं; इनकी चर्चा व्यर्थ है ।

अब इन पाश्चात्य दार्शनिकों को दर्शन की ओर प्रवृत्त करने के प्रयोजक हेतु क्या हुए, इस को देखना चाहिये। हर्जबर्ग के ग्रन्थ, तथा अन्य जीवनियों से विदित होता है कि किसी न किसी प्रकार का दुःख ही और तन्निवृत्त्युपाय-लिप्सा ही प्रेरक हुए, यथा, किसी को चिरकालिक रोग, किसी को आर्थिक कष्ट, किसी को कामादि-व्याघात आदि। स्यात् ही दो चार ऐसे हुए जिन को शुद्ध कुतूहल और वस्तु-स्थिति-जिज्ञासा हेतु हुए। और उन को भी, सूक्ष्मेक्षिका से देखने से जान पड़ता है कि, यदि अपने दुःख की निवृत्ति नहीं तो दूसरों के दुःख दूर करने के उपाय की जिज्ञासा प्रेरक हुई, जिस के उदाहरण प्रथमाध्याय में बहुत दे दिये हैं। शुद्ध विज्ञान की खोज का भी अन्त में फल यही निकलता है कि उस से जनता का आमुष्मिक नहीं तो ऐहिक ही कुछ न कुछ उपकार हो; जैसा पहिले कह आये हैं, 'सायंस् इज् नॉट फॉर् दि सेक् ऑफ् सायंस बट् फॉर् दि सेक् ऑफ् लाइफ्,' 'विज्ञान के लिये विज्ञान नहीं, अपितु जीवन सौकर्य के लिये'।

अब इस कथा को समाप्त करना चाहिये, और समाप्त करने का इस से कोई दूसरा अधिक अच्छा प्रकार नहीं है कि पूर्वोद्धृत सांख्यकारिका के श्लोक यहाँ पुनः उद्धृत किये जायें; उन श्लोकों में दर्शन के प्रयोजन का समग्र समास-व्यास संपुटित है। 'विविध प्रकार के दुःख मनुष्य को सदा घेरे रहते हैं; उन के कारण और उन को दूर करने का उपाय मनुष्य खोजते हैं; ऐहिक और नरकादिक आमुष्मिक दुःखों की चिकित्सा ऐहिक औषधादिक से, तथा आमुष्मिक की यज्ञ-दान-आदि से होती है; पर ऐकान्तिक आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति ऐसे उपायों से नहीं होती, पुनः पुनः आवागमन जन्ममरण सुखदुःख के भोग से छुटकारा नहीं मिलता; वह मोक्ष अध्यात्म-विद्या, आत्म-विद्या, ब्रह्म-विद्या, सांख्य-योग-वेदान्त से ही मिलता है।'।

दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतोः ;
दृष्टे सा ऽपार्था चेत् ? , न, एकान्तऽत्यन्तोऽभावात् ।
दृष्टवद् आनुश्रविकः, स हि अविशुद्धि-क्षय-ऽतिशययुक्तः ;
तद्विपरीतः श्रेयान् , व्यक्त-ऽव्यक्त-ज्ञ-विज्ञानात् ।

ॐ

सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु ,
सर्वः सद्बुद्धिं भासोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु ।

ॐ

